

प्रकाशक,
गोदुलदास धूत,
नवयुग साहित्य सदन, इन्दौर

प्रथमवार : १९४६

मूल्य
चेन्ट रुपया

विषय-सूची

पहला भाग

१	प्रास्ताविक	१
२	बुनियादी सिद्धान्त	६
३	जनतन्त्र की मुसीबत	१६
४	गांधीजी का तरीका	२४

दूसरा भाग

५	मौलिक अधिकार और कर्तव्य	६४
६	गांव—राष्ट्र की बुनियादी इकाई	६६
७	तहसील और ज़िला पंचायतें	७०
८	प्रान्तीय शासन	७३
९	केन्द्रीय सरकार	७६
१०	न्याय-विभाग	८०
११	चुनावों की पद्धति	८३
१२	रियासतें	८७
१३	राष्ट्र-रक्षा	९०
१४	अल्पसंख्यकों की समस्या	९३
१५	वैदेशिक नीति	१०१
१६	अर्थ और कर	१०३
१७	राष्ट्रीय समृद्धि	१०४
१८	शिक्षा	१०५
१९	अपराध और सज़ा	१०७
२०	सरकारी नौकरियाँ	१०९
२१	विविध	१११
२२	उपसंहार	१११



प्रस्तावना

आचार्य अग्रवाल के इन पन्नों के लिए शायद 'गांधीवादी शासन-विधान' नाम मौजूद नहीं है। सरल और संक्षिप्त नाम के तौर पर वह मानने लायक हो सकता है। आचार्य अग्रवाल का मेरे लेखों का अध्ययन ही इस पुस्तिका के ढांचे का आधार है। कई वर्षों से वह उनकी व्याख्या करते रहे हैं। और क्योंकि उन्हें इस बात का बड़ा ख्याल रहता है कि उस व्याख्या में किसी तरह का कोई उलटा-पलटा या गलती न हो जाय, मेरे देखे बिना वह कोई चीज़ नहीं छूपवाते। इसमें नफा और नुकसान दोनों ही हैं। नफा तो साफ़ ही है। नुकसान यह है कि किसी खास लेख के बारे में पाठक कहीं यह गलत ख्याल न बना देठे कि उसकी हरएक तफसील मेरे ख्याल के मुताबिक है। इसलिए मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि वह ऐसी गलती न करें। इन पन्नों में जो कुछ भी निकल रहा है अगर उसके हरेक शब्द या लफज़ से अपना इत्तिकाक जाहिर करना होता, तो मैं उस चीज़ को खुद ही लिखता। हालांकि अपने दूसरे कामों के साथ-साथ में जितना ध्यान इस तरफ़ दे सकता था, देकर, मैंने दो बार इस विधान को पढ़ने की कोशिश की है, फिर भी इसके हरेक ख्याल और लफज़ को जानने का काम मैं नहीं कर सका हूं। और न औचित्य और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की मेरी भावना ही इस तरह की ज्यादती की मुझे इजाज़त देती। इसलिए मैं जो कुछ कह सकता हूं इतना ही कि सही-सही ख्यालात जाहिर करने के लिए लेखक जितनी सावधानी रख सकता था, उतनी उसने रखी है; इस बात के पुस्तिका में काफी प्रमाण हैं। मैं जिस बात को पसन्द करता होऊँगा उसके खिलाफ़ इसमें मुझे कोई बात नहीं मालूम हुई।

मेरे विचार से जो परिवर्तन या तब्दीलिया इसमें ज़हरी थीं, लेखक ने युशी में वे मंजूर कर लीं।

'विधान' शब्द से पाठक को यह गलत ख्याल न चना लेना चाहिए कि लेखक ने इसमें मधूर्मुख या मुक्खिमिल विधान रखने का दृष्टार किया हो। युद्ध के पश्चात् में उन्होंने यह घिलकुल साफ कर दिया है कि उन्होंने मेरे ख्याल के मुताबिक कौमा विभान होता चाहिए, यह चनाने वाली एक व्यापक न्यू-रेग्या ही इसमें दी है। हिन्दुस्नान के सामने विभान पेश करने के जो अनेक प्रयत्न हो रहे हैं, उसमें आचार्य अग्रवाल के प्रयत्न सों में एह विचार-पूर्ण योग गमभूता हूँ। उनके इस प्रयत्न की विशेषता इस तथा में है कि वक्त की कमी को वजह ने जो में नहीं कर सका वह उन्होंने किया है।

उत्तरना चाहते हुए	
रेल पर	
३० नवम्बर, १९४५	

पहला भाग

: १ :

प्रास्ताविक

निःसन्देह संयुक्त राष्ट्रों ने विश्वव्यापी युद्ध में विजय तो हासिल कर ली। जापान और जर्मनी को विल्सो^१ शर्त आत्म-समर्पण के लिए मजबूर करके उन्हें अपने कदमों में भी झुका लिया। पर अभी यह सिद्ध कर के दिखा देना बाकी है कि संयुक्त राष्ट्रों ने विश्वशान्ति भी हासिल कर ली है। क्योंकि युद्ध-समाप्ति के पहले-पहले ही अटलांटिक चार्टर निर्लंजता के साथ दफना दिया गया था! एक नये नाम से दूसरा “राष्ट्र-संघ” फिर खड़ा कर दिया गया और इन सब के ऊपर है पौटस्डम-घोपणा, जिसके सामने वर्षाय की सन्धि भी फीकी पड़ जाती है। ये सब कुसगुन कोई आशा नहीं दिला सकते। जैसा कि वेन्डेल विल्की ने कहा है, “अगर लड़ाई के दर्मियान हम कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर सकते तो युद्ध के बाद तो यह असभ्य है।” पर्लबर कहती है, “संयुक्त राष्ट्रों की ईमानदारी की सबसे कड़ी कसौटी तो हिन्दुस्तान है। यह जनतन्त्रवादी विटेन अपने साम्राज्य के लिए लड़ रहा है^२।” मानव जाति के इतिहास में इससे अधिक पेचीदा बात और क्या होगी। पर विटेन इसी दो-मुँही नीति पर बराबर अमल करता आ रहा है। उससे यह आशा करना व्यर्थ है कि वह भलमन-साहत के साथ “हिन्दुस्तान छोड़” कर चला जायगा। खैर, जो हो। मुझे तो इसमें जरा भी शक नहीं कि विटेन भले ही हिन्दुस्तान को न छोड़ना चाहे, पर हिन्दुस्तान खुद बहुत जल्दी अपनी राजनैतिक आजादी हासिल कर लेगा। एच० जी० वेल्स अपनी किताब “शेष

१ वन बल्ड पृष्ठ ११८। २ एशिया एण्ड डेमोक्रसी पृष्ठ १६

आँक थिंग्स टु कम” में स्पष्ट दर्शन कर रहे हैं कि एक चार द्वितीय अपनी मजबूती दिखाने के लिए हाथ पैर पटकेगा और उसके बाद उसकी भारत पर की पकड़ एकदम ढीली पड़ जायगी,—छूट जायगी।” मुझे तो यह पूर्ण विश्वास है कि यह छृष्टपद्याहट जो पिछले तीन वर्षों में साफ-साफ प्रकट हो गई है, अब खत्म होने की ही है। आज के इस अंधकार और निराशा का अन्त होगा और हम बहुत जल्दी सुनहरी प्रभाव का उदय देखेंगे। हिन्दुस्तान जैसे मठान प्राचीन एशियाई देश की स्वाधीनता के घरें जगत में शान्ति की स्थापना अमर्भन है। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और प्रेमभाव के मार्ग में हिन्दुस्तान की गुलामी होनेगा एक जवरदस्त और बढ़ना हुश्शा मनसा ही रहेगा। इसलिए संतार के हित की दृष्टि से भी हिन्दुस्तान के स्वतन्त्रता के प्रयत्नों पर रोकना अच्छा नहीं है।

माल उठता है, आजाद हिन्दुस्तान का शासन-विधान कौम होगा? क्या हम, हिन्दूजर्स्टेंट, अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र या नग जैसे किसी पश्चिमी राष्ट्र के विधानों की नकल करेंगे? क्या हम भारतवर्ष की विशेषता, मंसूखति और परम्परा के आधार पर किसी स्वदेशी-शासन-विधान का विकास करेंगे? मुझे लगता है, यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और हमके लिए गतिविहीन गता गच्छुन प्रत्यक्ष स्पष्ट में हमारे हाथों में आने तक ठहरना ठीक नहीं होगा। बल्कि, इसका जवाब हमें आज और अभी दे देना चाहिए।

हिन्दुस्तान मनमुन एक बहुत पुराना देश है। अगर हमके पुराने गांधीवादी विधान का अध्ययन किया जाय तो पता चलेगा कि हिंगा के दर्शनों से हमें यह समझ गती प्रकार के राजनीतिक संगठनों पर ध्यान देना चुप्पा है। ऐसे समर—जव जि शृंगार और नई दुनिया के दर्शनों का दमत्तु नहीं देता या हिन्दुस्तान ने गतिविहीन, प्रकाशर विद्या के, ग्रन्थिविहीन जगत, गहरे जनकन्य, और अगाहर्द्वा-

आदि सब प्रकार के शासनों का अनुभव ले लिया था। 'हिन्दू पोलिटी' में श्री काशीप्रसाद जायसवाल लिखते हैं कि भौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य, राष्ट्रिक, द्वैराज्य, और अराजक प्रकार के शासन हिन्दुस्तान में थे। इनमें से कुछ प्रकार तो शायद अब तक किसी देश ने नहीं आजमाये हैं। इसलिए हम मान सकते हैं कि हिन्दुस्तान शासन-विकास की एक बहुत पुरानी विज्ञानशाला—लेबोरेटरी है। उसके लिए पश्चिम के शासन-विधानों का जो कि अभी सांचे में ढल ही रहे हैं, एक मिश्रण तैयार करना न केवल उसका अपमान होगा, बल्कि इससे हम अपने समाज-विज्ञान-सम्बन्धी सम्पूर्ण अज्ञान को ही प्रकट करेंगे। क्योंकि शासन विधान एक पौधे के समान विकासशील वस्तु है। किसी देश पर उसकी अपनी प्रतिभा और विशेषता के प्रतिकूल एकदम परकीय शासन-विधान को लादना एकदम अवैज्ञानिक बात होगी। शासन की पद्धतियाँ पौधों की भाँति एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह नहीं लगाई जा सकतीं—इस तरह उन्हें लगाना भी नहीं चाहिए। सर जान मारियट के शब्दों में कहें तो “वे व्यापार की वस्तु भी नहीं हैं जिनका दूसरी जगह निकास किया जा सकता हो।”^१ हर देश की अपनी स्वतन्त्र अनन्य साधारण संस्कृति और सम्यता होती है। वही उसकी आत्मा है। राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक हिस्से में उसकी इस आत्मा की रक्षा और विकास-साधन होना चाहिए। सम्पूर्ण और स्वाभाविक विविधता ही जीवन और बुद्धिहीन नकली समानता मृत्यु है।

मुझे समझने में कहीं भूल न हो। मेरा मतलब यह हरगिज नहीं कि दूसरे राष्ट्रों के अनुभवों से हम लाभ नहीं उठावें और यहां एक किस्म की संकीर्ण राष्ट्रीयता का विकास करने में लग जायें। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं चाहता हूं कि कम-से-कम अब तो हम अपने आपको हीन समझना छोड़ दें और बात-बात में पश्चिम की तरफ देखने के बजाय अपने अन्दर देखने की आदत डालें। पश्चिम की नकल करते हुए बहुत

^१ डिक्टेटरशिप एण्ड डेसोक्रेसी—पृष्ठ ६

अर्सा हो गया। अब सही भावना में हम अपनी भारतीय संस्कृति और संस्थाओं पर गर्व करना सीखें।

मैं एक कदम और आगे जाऊंगा। बड़ी सावधानी के साथ भारत-वर्ष ने विकेन्द्रित जनतन्त्री पद्धति का विकास किया था और ग्रामीण जनतन्त्र के रूप में सदियों तक उसकी रक्षा की। यह किसी जातीय साम्यवाद का स्मारक या अवशेष नहीं, बल्कि परिपक्व चिन्तन और पूरी सावधानी के साथ किये गये प्रयोगों का फल था। अपनी असंख्य ग्राम-संस्थाओं के रूप में हमारे देश ने जिस स्वायत्त-शासन का विकास किया था, उसने सदियों तक असंख्य राजनैतिक तूफानों का मुकाबला किया। आज भी एक आदर्श जनतन्त्री शासन के रूप में संगठित हो जाने की क्षमता उसके अन्दर विद्यमान है। मेरा मतलब यह नहीं कि स्थानीय शासन की पुरानी पद्धति को हम पुनः ज्यों-की-त्यों शुरू कर दें। हमारे नागरिक जीवन की मौजूदा हालत के अनुकूल बनाने के लिए हमें उसमें अवश्य ही कई परिवर्तन करने होंगे।

चीसवीं सदी में हिन्दुस्तान में शासन-विधान बनाने के जो प्रयत्न हुए हैं उनपर हम ज़रा एक सरसरी नज़र डालें। सन् १९०६, १९१६ और १९३५ में त्रिटिश सरकार ने जो वैधानिक सुधार जारी किये उनका जिक्र मैं नहीं करूँगा। अंग्रेज विधान-शास्त्रियों का यह निश्चित मत है कि विधानों को बाहर से नहीं लाया जा सकता। इसके बावजूद ये विधान इडलैंड से भारत में भेजे गये। इस देश में जो नवचेतना जागी थी उसके साथ इनका कोई सम्बन्ध नहीं था। महात्मा गान्धी पहले नेता हैं, जिन्होंने अपनी स्वदेशी, संस्कृति और सभ्यता के विकास की तरफ ध्यान दिया। सन् १९०८ में उन्होंने ‘हिन्द-स्वराज्य’ लिखा था। भारत का भावी-शासन विधान कैसे हो इसके आधार-भूत आदर्शों और सिद्धान्तों का वर्णन इस पुस्तक में है। इसके बाद हम सन् १९१६ की कांग्रेस-लीग योजना को लें। किसी खास वैधानिक सिद्धान्त पर नहीं, बल्कि त्रिटिश पार्लमेंटरी पद्धति पर उसकी रचना की गई थी। इस संयुक्त योजना में

सच्चे दिल से एक ऐसी वस्तु बनाने का यत्क किया गया था जो हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए भी स्वीकार्य हो। देशवन्धु चित्तरंजन दास और डॉ० भगवान्दास ने सन् १९२२ की गया कांग्रेस के बाद 'स्वराज्य की एक रूपरेखा' बनाई थी। परन्तु देश के अनेक प्रमुख नेताओं की सलाह से सन् १९२४-२५ में 'दि कामनवेल्थ ऑफ इरिडया विल' देश के सामने रखकर श्रीमती वेसेन्ट ने एक बड़ा भारी और सच्चा बुनियादी काम किया। उनकी कल्पना तो यही थी कि भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर रहकर ही स्वराज्य का उपभोग करे। परन्तु उन्होंने हमारी पुरानी ग्राम-पंचायत प्रथा के आदर्श को ही ऊंचा उठाकर उसे भारत के भावी-शासन विधान का आधार बनाया था। सन् १९२८ में सर्वदल सम्मेलन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई जो नेहरू-कमिटी रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। सन् १९३६ में महात्मा गान्धी के मार्ग-दर्शन में ग्रांध के लिए जो शासन-विधान बनाया गया वह शासन-विधान के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सम्पूर्णतया जनतन्त्रात्मक पद्धति पर राज्य में उसने पंचायती राज की स्थापना कर दी। विधान-निर्माण का सबसे अन्तिम प्रयत्न उस समझौता समिति की रिपोर्ट है, जिसके सम्भाप्ति सर तेज बहादुर 'सप्रू थे।

परन्तु विधान का निर्माण तो भारतीय परम्परा को ध्यान में रखकर ही होना चाहिए। दुःख की बात है कि हमारे बहुत से नेताओं ने भारत की पुरानी संस्थाओं का अध्ययन करने का कष्ट नहीं किया है। राष्ट्र-निर्माण के इस अंग पर अकेले गान्धीजी ही जोर देते रहे हैं। इसलिए मैंने उनसे चर्चा की कि हिन्दुस्तान के लिए उसके अपने स्वदेशी ढंग का स्वराज्य-विधान बनाया जाय तो कैसा रहे। उन्होंने बताया कि ऐसे विधान की जल्दत तो पूरी है। और इसमें मेरा मार्ग-दर्शन करना भी उन्होंने मंजूर किया। मैंने इस विधान का नाम 'गांधीबादी शासन-विधान' तय किया क्योंकि दूसरे किसी की भी अपेक्षा गांधीजी ही भारतीय संस्कृति और परम्परा के प्रतीक और पुरस्कर्ता हैं। इसके अलावा,

इसकी प्रायः हर तफसील पर मैंने उनसे चर्चा की है, और उनके विचारों को सही तौर पर पेश करने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया है।

फिर भी मेरा दावा यह नहीं कि इस पुस्तिका में शासन-विधान का ऐसा सर्वाङ्गपूर्ण ढांचा पेश किया गया है, जिसे देश में केवल जारी करने भर की देर हो। नहीं, इसमें तो केवल उन बुनियादी सिद्धान्तों और उद्देश्यों को पेश किया गया है जिनको स्वतन्त्र भारत के भावी-शासन-विधान में स्वीकृत किया जाना चाहिए। मैं ज़ोर के साथ कह दूँ कि 'विकेन्द्रित जनतन्त्र' के ये आदर्श केवल हवाई सपने नहीं हैं। वे पूर्णतया व्यावहारिक हैं और उनपर अमल हो सकता है। आम चुनावों के बाद विधान निर्माण सभा के सामने स्वतन्त्र भारत के लिए एक माकूल और योग्य विधान बनाने में मुश्किल सवाल खड़ा होगा। अगर इस मौके पर यह निवन्ध हमारे नेताओं और जनता का ध्यान अपने देश की परम्परा के अनुकूल स्वदेशी विधान का निर्माण करने की जरूरत की तरफ आकर्षित कर सका तो मैं मान लूँगा कि मेरा यह परिश्रम पूर्णतया सफल हो गया।

: २ :

बुनियादी सिद्धान्त

मेरा यह इरादा हरिगिज नहीं कि आदर्श राजनीतिक संगठन के मूलभूत सिद्धान्तों पर मैं कोई चिह्नित निवन्ध लिखूँ। फिर भी एक चिरस्थायी राजनीतिक संगठन के लिए आवश्यक कुछ सिद्धान्तों की चर्चा यदां फर लेना जरूरी है। इन बुनियादी कल्पनाओं को जबतक साफतीर पर नहीं समझ लिया जायगा किसी भी विधान का निर्माण निर्थक होगा।

सबसे पहले हम माफ तीर पर यह समझ लें कि कोई एक विधान तमाम देशों के लिए और सदा सर्वकाल के लिए सर्वोत्तम नहीं हो सकता। प्रथमेक देश की पूर्व परम्परा और वर्तमान परिस्थिति को ध्यान

में रखकर ही शासन के रूपों का निर्माण होना चाहिए। वह विधान सर्वोच्चम है जो अमुक समय में, अमुक देश में उन तमाम उद्देश्यों को पूर्णतया सफल करता हो जिसके लिए समस्त सरकारें बनाई जाती हैं।^१ इस दृष्टिकोण पर जोर देने वाला सबसे पहला विचारक शायद अररत्तु था। राज्य का अस्तित्व ही इसलिए है कि जो मनुष्य को—जितनी उसमें ज्ञानता हो—अच्छे से अच्छा जीवन बनाने का मौका दे। साथ ही मनुष्य तभी अपना जीवन सबसे अच्छा बना सकते हैं जबकि प्राप्त परिस्थिति में उन्हें अच्छे-से-अच्छे प्रकार का शासन उपलब्ध हो।^२ इसलिए हम किसी राज्य की खासियत या विशेषता को देखकर उसे अच्छा या बुरा नहीं कहें, बल्कि इसका अन्दराजा हम उसके नागरिकों के प्रत्यक्ष जीवन की अच्छाई-चुराई के मान को देखकर लगावें।^३ इसलिए जुदा-जुदा राज्यों के शासन का लक्ष्य तो मूलतः एक ही होगा परन्तु स्थानीय परिस्थिति के अनुसार उनके रूप निश्चय ही भिन्न-भिन्न होंगे।

राज्य का लक्ष्य

पर राज्य का लक्ष्य क्या हो ? सचमुच यह एसा सवाल है जिसके आस-पास पुराने जमाने से लेकर आजतक राजनैतिक विचारधारायें लगातार चक्रर काटती रही हैं। यूनान के निवासियों के लिए तो राज्य ही जीवन का सबसे श्रेष्ठ तथ्य था और जिस प्रकार तमाम नदियां वह कर समुद्र की तरफ जाती हैं; मनुष्य की सारी क्रियायें और कोशिशें उसीकी तरफ और उसीमें प्रवाहित होती थीं।^४ अथेन्स के निवासियों के लिए सबसे बड़ी गौरव की वस्तु उनका नागरिकत्व था। नागरिकत्व के सिद्धान्तों के अन्दर उनके लिए नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति भी समाविष्ट थी।^५ शहर के मानी थे सामाजिक—
 १ डिक्टेटरशिय प्रॅण्ड डेमोक्रेसी प० २१७ २ अरिस्टोटेलस 'पोलिटिक्स'
 ३ किलॉसफी आफ अवर टाइम्स—प्र० ३३१
 ४ 'प्रिसिपल ऑफ पोलिटिकल साइंस'—गिलर्वाइस्ट प० ४६०
 ५ 'ए हिस्ट्री ऑफ पोलिटिकल थियरी'—प्र० सेबाहन प० १३

‘समिलित जीवन’। फलतः यूनान के तमाम राजनैतिक सिद्धान्तों की जड़ में इस “समिलित जीवन की शान्ति और सुख” को हम पाते हैं। अफलातूं के लिए राज्य एक विश्व था, जिसमें व्यक्ति अपना स्थान छूट कर अपने योग्य कर्तव्यों को अदा कर सकता था। अरस्तू नैतिकता को मानता था। राज्य का आधारभूत मुख्य सिद्धान्त समान अधिकारवादी व्यक्तियों की इस संस्था का लक्ष्य “अच्छे-से-अच्छे जीवन” की सिद्धि था। रूमियों ने राज्य का लक्ष्य क्या हो इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया। उनकी शक्तियां ज्यादातर साम्राज्य के विस्तार में ही लगीं। मध्ययुगीन ईसाई पादरी वर्ग के लेखक साधारणतया राज्य को ईसाई धर्म (किञ्चियानिटी) की रक्षा के लिए ईश्वर का एक औजार मानते थे। हॉब्स कहता कि राज्य का काम मुल्क में व्यवस्था कायम रखना है जिससे रिआया की सम्पत्ति की रक्षा हो। लॉक की नज़रों में राजन का उद्देश्य जान, माल और आजादी की रक्षा था। रूसो राज्य को आम जनता की इच्छा की पूर्ति के लिए मजूर किया गया एक सामाजिक इकरारनामा मानता था। हेरोल ने यूनान के इस सिद्धान्त को पुनः जीवित कर दिया कि राज्य हो सबसे बड़ा तथ्य है। उसने लिखा है कि “राज्य का अस्तित्व संसार में प्रत्यक्ष ईश्वर की सत्ता का प्रमाण है। पृथ्वी पर वही सब से बड़ी सत्ता है। साथ, साधन सब कुछ वही है” वेन्थम ने यह प्रतिपादन किया है कि अधिक से अधिक जनता का सर्वाधिक द्वितीय-साधन के लिए राज्य का अस्तित्व होना चाहिए। हर्बर्ट स्पेनर ने राज्य को पारस्परिक विश्वास के लिए खड़ी की गई एक कम्पनी कहा है, जिसका काम था सबकी सम्पत्ति की समिनित स्वयं से रक्षा करना। जान स्टुअर्ट मिल ने बड़े जोरों के माथ प्रनिराग्नि किया है कि व्यक्तियों की स्वतन्त्रता की रक्षा करना राज्य का परिवर्त करनेवाला है कि वर्गीकरण गमाज के द्वारा करने के बाद राज्य मुक्त हो जाए औपनि आप न्यतम हो जायगी। एमार अपने जमाने में प्रो० लास्टी राज्य को सामाजिक जीवन के

समृद्धि के लिए निर्मित वन्धुभाव से खड़ा किया गया संघ मानते हैं^१। वर्नाड शा मानते हैं कि 'राज्य का लक्ष्य किसी एक वर्ग का नहीं बल्कि समस्त जनता का अधिक-से-अधिक हित-साधन हो'। वेल्स चाहते हैं कि सारा संसार एक राज्य हो। मनुष्य के अधिकारों की नये सिरे से परिभाषा की जाय और उसके आधार पर नये कानून बनायेजायं जो मनुष्य-मात्र के लिए लागू हों और उनके जरिये प्रत्येक मनुष्य की स्वतन्त्रता, स्वास्थ्य और सुख की रक्षा हो।^२

भारत का राजनैतिक चिन्तन प्रधानतया उसके पुराने दो महाकाव्यों रामायण और महाभारत में, मनुस्मृति में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और शुक्राचार्य के नीतिसार में हमें मिलता है। रामायण में राम के आदर्श-राज्य का वर्णन है, जिसमें व्रताया गया है कि लोग सुखी, शान्ति-शील और समृद्ध थे। महाभारत के शान्तिपर्व में भीष्माचार्य राज्य के कर्तव्यों को गिनाते हुए कहते हैं कि राज्य का मुखिया नागरिकों का संरक्षक हो जिससे वे अपने-अपने धर्म अर्थात् कर्तव्यों का पालन करते हुए शान्ति और सुख पूर्वक धर्ममय जीवन विता सकें। कौटिल्य भी राज्य के आधार-भूत तत्त्वों का वर्णन करते हुए व्रताते हैं कि राज्य या राजा का सबसे पहला कर्तव्य प्रजा का हित माध्यन कर उसे सुखी रखना है। उनके सुख में वह अपना सुख माने और उनके भले में अपना भला।^३ शुक्रनीति में राजा सब से पहले अपने प्रजाजनों का रक्षक और कल्याणकर्ता माना गया है। नागरिकों को वह इस प्रकार अपने अनुशासन में रखते कि जिससे सब अपने-अपने धर्म और वर्णाश्रम के कर्तव्यों का पालन करें और दूसरे के क्षेत्रों में कदम न रखें।

१ ग्रामर आफ पोलिटिक्स पृ० ३७

२ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पृ० १२२

३ अर्थशास्त्र पृ० ३८

राज्य-निष्ठा और व्यक्तिनिष्ठा

राज्य के उद्देश और कर्तव्यों के बारे में भारतीय और यूरोप के विचारकों ने जो कुछ कहा है उस सबका अगर हम ध्यान से अध्ययन करेंगे तो हमें दो विलकुल स्पष्ट-विचार धारायें दिखाई देंगी। एक प्रकार के विचारक राज्य-संस्था को अधिक महत्त्व देते हैं। राज्य की सत्ता के आगे व्यक्ति की अपनी स्वतन्त्रता उनकी नजरों में गौण है। व्यक्ति को दबाकर वे राज्य का गौरव बढ़ाकर उसे देवतुल्य बना देते हैं। उनकी नजरों में राज्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है व्यक्तियों को अपने अनुशासन में रखना। यहांतक कि मनुष्य शक्तिशाली राजनीतिक संगठन का एक पुर्जामात्र बन जाता है। यह विचार-धारा हमें अधिनायक या एक-तन्त्र की तरफ ले जाती है। दूसरे प्रकार के विचारकों की नजरों में प्रधान वस्तु व्यक्ति अर्थात् मनुष्य है। व्यक्ति की स्वतन्त्रता और विकास सबसे अधिक महत्त्व रखते हैं। वे मानते हैं कि राज्य का कर्तव्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है। मनुष्य उनकी नजरों में साधन या श्रीजार नहीं बल्कि साध्य और आसाध्य है। कानेट कोडेनहोवेकालेरजी ने अपनी पुस्तक 'टोटेलिटरियन स्टेट अगेन्स्ट मैन' (अर्थात् मानव विरोधी अधिनायक तन्त्र) में इन दो प्रकार की राजनीतिक विचार धाराओं को क्रमशः स्टार्टन और अथोनियन कहा है। स्टार्टन आदर्श अधिनायक तन्त्र पुरस्कर्ता है और अथोनियन आदर्श मनुष्य को सर्वेसर्वा मानता है। स्टार्ट में मनुष्य का समस्त जीवन राज्य के लिए था। अर्थात् में राज्य का अस्तित्व ही मानव की सेवा के लिए माना गया था। इन दो विचार-धाराओं को समाज-निष्ठा और व्यक्तिनिष्ठा आदर्शों के नाम से भी युकारा जाता है। पर जैसा कि देखा हम देखते हैं सत्य इन दोनों के मुन्द्र सामंजस्य में है।

राज्य का काम और उद्देश तो व्यक्ति और राज्य के हितों का गान्धीगृणी ममन्य दोना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो स्वतन्त्रता और अनुशासन दोनों भी हम ममान महत्त्व हैं। हमारा वज्रन इन

दोनों के मध्य में हो। राज्य का कर्तव्य है कि व्यक्ति और समाज के हितों के बीच सामंजस्य के लिए अनुकूलतायें निर्माण करे, उसे बढ़ावा दे और मजबूत करे। व्यक्ति राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करे और राज्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करे और उसे अपने व्यक्तित्व का पूर्णतया विकास करने में सहायता करे। प्रो० टॉनी इसी कल्पना को “फंक्शनल सोसायटी” (कर्तव्यशील समाज) इन शब्दों में प्रकट करते हैं। अर्थात् समाज की सेवा के कार्यों से अधिकार अपने आप प्राप्त हो ही जाते हैं। दूसरे शब्दों में व्यक्तियों के अधिकार और स्वतन्त्रता समेत, आनुपंगिक हों। इनकी कुछ शर्तें हों। वे अनिवृत्त और एकदम सर्वतन्त्र स्वतन्त्र न हों।

श्री ए० जी० गार्डिनर लिखते हैं, “व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अर्थ तो होगा सामाजिक अराजकता। सबकी स्वाधीनता की रक्षा के लिए प्रत्येक को अपनी स्वतन्त्रता पर कुछ निर्वन्ध लगाने होंगे। हाँ, जो वातें पूर्णतया व्यक्तिगत हैं और जो किसी दूसरे आदमी की स्वतन्त्रता में वाधा नहीं पहुंचाती, उनके बारे में हम जो चाहें कर सकते हैं”। मान लीजिए मैं किसी नदी या झरने के किनारे एक लम्बा कोट पहनकर या बालों को लम्बा छोड़कर और नंगे पैर धूमना चाहता हूँ तो मुझे कौन मना करेगा? आप चाहें तो मेरी हँसी कर सकते हैं। पर मैं इसकी परवा नहीं करूँगा। यह स्वतन्त्रता मुझे है। इसी तरह अगर मैं अपने बालों में खिजाव लगाना चाहूँ, या मोम लगाकर अपनी मूँछों को खड़ी रखने की मुझे इच्छा हो—(हालांकि वात तो जरा बेहूदा ही है) या मैं ऊंची दीवाल-चाली टोपी पहनना चाहूँ, बदन में गरम कोट और पैरों में सैडल पहनूँ अथवा रात देर से सोकर सबेरे जल्दी उठना चाहूँ तो यह सब मैं अपनी इच्छानुसार कर सकता हूँ। इसमें किसी आदमी से पूछने जाने की जरूरत नहीं।^३ पर जिस क्षण हम इस मर्यादा से बाहर कदम रखते हैं हमारा कार्य स्वतन्त्र दूसरों की स्वतन्त्रता से मर्यादित हो जाता है। दुनिया में १ ‘एक्विजिटिव सोसाइटी’—प्रो० टॉनी २ ऐसे ‘आँन दि रूल ऑफ दी रोड’

बहुत से लोग हैं। उनकी और हमारी स्वतन्त्रता के बीच में सामंजस्य स्थापित करना होगा।

पूर्ण व्यक्ति-स्वतन्त्र का सिद्धान्त अब खत्म हो चुका है। अब वह फिर उतना जोर नहीं पकड़ सकता। किन्तु राज्य की बेदी पर मनुष्य के व्यक्तित्व की बलि देने की प्रवृत्ति अत्यन्त निन्दनीय है। काण्ठ ने टीक ही कहा है कि हर आदमा इस तरह वर्ताव करे कि उससे मनुष्यता का—चाहे वह हमारे अपने अन्दर हो या दूसरे के अन्दर हो—हित साधन हो। मनुष्यता साधन नहीं साध्य हो। उदाहरणार्थ राज्य के सैनिक संगठन के लिए व्यक्ति को दबाना या उसके साथ अन्याय करना मनुष्यता के प्रति पाप है। इस तरह समाज को एक सैनिक संगठन में बक़ड़ देने का अन्तिम परिणाम अधिनायक तन्त्र में होता है। इसमें शासक और शासित दोनों का पतन है। सर्वसत्ताधीश राज्य तो इस तरह व्यक्तियों को निरे शून्यवत् बना देता है; फिर ऐसे सर्वसत्ताधीश तन्त्रों में—चाहे वे फासिस्ट हों या समाजवादी अन्तिम सत्ता एक ही या दोनों गिने कुछ आर्त मानवों के हाथों में पहुंच जाती है, जो लाखों करोड़ों आदमियों की किस्मत के विधाता बन जाते हैं। परन्तु अगर मनुष्य की मनुष्यता की रक्षा करनी है तो इन आर्त मानवों से—चाहे वे कितने ही उदात्त और उच्चाशय हों—उसे बचाना ही होगा। जिस शासन में मनुष्यों की इस तरह मूर्ति पूजा होती है उसमें सम्मता की कोई आशा नहीं हो सकती।^१ हिंदूलर और मुसोलिनी का चमत्कार भरा उत्थान और उतना ही आश्वर्यजनक पतन दूसरे उन्मत्त अधिनायकत्व की व्यर्थता के ज्वलन्ता प्रभाष्य है। हिंदूलर चाहे जिन्दा हो या मर गया हो आज तो वह केवल कथा-कहानियों का विषय बन गया है।

स्वभाव जनतन्त्र

स्व ने एक नवे प्रकार के जनतन्त्र का विकास किया है जिसे मज़र और कियानों का राज कहते हैं। मानवादी शासन का उद्देश्य ? पर्सीज प्राचिनिकल लोट इन छार्ट-जार्ज यन्ताई शो ३४१

वर्गहीन जनतन्त्री समाज का निर्माण है। पर ऐसे समाज की रचना जनता को निर्देशिता के साथ इस आशा से सैनिक संगठन में जकड़कर की जा रही है कि आगे चलकर यह शासन गायब हो जायगा। पर जैसा कि प्रो० ऐल्डस हक्सले ने कहा है इस अत्यन्त केन्द्रित सत्ताधारी शासन का नाश या तो महायुद्ध से हो सकता है, या नीचे से उठी क्रान्ति से। वह अपने आप गायब हो सकता है यह मानने के लिए तो तनिक भी कारण नहीं है।^१ जॉन गुन्थर को भय है कि यह मजूर और किसानों का अधिराज तो नहीं होगा पर उनपर अधिराज हो जायगा।^२ प्रो० जोड़ अपनी किताब गाइड ट्रु दि फिलासफी ऑफ मारस एण्ड पोलिटिक्स में लिखते हैं:—

“इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अधिनायकत्व जैसे-जैसे वह पुराना होता जाता है—प्रकृत्या ढीला नहीं—अधिकाधिक कठोर होता जाता है। टीका और आलोचनायें सहने की शक्ति उसकी घटती जाती है और वह अधिकाधिक अधीर—उतावला होता जाता है। संसार में आज जो घटनायें घट रही हैं वे इस विचार का समर्थन करती हैं। फिर भी कम्यूनिस्ट सिद्धान्तों में इतिहास की इन शिक्षाओं के ठीक विपरीत यह बताया जा रहा है कि किसी खास क्षण पर अधिनायक शासन अपने यन्त्रों की गति को पलट देंगे, वे सत्ता को छोड़ देंगे और अबतक जो स्वतन्त्रता देने गे इनकार किया जाता रहा है वह दे दी जायगी। पर न तो इतिहास और नमानस शास्त्र इस परिणति की सम्भवनीयता को स्वीकार कर सकते हैं।”

प्रो० गिन्स वर्ग अपनी पुस्तक ‘समाज का मानस’ (सायकॉलॉजी ऑफ सोसायटी) में बताते हैं कि किस प्रकार सत्ता को केन्द्रित करनेवाला हर प्रकार का शासन एक-तन्त्री बनता जाता है। आचार्य विनोबा भावे भी यही मानते हैं। क्योंकि सत्ता का केन्द्रीकरण चाहे पूँजीवादी हो या समाजवादी,

उसमें हिंसा, दमन और सैनिकवाद तो होता ही है ।^१

जनतन्त्र के पक्ष में

इसलिए संसार के सामने केबल एक ही रास्ता है—जनतन्त्र । मनुष्य के व्यक्तिगत को सुश्वसित रूप से विकास करने का अवसर उसीमें मिलता है या यां कहे कि मिलना चाहिए । जहां उसके अन्दर मनुष्य को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता दी जाती है तदा साथ-साथ वह व्यक्तियों को यह भी याद दिलाता रहता है कि राज्य में न्यायोचित अधिकारों के साथ-साथ राज्य या समाज के प्रति भी उनके कुछ कर्तव्य हैं । लिकन ने जनता द्वारा, उसके अपने हित में अपने (जनता के) शासन को जनतन्त्र कहा है । यद्यपि अतिपरिचय के कारण यह कथन एक मामूली मुहावरा बन गया है फिर भी हम मानते हैं यह कहीं अधिक महत्वपूर्ण है । जैसा कि श्रीमती एलेन थोर मॉजेल्ट ने कहा है—जनतन्त्र में नीति और धर्म दोनों हैं । उसमें चन्द्रु-भाव और एक दूसरे के प्रति गहरा आदर भाव है । यद्यां तरु कि हमारी अपनी भी सफलता सज्जी और वास्तविक वही होगी जब वह दूसरी की गफलता में महायक होगी ।^२

प्लेटो जनतन्त्री शासन को प्रमुख नहीं करता था, क्योंकि उसमें शासन मुम्ल चरित्रीन लोगों के वर्ग के अधीन चले जाने की मम्भावना थी ।^३ इसानिए जनतन्त्र के बजाय तत्त्वज्ञ राजा का वुद्धिमत्ता भरा एक-तन्त्री शासन उसकी नज़र में अधिक अच्छा था । रूसो फहरा ‘ममृण्ड जन-तन्त्र मनुष्य के काम की नीति नहीं है । इसका अगर देवताओं का देश हो तो भले ही उसका शासन जनतन्त्री हो सकता है’ ।^४ यही तात्पर्य इस नर्तन्त्रे पर पड़ता है नि जनतन्त्र ममाज में श्रीमत टर्ज़ की मरी शमानगा पैदा कर देता है । यह देखियें कि जनता का

१ गणराज्य (हिन्दी संस्करण) पृ० २४-२५

२ दिसंग येसिय थोक देनोर्मसी पृ० १३

३ रिंदरन युक्त आठवीं ।

४ दिसंग दृष्टि, अन्याय औया

गज निर्माण करने से प्रशंसि रुक जायगी। लेकी की राय है कि जन-तन्त्र में कदम-कदम पर हस्तक्षेप का भय रहता है और स्वाधीनता के विचारों का विरोध (antithetical) होता है। विस्मार्क जनतन्त्र को घृणापूर्वक भावुकता का रोना कहता था। प्रसिद्ध फ्रैंच लेखक फैकेट जनतन्त्र को 'अयोग्यता का' सम्प्रदाय कहता था। नित्यो कहता, जनतन्त्र राजनैतिक संगठन को पतन की ओर ले जाता है। बॉल्टेर जनतन्त्र का इसलिए विरोधी था कि वह मनुष्यों को बैल—पशु मानता था और इसलिए उन्हें आर, जुए और धास का ही पात्र समझता था। हमारे अपने जमाने में बर्नार्ड शा लिंकन द्वारा की गई जनतन्त्र की परिभाषा को अद्भुत घेव-कूफी मानते हैं। वे कहते हैं लोगों ने शासन में काफी रुकावटें डाली हैं, बगावतें की हैं, परन्तु उन्होंने सही मानों में शासन—राज चलाने का काम तो कभी किया ही नहीं।^१

पर इतना सब होने पर भी हमें कहना होगा कि जनतन्त्र ही एक पद्धति है जिसमें व्यक्ति और राज्य के हितों का सामंजस्य ही सकता है। जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा है, यद्यपि तमाम देशों के लिए सदा सर्वकाल किसी एक प्रकार का शासन सर्वोत्तम नहीं कहा जा सकता, फिर भी यह तो मानना ही होगा कि अकेला जनतन्त्र ही 'अच्छे जीवन' के विकास के लिए आवश्यक परिस्थिति निर्माण कर सकता है। लॉर्ड ब्राइस ने कहा है—समाज के अधिक-से-अधिक संख्या में समान अधिकारों के साथ शासन में समान अधिकारों के साथ हिस्सा लेने का मौका मिलने से समाज के समस्त व्यक्तियों को बड़ा सन्तोष मिलता है और इससे समाज का हित भी होता है।^२ इसके अलावा जैसा कि प्रो॰ लेनार्ड ने कहा है—जनतन्त्र निरी एक शासन-पद्धति नहीं है। वह एक सामाजिक आदर्श भी है। और आदर्श जितना उच्च होगा उतना ही व्यवहार में

१ एवरी बडीज पोलिटिकल वॉट्ट इंज चाट—पृ० ३३६

२ मोडर्न डेमाक्रसी—जिल्ड १, पृ० ५०

उसका मुश्किल होना भी स्वाभाविक ही है।^१

जनतंत्र अत्यन्त मूल्यवान वस्तु है, क्योंकि उसमें मानवता का आदर है। मिसेस वेड कहती है कि राजनीति में जनतन्त्र का यह चमत्कार है कि उसमें मनुष्य के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए अवकाश है।^२ जान रुद्रर्ट मिल लिखता है कि 'जनतन्त्र का सबसे बड़ा गुण तो यह है कि अन्य किसी भी पद्धति को अपेक्षा इसमें अधिक अच्छे और ऊंचे प्रकार से राष्ट्र के चरित्र का विकास होता है। शिक्षणात्मक दृष्टिकोण से भी जनतन्त्र अच्छी चीज़ है क्योंकि जैसा कि प्रो॰ वर्न्स कहते हैं 'सबसे अच्छी शिक्षा वह होती है जो मनुष्य खुद-खुद प्राप्त करता है। राजनैतिक उद्धि के जिन न्योतों तक दूसरी पद्धतियां पहुँच भी नहीं पाती हैं जनतन्त्र वहां पहुँचकर उनका उपयोग कर लेता है।'

परन्तु माथ दी यह भी मंजूर करना होगा कि जीवन की अन्य कितनी ही अच्छी चीज़ों की भाँति जनतन्त्र में भी कई बुराइयां हैं। आज इनकी वज्रइ में जनतन्त्र नहीं आकर आगई है। सच तो यह है कि आज वह कर्मादी पर है। उनसे भविष्य सन्देश में पढ़ गया है, कल इसका क्या स्वर होगा यह नहीं सकते। आइए, जनतन्त्र पर आये इस मंकट का दम लगा सिनार से चिरचर करें।

: ३ :

जनतन्त्र की मुमीवत

मन १५१८२३ द्वारा दृष्ट जनतन्त्र की रक्षा और युद्धी की देखभाल में विभिन्न विभागों के लिए वाहा गता था। वर्मा उस लकड़ी के दाढ़ कुमिला की दर्दी निगमा हुई। नर्सिंद की मानि ने शान्ति की घोषणा करने के बाद इसे दूजे दर्दी की वृनिदाद लान दी जो

^१ देवर्णी। दि. १५ दृष्ट कालार्देशन पृ० ८

^२ मिसेस वेड पृ० ८४

भगवान् की दया से अब समाप्त हो गया है। जनतन्त्र के लिए संसार को सुरक्षित करने के बजाय ममार के सामने यह समस्या खड़ी हो गई कि वह अपने आपको इस तथाकथित जनतन्त्र से कैसे बचावे। जनतन्त्री युग को जबरदस्ती लाठने के प्रयत्न ने धूरोप में अधिनायक तन्त्री अमलदारियों को जन्म दिया। इन अधिनायक तन्त्रों का मुकाबला करने के लिए जनतन्त्री सरकारों ने जान में या अनजान में अपने प्रदेशों से भी जनतन्त्र को देश-निकाला दे दिया। अटलांटिक चार्टर के शब्दों में दूसरा महायुद्ध इस तत्त्व के लिए लड़ा गया कि दुनिया के तमाम देशवासी अपने लिए जिस प्रकार की चाहें शासन-पद्धति कायम कर सकते हैं। यह उन्हें अधिकार है। परन्तु धन्य है संयुक्त राष्ट्रों की पाश्विक निर्लज्जता को कि लड़ाई अंतम भी नहीं हो पाई, कि उन्होंने इस चार्टर को ज्यों-कान्यों—सर्वा सलामत—अतल महासागर में हुवो दिया, ताकि आंगे किसी को चौंकने-उलाहना देने की गुंजाइश ही न रहे। पिर तो—एक बड़ा “बी फॉर विक्ट्री” ही लड़ाई का एक मात्र और सच्चा उद्देश रह गया। सैन क्रान्सिसकों परिषद् को कार्रवाई ने भी इस बात को सन्देह के परे सिद्ध कर दिया कि इन तीन बड़ों की एक मात्र महत्वाकांक्षा यही है कि अब इमेशा के लिए वही संसार में सर्वोपरि रहें। वेशक, वे ज्ञान से स्वतन्त्रता और जनतन्त्र का भी उच्चारण करते रहते हैं और दलित राष्ट्रों का मन रखने के लिए स्वशासन तथा पूर्ण स्वतन्त्रता का अर्थ करने में बाल की खाल निकालते रहते हैं। यह सच है कि इटली, जर्मनी और जापान की फासिस्ट सरकारों को पराजित कर दिया गया है, परन्तु फासिज्म का भूत तो पहले से भी अधिक बलशाली बन गया दीखता है। ‘विजय’ खुद-ब-खुद सिद्ध नहीं, बल्कि उसके लिए अवसर प्रदान करनेवाला एक साधन मात्र है। जनतन्त्र को वह एक मौका देता है। उस मौके का उपयोग होगा ही इसका कोई निश्चय वह नहीं दिला सकती।^१ और अब यह लगभग साफ हो गया कि एकबार

^१ रिफ्लेक्शन्स ऑन दि रेवोल्यूशन ऑफ अबर टाइम्स—पृ० १४६

फिर यह मौका गंवा दिया गया है। बर्नाड शा कहते हैं—“पश्चिम में कहीं भी जनतन्त्र नहीं है। वहां तो सर्वत्र विशुद्ध दौलतमन्दों की—ओर अब तो नख-शिवान्त—फासिस्ट हुक्मतें हैं।” ये बचन इग्लैंड की मौजूदा मन्त्र-सरकार को भी पूर्णतया लागू होते हैं क्योंकि साम्राज्यवाद और जनतन्त्र आपस में कभी मेल खा ही नहीं सकते। सिर्फ इतना ही फर्क है कि अब चर्चिल के फासिस्ट के बजाय वहां मजदूर हुक्मत की टिकटेटरी कायम हो गई है। संयुक्त-राष्ट्र (अमेरिका) नया और जरा अधिक अक्तमन्द राष्ट्र है। उसे प्रत्यक्ष “दिखनेवाले साम्राज्य” की पर्वाह नहीं है। परन्तु छिपे-छिपे वह अपने अदृश्य साम्राज्य के द्वाय पैर—खास तौर पर चार तरह की आजादी के नाम पर—निश्चित रूप से फैला रहा है। पर इन तीनों में सांवियट रूप सबसे अधिक होशियार है। समाजवाद के लिए मंसार को सुनित करने के लिए वह मारी दुनिया को पटाकान्त रखने पर तुल गया है। इन तरह इस दूसरे मदायुद्ध के बाद भी जनतंत्र का भविष्य अन्यन्य अन्यकारमय और निराशाजनक है। और अब कीं मंसुक गढ़ी ने विभक्त राष्ट्र होने का निश्चय कर लिया तो गम्भीर लीजिए कि मंसार का पुर्ण विनाश निश्चित है। ब्रिटेन का यागन करनेवाली दो दर गटी के अभावगाली द्वारा “ऐली ऐम्लड” ने गाक तोर पर लिया दिया है कि “मंसार आते ही जातर तिर मदायुद्ध की तरफ चल पड़ा है। इस गति में तो बहुत जल्दी ही दिल्ली को दौन पर शोक झरना होगा वर्तीर रमस्त द्वारा में जारी रहेगा था।”

पूर्णीयादी जनतन्त्र

दक्षिण एवं उत्तरी आत्मनादुर आरम्भ में मृग रने के दूसरी दूसरी के दूसरे के लिए यहां दूर जानेवाली आपनी है। दोनों दूसरी दूसरी के लिए यहां जी अस्तित्व की वास्तविकता वाली जगत् वाली जगत् जी यहां जी जाना चाहिए गया है। पूर्णीयादी जनतन्त्र में भी यहां जी जाना चाहिए गया है, जो यहां दूसरी दूसरे के लिए दूसरा दूसरा होना चाहिए। यह आसानी से दूसरा दूसरे दूसरी दूसरी दूसरा दूसरा होना चाहिए।

लालच जनता को दिखा सकता है। पर उसकी साफ-साफ शर्त यह होगी कि इस आजादी का प्रयोग खुद पूँजीवादी पद्धति की जड़ काटने के लिए नहीं किया जायगा। और ज्यों ही उसे यह भय हो जाता है कि उसका अपना अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है तो वह फौरन फौलादी घूँसे को छिपानेवाले मखमली दस्तानों को निकाल फेंकता है। वहां तो तभी तक ठीक है जब तक उनकी राग में राग मिलाते जाइए। अपने पुराने वैभव और मौजूदा ऐशो-आराम की रक्षा के लिए वह चीते की तरह भपट्टने में कभी नहीं हिचकता। और फासिल्म आखिर और क्या होता है? भूतकाल के वैभव की हिंसापूर्वक रक्षा द्वारा भविष्य को क्लैद करने का यत्न करनेवाले विशेष अधिकारवालों का मृत्यु-गीत ही तो है। दूसरे शब्दों में अपनी जान चचाने के लिए पूँजीवादी जनतंत्र की वह अन्तिम छृटपटाहट है^१। असल में पूँजीवाद और जनतंत्र के बीच स्वाभाविक और आंतरिक विरोध है। पूँजीवादी समाज में उत्पादन के साधनों के मालिक का उत्पादन में मुख्य उद्देश नका होता है। इसके विपरीत जनतंत्र में मनुष्य अपने राजनैतिक अधिकारों का उपयोग राज्य की सत्ता द्वारा समाज की सुख-सुविधा बढ़ाने में करने का यत्न करता है। आर्थिक जगत के एकतंत्र का राजनैतिक जनतंत्र के साथ तब तक वराचर मेल कायम रहा जब तक पूँजीवाद अपने विकास-विस्तार की अवस्था में था। परन्तु पिछले महायुद्ध के बाद से पूँजीवाद का हास शुरू हो गया। फलतः आज हम समाज में व्यापक बेनारी फैली देखते हैं जिसके परिणाम-स्वरूप विपुलता के बीच अकाल का चमत्कार दिखाई दे रहा है। जनता ने राजनैतिक सत्ता का उपयोग अपनी माली-हालत सुधारने के लिए करना चाहा। पर यह तो मालदार लोगों के विशेषाधिकारों को सीधी चुनौती थी। इसीलिए फासिस्ट डेंग की डिक्टेटरी और सर्व सत्ताधारी हुक्मत शुरू हुई। आज ब्रिटेन और युक्तराष्ट्र का तथाकथित जनतंत्र भी नख-शिखान्त (सर से पैर तक) फासिस्ट बन गया है। ब्रिटेन

^१ 'च्छेअर दू बी गो फ्राम हियर'?

और जर्मनी के बीच प्रकार का नहीं, केवल मात्रा का ही अन्तर रह गया था। क्योंकि इटली और जर्मनी में समाजवाद का खतरा अधिक तीव्र था, इसलिए वहां का फासिज्म अधिक आकामक और निरंकुश हो गया; वहस, यहाँ।

जनतन्त्री देशों में पूर्णवाद के सामने कोई ऐसा गम्भीर खतरा नहीं व्यक्त था। इसांलए वह अपेक्षाकृत अधिक शांत और सहिष्णु रह सकता था। पर सच्चा जनतन्त्र उस समाज में असम्भव है जो अफलातूं के शब्दों में कहें तो “गुरीओं के शहरों” और अमीरों के शहरों” में व्यक्त हो। जब तक राज्य में समाज का विभाजन आर्थिक बगों में प्रकट होता रहेगा, ऐसे बगों के अनुचरों के हाथों में ही उत्पादन के साधन होंगे या उनपर उनका प्रभुत्व होगा।¹

इन्हिए आर्थिक क्षेत्र में जिन बातों परों बुनियादी गिरावटों के तीर पर अभी मान रखा गया है जब तक वे नहीं चढ़लेंगी तब तक इमारे समाज की प्रहृति में भी कोई घाट फ्रक्क नहीं होगा। तब तक जनतन्त्र चरण्यर पूर्णवाद का पर्याप्त दृष्टा गुलाम बना रहेगा। क्योंकि धारा-मन्त्राओं, अपायामी, प्रसारान् यहाँ, शिक्षा गृहाश्च तथा प्रचार के अन्य

यू-एन्सीज़' तक पूंजीवादी जनतंत्र की शरारतें वरावर ज्यों-की-त्यों नयम हैं।

लोकशाही चनाम हुल्लड़शाही

आधुनिक जनतंत्रों में पैसे का जो बुरा प्रभाव है उसके अलावा बुनाव की प्रथा भी बड़ी दोषपूर्ण और अनिष्ट है। मतदाताओं के संघ बहुत विशाल होने के कारण मतदाता और उम्मीदवारों के बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क एकदम असम्भव हो जाता है। इसलिए चुनाव की मुहिम अनिवार्य हो जाती है, जिसकी बुराइयों से हम सब खूब परिचित हैं। बर्नाड शा अपने अनोखे ढग से इन चुनावों की सभाओं को “निन्दनीय और घृणित” बताते हैं जिनमें “समझदार आदमी बगैर नशा किये इस तरह चीखते-चिल्हाते रहते हैं, मानो उन्हें कोई होश ही न हो। यहां तक कि राह से निकलता हुआ मामूली आदमी कहीं उन्हें देख ले तो उसे यह निश्चय हो जाय कि वह कहीं किसी पागलखाने में चला आया है, जहां अत्यन्त भयानक मानसिक दुरबस्था में पहुंचे हुए पांगलों को रक्खा जाता है।” वे श्रागे कहते हैं “जैसे-जैसे मेरी उम्म बढ़ती जाती है, यह देखकर मुझे और भी अफसोस होता है कि राष्ट्र की सरकारों ने भी इसे एक गम्भीर काम समझ रखा है। यह तो असह्य है और मनुष्य-स्वभाव तथा नागरिक सम्मता के लिए एकदम घृणोत्पादक है।” मतदार हल्के बेहद बड़े होने के कारण इस बात का कोई निश्चय नहीं रहता कि प्रतिनिधियों का चुनाव सही-सही ही होगा। गांधीजी कहते हैं “यह तो लोकशाही के बजाय हुल्लड़शाही है। सभ्य, योग्य, और शान्त स्वभाववाले आदमी तो चुनावों की इस फजीहत से अपने आपको दूर ही रखना पसन्द करते हैं, इसलिए अविवेकशील और माटी खालवाले उम्मीदवार रिश्वत और अनैतिकता के बल पर जीत जाते हैं। फिर इन चुनावों में खर्चा भी इतना लगता है कि लोकशाही पूंजीपतियों के कब्जे में ढकेल दी जाती है और कुल

^१ ‘दी पोलिटिकल मेड-हाउस इन अमेरिका एण्ड नियर होम’ पृ० २५-२६।

मिलाकर उन्हींके हाथों में सत्ता भी पहुंच जाती है। इसके अलावा बड़े-बड़े क्षेत्रों में चुनाव की पद्धति एक प्रकार से यन्त्रवत् निर्जीव बन जाती है, क्योंकि वोटर प्रायः उम्मीदवार को नहीं जानते, जो कहीं दल-न्यूनिटों में बैठे दलों द्वारा खड़े कर दिये जाते हैं। इसलिए चुनावों में जनता को दिलचस्पी भी बहुत कम होती है। क्योंकि शासन और कानून बनाने की क्रिया में ज़बरदस्त केन्द्रीकरण होता है। इसलिए आमतौर पर प्रायः तमाम जनतन्त्री देशों के वोटरों में अब इन वस्तुओं के प्रति एक प्रकार की अखंचि-सी हो रही है। क्योंकि जब चुनाव होते हैं तब वोटरों को पोलिंग स्टेशनों पर एक तरह से खींच-खींचकर ले जाना पड़ता है। संयुक्त-राष्ट्र जैसे प्रगतिशील देश में भी साधारणतया केवल आधी जनता, जिसे मत देने का अधिकार है, उसका उपयोग करने के लिए जाती है। जिस पद्धति में मस्तकों की नहीं बल्कि केवल हाथों की गिनती होती है, जहां मतों को तौला नहीं, बल्कि केवल गिना जाता है, वहां यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि बुद्धिशाली वर्ग उसमें बहुत उत्साह दिखावेगा।

राजनैतिक चुनाव-संगठन

सुसंगठित राजनैतिक दलों के अत्यधिक प्रचार के कारण स्वतंत्र विचार और कार्य के लिए बहुत कम अवकाश रह जाता है। एक आदमी किसी जगह के लिए अच्छे-से-अच्छा उम्मीदवार हो सकता है। पर अगर वह उन दलों के नेताओं का प्रीतिपात्र नहीं है, तो उसके चुने जाने की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। धारासभाओं में तो पार्टी के सदस्यों के पीछे भी हमेशा 'हंगर' लेकर लगे रहने की झड़रत रहती है। मेरा मतलब यह नहीं कि इस आधुनिक पार्टी-प्रथा में कोई भलाई ही नहीं है। उदाहरणार्थ राष्ट्रीय महत्व रखनेवाले कुछ खास-खास प्रश्नों पर लोकमत को शिक्षित करने में इसका बड़ा उपयोग होता है। पर यह तो मानना ही होगा कि आधुनिक पार्टियां बहुत सख्त हो गई हैं। ए० आर० लॉट के शब्दों में यह पार्टी-प्रथा यन्त्रवत् जड़-सी प्रतीत होती है। इसमें नोकमन को पूरी तरह और मही-मही रूप से बांटकर नहीं प्रकट किया जा

सकता ।^१ एच० जी० वेल्स ने लिखा है—“हमारी वर्तमान चुनाव-प्रथा प्रातिनिधीक शासन-पद्धति का निरा मज़ाक है। अटलांटिक के दोनों तरफ बहुत बड़े-बड़े, मूर्खता भरे और भ्रष्ट पार्टी-संगठन कायम हो गये हैं।”^२ धारा सभाओं में विभिन्न विषयों की बहसों में अब कोई सार नहीं रहा है, क्योंकि प्रत्येक वाद-विवाद का परिणाम पार्टियों की संख्या पर पहले ही से निश्चित रहता है। तथाकथित प्रातिनिधीक पार्लमेन्टों के प्रति अब जनता में कोई आदर नहीं रह गया है; वे तो निरे ज़बानी जमा खर्च की दूकानें रह गई हैं।

केन्द्रीकरण

चूंकि संसार को युद्ध के भूत ने पछाड़ रखा है, हर देश को सदा बाहरी आक्रमण का भय सताता रहता है। और इसलिए वहाँ राजनैतिक सत्ता का अधिकाधिक केन्द्रीकरण हो रहा है। पार्लमेन्टरी काम के भी अत्यधिक केन्द्रीकरण ने लोकशाही को मृगजल और कीमती तमाशा बना दिया है। धारा सभाओं का काम बहुत बढ़ गया है। इससे वह अच्छी तरह होता भी नहीं। एक तो अकारण देर हो जाती है, और समय तथा शक्ति का भी अपव्यय होता है। इनसे लोकशाही के इस बुनियादी सिद्धान्त की भी हत्या हो जाती है कि “जिसका सबसे सम्बन्ध है उस पर सबको विचार करना चाहिए।”

आधुनिक लोकशाही की थोड़े में ये खामियाँ हैं। और भी कई खामियाँ आसानी से गिनाई जा सकती हैं पर उनका हमारे मुख्य उद्देश से कोई सम्बन्ध नहीं। यहाँ तो इतना ही कहना काफ़ी होना चाहिए कि लोकशाही आज एक ऐसी जगह खड़ी है जहांसे दो अलग-अलग रास्ते उसके सामने हैं। उसके सामने जीवन-मरण का प्रश्न है। उसे जीना तो है; पर वह किस राह को पकड़े?

^१ प्रिन्सिपल्स ऑफ पालिटिक्स—पृ० १६२

^२ दिन्यू चल्ड ऑर्डर—पृ० १२३

: ४ :

गांधीजी का तरीका

लोकशाही इस संकट को कैसे पार कर सकती है ? इस सम्बन्ध में आधुनिक विचारकों ने कई तरीके सुझाये हैं । रामसे भ्योर अपनी किताब “क्या लोकशाही असफल रही ?” (इज डेमोक्रसी फेल्यूअर ?) नामक पुस्तक में उसे अनुपात वाले प्रतिनिधित्व की हिमायत करते हैं, जो सिगल ट्रान्स्फरेवल वोट से हो । क्योंकि इस पद्धति से देश में छोटी संख्यावाले बहुत बड़ी बहुमति प्राप्त नहीं कर सकेंगे । और जब पार्लमेंट बनेगी तब उसमें सभी रायों का समुचित प्रतिनिधित्व हो जायगा । उम्मीदवारों की नामज़दगी के समय पार्टियों की चुनाव हलचलों का भी इस सानुपात प्रतिनिधित्ववाली पद्धति द्वारा अन्त हो जायगा; क्योंकि उससे देश के उत्तमोत्तम लोगों को मौका मिल जायगा । इसके अलावा मिठो भ्योर पार्लमेंट में काम के बोझ को कम करने के लिए कमिटियां बना देने की पद्धति भी सुझाते हैं । हालांकि उनके सुझाव व्यावहारिक हैं, परन्तु इनसे समस्या पूरी तरह हल नहीं होती । ये सुझाव केवल उसे ऊपर से छू जाते हैं । सानुपात प्रतिनिधित्व अच्छी वस्तु है । परन्तु केवल उससे काम न चलेगा । किर प्रत्यक्ष शासन और कानूनों के बनाने में जो सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है उसका भी हल इस कमिटी वाले सुझाव में नहीं है । लार्ड ब्राइस अब सारी आशा मनुष्य जाति की बौद्धिक और नैतिक प्रगति में लगाये बैठे हैं । वे कहते हैं “जब मनुष्य की बुद्धि का विकास होगा, तो पारस्परिक सहानुभूति और कर्तव्य भावना भी जारी रही और इनके आते ही सब कुछ ठीक हो जायगा ।” परन्तु आधुनिक जनतन्त्री हुक्मतों में जो सहन घुसी हुई है, वह गुमेच्छाओं से नष्ट नहीं होगी । इस समस्या की उलझनों को सुलझाने

लिए कुछ रचनात्मक और ठोस उपायों को भी काम में लाना होगा। लास्की को आशा है कि “स्थापित स्वार्थों को समाज की संपत्ति बनाकर भावी विपुलता के अन्दर से हम गरीबी को बिलकुल नष्ट कर सकेंगे और इससे समाज में स्थायी और मज़बूत लोकशाही की नींव डाल सकेंगे। पर क्यां केवल सम्पत्ति पर समाज का स्वामित्व काफी होगा ? हम पहले ही देख चुके हैं कि सोवियट रूस में भी सम्पत्ति पर समाज का अधिकार हो गया है। पर इसका परिणाम क्या हुआ है ? हम देखते हैं कि वहां किस प्रकार सत्ता का केन्द्रीकरण हुआ है, और किस प्रकार समाज को सैनिक संगठन में जकड़ दिया गया है। सर स्टेफर्ड किप्स कहते हैं कि “हमको शासन के ऐसे रूपों का निर्माण करना चाहिए कि जिनमें आर्थिक संयोजन और सम्पूर्ण केन्द्रीकरण की जो कार्य क्षमता होती है उसका उस राजनैतिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रतां के साथ, जो केवल लोकशाही के अद्वार ही पाई जाती है, पूर्ण समन्वय हो”। चेकोस्लोवाकिया के प्रेसीडेंट एडवर्ड वेन्स लोकशाही नेता के गुणों की एक लम्बी फेरहरस्त गिनाते हैं। उसके अन्दर कई गुणों का सुन्दर समन्वय होना चाहिए। उदाहरणार्थ वह एक ऊंची कोटि का आदमी हो, उसकी बुद्धि परिपक्ष और सुसंस्कृत हो, उसका ज्ञान शास्त्र-शुद्ध हो, सूफ़-बूफ़ अच्छी हो, उसमें तेज हो, जलदी निर्णय और तुरन्त काम करने की क्षमता हो तथा शारीरिक बल हो और नैतिक सामर्थ्य भी हो।^१ पर सबात यह है कि ऐसे काविल आदमी हमें मिलेंगे कहां ?

अपने दस्तूर के मुताबिक बर्नार्ड शा का इस पर भी एक मौलिक सुझाव है। उनकी राय है कि बालिग मताधिकार लोकशाही को जान से मार डालता है। ‘टाइम एण्ड टाइड’ के एक ताज़ा अंक में वे लिखते हैं—“मैं प्राणिनिज्ञान की उस शाखा का विद्यार्थी हूं, जिसे मनुष्य-स्वभाव कहते हैं। कहा जाता है कि जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज़

^१ डेमाक्सी अप-हू-टेट—पृ० १०७

^२ डेमोक्सी टुडे एण्ड टुमोरो—पृ० २१२

है। यह भी माना जाता है कि २१ साल की उम्र हो जाने पर हर आदमी की राजनैतिक योग्यता और होशियारी एकदम अनन्त गुनी बढ़ जाती है और यह कि वह कभी भूल कर ही नहीं सकता। मेरे लिए तो यह परियों के देश की कहानी जैसी वस्तु है। मैंने इसे कभी सही नहीं माना है और न कभी इस मान्यता को मैंने अपने विचार का आधार बनाया है।” इसलिए उनका सुझाव है कि “योग्य और परखे हुए आदमियों की एक समिति या सभा हो और वह देश का शासन करे। हाँ, उस पर कड़ी से कड़ी टीका करने का और उसे हटाने तथा समय-समग्र पर बदल देने का भी जनता को ज़रूर अधिकार हो।”^१ उनकी राय यह है कि लोकशाही के हिमायती का असली काम यह है कि वह कोई ऐसी कसौटी ढूँढ़ निकाले जिससे उच्च प्रकार के स्त्री या पुरुष कानून-निर्माताओं को फौरन पहचाना जा सके। इनकी फिर एक मण्डली बनादी जाय और जब ज़रूरत हो इस मण्डली में से समाज अपनी धारा-सभाओं के लिए कानून-निर्माताओं का चुनाव कर लिया करे। इस तरह शा ऐसे शासन को अच्छा मानते हैं जिसे केन्द्रित सत्ता वाली लोकशाही कहा जा सकता है। परन्तु हम आदर पूर्वक इन अपूर्व नाटककार से पूछना चाहते हैं कि इस उक्त प्रकार के आदमियों की कसौटी का निर्णय कौन करेगा? साफ़ है कि ये बड़े कानून-निर्माता अपने आपको राष्ट्र के उद्धारक या देवता बताकर खुद ही यह काम अपने कन्धों पर ले लेंगे। इसलिए शा की कल्पित लोकशाही भी सच्ची लोकशाही नहीं; सर्वसत्ता-धारी तन्त्र ही होगा।

तब लोकशाही किस राह को पकड़ेगी? हमारी राय है कि उसे गांधीजी का तरीका ही अपनाना होगा, जिसमें दो बुनियादी सिद्धांत हैं अहिंसा और विकेन्द्रीकरण। इन सिद्धांतों को मैं जरा विशद कर दूँ।

अहिंसा

महात्मा गांधी की राय है कि लोकशाही की रक्षा अहिंसा से ही है

^१ एवरी बड़ीज़ पोलिटिकल वॉट इज़्ज़ वॉट—पृ० ३४१

सकती है, क्योंकि जिस हद तक उसमें हिंसा की सहायता ली जायगी वह गरीबों का भला या रक्षा नहीं कर सकेगी। “लोकशाही के बारे में मेरी यह कल्पना है कि उसके अन्दर कमज़ोर से कमज़ोर को भी अपने विकास के लिए उतना ही अवकाश मिलना चाहिए जितना कि सबसे बलिष्ठ को। हिंसा के अवलभवन में यह कभी सम्भव ही नहीं है।” आज पश्चिम में लोकशाही जिस रूप में प्रचलित है, वह नाज़ीज़म या फासीज़म का ही एक सौम्यसा रूप है। हम यो भी कह सकते हैं कि साम्राज्यवाद की नाज़ी या फासिस्ट प्रवृत्तियों को छिपाने के लिए ऊपर से डाला गया वह एक चोगा मात्र है।^१ फिर “लोकशाही और हिंसा आपस में एकदम बे-मेल चीज़े हैं। जो राष्ट्र आज कहने भर को जनतन्त्री है उन्हें या तो साफ़-साफ़ तौर पर सत्ता के पूर्ण केन्द्रीकरण की तरफ जाना होगा या अगर उन्हें सचमुच जनतन्त्री बनना है तो साहस पूर्वक अहिंसा का अनुगामी होना पड़ेगा। अन्यथा सच्चा जनतन्त्री शासन एक सपना ही बना रहने-वाला है।^२ पूँजीवादी समाज तो प्रत्यक्ष शोषण है। और शोषण चाहे वह किसी प्रकार का हो उसकी प्रकृति में ही हिंसा है। इसलिए अगर शोषण को मिथ्याना है, तो हमें अहिंसक समाज या अहिंसक राज्य की स्थापना करनी होगी। इस समाज की रचना निश्चय ही आर्थिक स्वतंत्रता और समानता के आधार पर ही हो सकती है क्योंकि वैर आर्थिक न्याय के सच्चे अर्थों में राजनैतिक जनतन्त्र का अस्तित्व ही असम्भव है।

इस आर्थिक समानता और स्वतंत्रता को हम कैसे लावें? एक रास्ता है सोवियट कम्यूनिज़म का, जैसा कि रूस में है। व्यवहार में उसका अर्थ है किसानों और मजदूरों की डिक्टेटरी अर्थात् मालदार लोगों का हिंसक और निर्देयता के साथ दबा दिया जाना। इसमें खुद मजदूरों और किसानों का भी जीवन इतनी कठोरता और इतनी पूर्णता के साथ जकड़ दिया जाता है कि उसमें स्वतंत्रता या लोकशाही जैसी कोई वस्तु ही नहीं

१ ‘हरिजन’ ता० १८-५-१९४०

२ „ ता० १२-११-१९३८

रह जाती। दूसरे शब्दों में कहें तो इलाज बीमारी की अपेक्षा भी अधिक तकलीफ देह हो जाता है। ओरिस ब्रुजकूज ने ठीक ही कहा है कि 'मनुष्य के व्यक्तित्व को पूर्णतया दवा देनेवाली एक लेखियेथन प्रणाली के शासन का ज़िक्र हॉब्स ने किया है, वह इस समाजवादी राष्ट्र में जितनी पूर्णता के साथ पाई जाती है, उतनी न तो पुराने ढंग की पश्चिमी राजसत्ताओं में थी, और न आज की जनतन्त्री शासन-प्रणालियों में है।'^१ मेक्स ईस्टमन सोवियट रूस का जनरलस्ट हिमायती था। पर उसका भी भ्रम वाद में दूर हो गया। वह लिखता है—“अब मेरा ख्याल है कि मजूर और किसानों के राज की स्थापना के नाम पर, या रोमन साम्राज्य की स्थापना के लालच से या अन्य किसी भी नाम से जब मुट्ठी भर आदमी एक मज़बूत संगठन बनाकर सत्ता को अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर वे चाहे कितनी ही होशियारी के साथ जनता को अपने साथ शामिल कर लें, उसका परिणाम होगा सत्ता के पूर्ण केन्द्रीकरण में ही।^२ और केन्द्रीकरण, नये से नये साधनों से, अत्याचार का दूसरा नाम मात्र ही है। युद्ध के यन्त्र को अत्यन्त कार्यक्षम बनाने के नाम पर भी ऐसे अत्याचारी शासन में मनुष्य के व्यक्तित्व के स्वाभाविक और स्वतन्त्र विकास का गला धोया जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल के शब्दों में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि “राज्य का मूल्य उसके द्वारा शासित व्यक्तियों के जीवन से आंका जाता है।” नागरिक अपने आपको राष्ट्र के काम के लिए, चाहे वह कितना ही अच्छा हो, चुपचाप सौंप दें, इस बहाने उन्हें बुलाकर किसी भी राष्ट्र को अपने प्रजाजनों के विकास की रोकना नहीं चाहिए। अगर कोई राष्ट्र ऐसा करेगा तो वह देखेगा कि छोटे आदमियों के बल पर कोई बड़ा काम नहीं हो सकता।^३ इसीलिए तो जनतन्त्र का विकास अहिंसात्मक तरीकों से करना परम आवश्यक है।

१ इकनामिक प्लैनिंग इन सोवियट रशा—२० ७६

२ स्टालिन्स रशा एण्ड क्राइसिस इन सोशलिज्म—२० १२

३ ऑन लिवर्ड (यिंकर्स लायब्ररी) पृ० १४३

विकेन्द्रीकरण

तब अहिंसक जनतन्त्र का रास्ता क्या है ? वह है विकेन्द्रीकरण । हिंसा समाज को निश्चितरूप से केन्द्रीकरण की तरफ ले जाती है । और अहिंसा की प्रकृति है विकेन्द्रीकरण । गांधीजी हमेशा से राजनैतिक और आर्थिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण की ज़रूरत पर ज़ोर देते रहे हैं । और इसका रास्ता उन्होंने यह बताया है कि गांवों को जितना भी हो सके स्वावलम्बी और स्वशासित बना दिया जाय । ऐसा समाज अहिंसक संगठन का सुन्दर नमूना हो सकता है । अलवत्ता, उनका मतलब यह तो हरिगिज नहीं है, कि ग्रामीण गणतंत्रों को अपने पुराने रूप में ही ज्यों-कास्थों पुनः स्थापित किया जाय । यह न तो संभव है और न इष्ट ही । हमारी आधुनिक परिस्थिति और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उनमें आवश्यक सुधार हमें करने ही होंगे । फिर पुराने ग्रामीण गणतन्त्र भी एकदम दोष हीन तो नहाँ थे । पर हा, यह ता मानना हा हागा कि इन ग्रामीण गण-तन्त्रों में विकेन्द्रित और अधिक-से-अधिक स्वशासित आर्थिक व राजनैतिक संगठन के रूप में एक आदर्श आर्थिक और राजनैतिक संगठन के बीज तो थे हा । इसलिए गांधाजी की निश्चित राय है कि भारत के भावी शासन-विधान में गांवों का मुख्य स्थान हो । उनमें अहिंसा और मानवता के आधार पर गृहोदायों का संगठन हो और उन का शासन पूर्णतया और साधा जनतन्त्री आधार पर हो । फिर सब गांव भी तथा उनकी प्रवृत्तियां भी आपस में एक दूसरे के साथ मज़बूती के साथ समर्थित हों । गांधाजी कहते हैं “वह गज्य सबसे अच्छा होगा जहाँ शासन कम-से-कम होगा ।” राजनैतिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण और कम करने के पक्षपाती अकेले गांधीजी ही नहीं हैं । पश्चिम के अधिकांश प्रगतिशाली राजनैतिक विचारक भी इसकी ज़रूरत महसूस करने लगे हैं । प्लूरालिस्ट, गिल्ड सोशलिस्ट सिरेंडेलिस्ट और अनार्किस्टों^{*} का

१ हरिजन २४-८-४०

* १ प्लूरालिस्ट—ये लोग मानते हैं कि हरएक व्यक्ति को एक समय में एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए ।

आपस में तफतीलों के बारे में भले ही मतभेद हो, पर सब-के-सब एक बात में सहमत हैं। सभी की राय है कि जनतन्त्र के अमल में फ़र्क करके उसे सौम्य बना देना जरूरी है। शासन में राजनैतिक तथा आर्थिक दोनों क्षेत्रों में जो आज अत्यधिक केन्द्रीकरण हो रहा है उसके बे सब विरोधी हैं। प्र०० जाड ने लिखा है—‘‘अगर सामाजिक ... अर्थात् सर्व सम्मत कार्यों में मनुष्यों का विश्वास फिर से जगाना है तो ‘राज्य’ के छोटे-छोटे ढुकड़े करने हंगे और उसके कार्यों का इस तरह बंटवारा करना होगा कि एक ही आदमी कई छोटी-छोटी समितियों में एक साथ रह सके, जिनको उत्पादन तथा स्थानीय शासन सम्बन्धी अमली काम करने की सत्ता हो। इनके सदस्य की हैसियत से व्यक्तियों को पुनः यह अनुभव करने का मौका मिलना चाहिए। राजनैतिक दृष्टि से उनका भी कुछ महत्व है, उनकी भी कोई सत्ता है और वे सचमुच समाज की कोई सेवा कर रहे हैं। इस दिशा में विचार करने पर यह स्पष्ट होगा कि हमें शासन के यन्त्र का आकार-प्रकार भी बदला ना होगा। छोटे-छोटे क्षेत्रों में स्वायत्त इकाइयां बनाना होगी ताकि उनमें काम करने वाले अपने राजनैतिक परिश्रमों का फल प्रत्यक्ष रूप से देख सकें। उनको सुह विश्वास हो जाय कि जहां सच्चा स्वशासन है, समाज पर उनकी इच्छा-अनिच्छा और विचारों का असर पड़ता है; क्योंकि समाज और वे अलग-अलग नहीं,

२ गिल्ड सोशलिस्ट—ये लोग मानते हैं कि उद्योग-धन्धों का नियंत्रण राज्य और मजदूरों के सहयोग से होना चाहिए।

३ सिरिडकेलिस्ट—ये लोग मानते हैं कि उत्पादन और वितरण के साधनों को ट्रैड यूनियनों (मजदूर संघों) के अधीन रहना चाहिए।

४ अनाकिंस्ट (अराजकतावादी)—ये लोग मानते हैं कि समाज को अपनी ऐसी स्वाभाविक साधारण स्थिति में पहुंचा देना चाहिए जिसमें राज्य या किसी शासन-तंत्र की आवश्यकता न हो।—अनु०

एक ही हैं।^१ प्रो० कोल लिखते हैं “जनतन्त्र केन्द्रीकरण के खिलाफ ही है। वयोंकि जहां-जहां समुदाय की इच्छा के प्रकट होने की ज़रूरत महसूस होती है, वहां आत्मा खुद अपने आपको तत्काल और वहीं प्रकट करना चाहता है।” सबकी एक समिलित मुख्य धारा बनाकर उसमें उसे प्रवाहित करने से उसकी अंतःस्फूर्ति नष्ट हो जाती है, और साथ-साथ व्यक्तित्व भी।^२ “फेवियन सोशलिज्म” नामक अपनी एक अन्य पुस्तक में कोल ने आगे लिखा है—“अगर हम बिलकुल मामूली खी-पुरुषों में मिलकर काम करने की शक्ति बांट देना चाहते हैं और चाहते हैं कि वे सार्वजनिक कामों को समझने लगें तो हमें अपने समाज का निर्माण करकरां के छोटे-छोटे जनतन्त्रों के आधार पर करना होगा।” एलडस हक्सले ने कहा है—अच्छे समाज के निर्माण का राजनैतिक उपाय यह है कि सत्ता का केन्द्रीकरण करके समाज को छोटे-छोटे स्वशासित ज़िम्मेवार घटकों में बांट दिया जाय।^३ सत्ता के केन्द्रीकरण से व्यक्तियों की स्वतन्त्रता की हानि होती ही है, और इससे जिन देशों में अब तक जनतन्त्री हुक्मत थी, उनमें समाज सैनिक संगठन में उत्तरोत्तर अधिकाधिक जकड़ता जा रहा है। अगर यही पद्धति जारी रही तो हम शायद इस बात को भूल जावेंगे कि जनतन्त्र मनुष्य के लिए है तन्त्र के लिए मनुष्य नहीं। जनतन्त्र एक साध्य का साधन है, इसलिए मनुष्यों की सामाजिक और मानसिक सुविधा के अनुकूल हमें जनतन्त्र को बनाना होगा। आधुनिक समाज-शास्त्री भी मानते हैं कि मनुष्य छोटे-छोटे समूहों में सबसे अधिक सुख का अनुभव करता है।^४ राय ग्लैरडी का कथन है कि “यदि मनुष्य के स्वभाव की इस विशेषता का हम ध्यान नहीं रखतेंगे तो संसार में नवीन समाज की रचना करने की हमारी तमाम बड़ी-बड़ी

१ माडर्न पोलिटिकल थियरी—पृ० १२०-२१

२ ए गाइड टू माडर्न पालिटिक्स—पृ० ५३२

३ एरडस एरड मीन्स—पृ० ६३

४ दी फ्यूचर ऑफ एकानोमिक सोसायटी—रॉय ग्लैरडी—पृ० २५१

योजनायें चरुनाचूर हो जावेंगी। कार्ल मनहीम कहता है कि लिपिये कीड़े की भाँति मनुष्य अपने छोटे से समाजरूपी स्त्रीप के बाहर ज़िन्दा नहीं रह सकता। प्रो० जिन्सवर्ग भी तो यही कहता है। समाज के एक अंग होने की भावना मनुष्य का अपने छोटे-छोटे समूहों में बन्धु-भाव के प्रेम से जोड़ देती है; प्रेम और एकता के इन बन्धनों में बंधे समाज में ही जनतन्त्र सफल हो सकता है; अन्यत्र नहीं। केन्द्रित सत्तावाली आधुनिक ढंग की जनतन्त्री हुक्मतों में यह चीज़ नहीं पाई जाती।” इसीलिए तो आजकल के प्रातिनिधीक ढंग के राष्ट्रों की खामियों का विश्लेषण करने के बाद प्रो० एडन्स हमें सलाह देते हैं कि “बुराई की ज़़़इ तक पहुंचकर सत्ता को विकेन्द्रित और सौम्य बनाओ।” प्रो० लास्की विकेन्द्रीकरण को इसलिए पमन्द करते हैं कि जहां सत्ता अत्यधिक रूप से केन्द्रित है ऐसे शासन के मातहत मनुष्य निरे आज्ञा-पालन का अधिकारी रह जाता है और उसकी सारी सर्जन शक्ति मर जाती है। वह यन्त्र की तरह ज़़़इ बन जाता है। केन्द्रीकरण से यक्सापन पैदा होता है। और इसमें वह स्फुर्ति नहीं जो एक स्वतन्त्र व्यक्ति में होती है, जो हर जगह और हर मौके पर प्रकट होती रहती है।^१ प्रसिद्ध समाजशास्त्री लेवीज मम्फोर्ड सुझाता है कि देहात में ऐसे छोटे-छोटे समाजों की रचना करनी चाहिए, जिनको अपना शासन करने की पूरी-पूरी आज्ञादी हो। सच्चे और समाज के लिए अत्यन्त आवश्यक जनतन्त्र की यिन्हा पाने की वे सबसे अच्छी जगहें होंगी। नौकरीशाही वृत्ति के खिलाफ ऐसे समाज एक अमूल्य और रामबाण दवा हैं। स्थानीय समस्याओं के सही सही हल ढूँढ़ने के लिए जानकारी भरी चर्चाओं के लिए भी उनसे खूब अवकाश मिलेगा। लार्ड ब्राइस कहते हैं कि “जनतन्त्र का जन्म सबसे पहले इन छोटी-छोटी इकाइयों में ही हुआ। और यहींसे जनतन्त्र के पुरस्कर्ता और प्रणेताओं ने अपने सिडान्त पहले-पहल कायम किये।

१ दि मॉडर्न स्टेट, (अध्याय नवां) —पृ० २३४

२ प० इन्ट्रोडक्शन दु पोलिटिक्स—पृ० ६३

शासन-संस्था पर सच्चे लोकमत का किस प्रकार असर पड़ता है, इसका अध्ययन भी यहीं सबसे अच्छा हो सकता है; क्योंकि जनता के सामने चर्चा के लिए जो विषय आते हैं उनमें से अधिकांश की उनको प्रत्यक्ष जानकारी होती है।^१ स्थानीय स्वशासन के लाभों को विशद करते हुए डा० वेनीप्रसाद लिखते हैं :—

“स्वशासन की सबसे उत्तम इकाई वही है जहांकी परिस्थिति का जनता को पूरा ज्ञान हो और लोग एक दूसरे के जीवन तथा चरित्र तक से परिचित हों। गावों में, कस्बों में या ऐसे ही छोटे-छोटे समाजों में स्वशासन—सच्चे जनतन्त्र के लाभ प्रकट होते हैं। उनमें नागरिकोंचित देश-प्रेम जागता है, मनुष्य को अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर देखने का अभ्यास होता है, सहयोग की आदतों को प्रोत्साहन मिलता है, निर्णय करने की शक्ति का विकास होता है और लाखों-करोड़ों को अपना शासन आप करने का मौका मिलता है, जो दूर की प्रातिनिधीक धारा-सभाओं आदि में जाने की आशा भी नहीं कर सकते। कस्बों और जिलों का स्वशासन केन्द्रीय धारासभाओं और शासन के बोझ को बहुत हल्का कर देता है। आजकल के संसार में घड़े-घड़े राज्यों के मतदार-संघों में व्यक्ति विलकुल झूब-सा जाता है। यह पद्धति व्यक्तियों को इस तरह झूबने से बचा लेगी। भौतिक शक्तियों को देखकर मनुष्य में जिस प्रकार अपनी असमर्थता का भान होता है, कुछ-कुछ इसी प्रकार की असमर्थता के भाव विशाल शासन-यन्त्र भी उसके दिल में पैदा कर देते हैं और इनसे वह दैवतादी-सा बन जाता है। स्थानीय स्वशासन से यह बुराई दूर हो जाती है।

यूनान के शहरी राज्य

यूरोप में प्राचीन यूनान के शहरी राज्यों में इसी तरह का स्थानीय स्वशासन था। सर्वोच्च राजनैतिक सत्ता समस्त नागरिकों की सभा की

^१ मॉर्डन डोमोक्रसीज (भाग दो) पृ० ४८६

थी। वह सभा खुद सरकार, पार्लमेंट, मनिमण्डल, धारा-सभा और न्याय-विभाग—सब कुछ थी। नागरिक रोज़ आपस में मिलते-जुलते थे। एक दूसरे को नज़दीक से जानते थे। एक ही छोटे से समाज के सदस्य थे। इसलिए पृथक् और सुसंगठित पार्टीबनियों की तथा चुनाव के लिए धुंआंधार प्रचार की भी वहां कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वे राज्य इतने छोटे-छोटे होते थे कि नागरिक-सभा में चोट देने का जिनको अधिकार होता, वे सब एक जगह एकत्र हो सकते थे और वहां उन्हें सारी बातें मनुष्य रुबरु व ज़वानी समझा सकते थे और नेतृत्व या किसी पद की चाह करने-वाले आदमी के व्यक्तिगत गुणों को खुद देखकर नागरिक अपनी राय बना सकते थे। शहरी राज्य छोटे-छोटे होते थे, क्योंकि ऐसे राज्यों में ही मनुष्यों का सामाजिक जीवन सम्भव था। अफलातूं कहता कि ‘व्यक्तिगत जीवन के निकटतम पहुंचनेवाला राज्य ही आदर्श राज्य हो सकता है। शरीर के किसी अंग को चोट पहुंचती है तो सारे शरीर को दर्द होता है और चोट वाले भाग के साथ वह सह-अनुभूति करता है। समाज में यह तभी सम्भव होगा जब वह छोटी-छोटी और एकसे विचार व भावना-वाली इकाइयों में बंट जायगा। यूनानियों के लिए शहर इस प्रकार का एक समिलित जीवन-सा था। उसका शासन-विधान एक कानूनी संगठन के बजाय केवल जीवन की पद्धति का निर्दर्शक मात्र था।

मेरा मतलब यह नहीं कि यूनान के ये राज्य पूर्ण थे। उनके भी अपने दोष और अपूर्णतायें थी हीं। उदाहरणार्थ उनमें प्रचलित गुलामी की प्रथा को कौन अच्छा कहेगा? पर हमें यह मंजूर करना होगा कि इस शान्त और हितेमिले जीवन के कारण ही वे और खासकर अथेन्स शहर यूरोप के चिन्तन और संकृति की विकास-शाला बन सका। प्रो० डिलाइल बर्न्स ने ठीक ही कहा है कि “अथेन्स का जीवन और स्वतन्त्रता उत्पादक थे। कविं, कलाकार और दार्शनिक वर्गों जितने हम अथेन्स के इतिहास में पाते हैं उतने दूसरे किसी शहर के इतिहास में हमें नहीं मिलते। स्थापत्य, मूर्तिकला, नाटक और दर्शन के क्षेत्रों में अथेन्स ने इतने थोड़े समय में

जितनी प्रगति की, उतनी दूसरे किसी शहर ने नहीं की है।”^१

हिन्दुस्तान के ग्रामीण जनतन्त्र

ओयोगिक क्रान्ति के पहले विभिन्न यूरोपीय देशों के गांवों में स्थानीय स्वशासन जारी था। प्रिंस कोपाटकिन ने अपनी “मूच्युअल एड़” नामक किताब में इसका बड़ा अच्छा वर्णन किया है। चीन और जापान भी ऐसे विकेन्द्रित ग्रामीण सङ्गठनों के प्राचीनतम घर रहे हैं। परन्तु हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि संसार के सभी देशों में केवल हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां स्थानीय स्वशासन का विकास “सबसे पहले हुआ और सबसे अधिक दीर्घकाल तक उसकी रक्षा की गई।”^२ ग्राम-संस्थायें हमारे देश में अज्ञात काल से रही हैं। कहा जाता है कि राजा पृथु ने गङ्गा-जमुना के प्रदेश में अपने उपनिवेश कायम करते हुए सबसे पहले इनकी स्थापना की। महाभारत के शान्ति-पर्व और मनुस्मृति में अनेक स्थानों पर ग्राम-संघों का जिक्र आता है। कौटिल्य के, जो ईसा के पहले चौथी सदी में जीवित थे, अर्थ-शास्त्र में भी इन ग्राम-संघों का वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण में जन-पदों का जिक्र है। यह शायद बहुत से ग्राम-राज्यों का संबंध होगा। यह तो निश्चित है कि यूनानियों ने इस देश पर जब आक्रमण किया तब यह पद्धति इस देश में व्यापक रूप से प्रचलित थी। मेगस्थनीज इन पेंट्राहों अर्थात् पंचायतों के बड़े विशय संस्मरण छोड़ गया है। चीनी-प्रवासी हुए-न्सैंग और फाहियान लिखते हैं कि वे जब हिन्दुस्तान में आये थे, तब यह देश बड़ा खुशहाल था। लोग इतने सुखी और समृद्ध थे कि जिसकी तुलना नहीं मिल सकती। शुक्राचार्य के नीतिसार में सातवीं सदी के ग्रामीण-संघ का वर्णन मिलता है।

वास्तव में हिन्दुस्तान में ठेठ वैदिक काल से गांव शासन की इकाइयां रहे हैं। ऋग्वेद में (१०६२।११; १०७।५) ग्रामणी अर्थात्

१. पौलिटिकल आइडियल्स—पृ० ४१

२. एकोनॉमिक डिस्ट्री ऑफ इंडिया—रमेशचन्द्र दत्त

ग्राम-नेता का जिक्र है। जातकों में भी ग्राम-सभाओं का वर्णन आया है। व्यापारियों के संघों को आमतौर पर श्रेणी कहा जाता था। वैदिक काल के बाद भी गांव संघ-जीवन की राजनैतिक इकाइयां रहे हैं। विष्णु-पुराण और मनुस्मृति में राज्य के सङ्घठन में गांव सबसे छोटी—प्राथमिक इकाई माने जाते थे।^१ धर्म-सूत्र और धर्म-शास्त्रों में गण और पूरों का बार-बार जिक्र आया है। शायद इन दोनों शब्दों को ग्राम या नगर-संस्थाओं के अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। स्थान-स्थान पर मिलने वाले अनेक प्राचीन शिलालेखों के रूप में पुरातत्व भी इन स्वशासित स्थानीय संस्थाओं के अस्तित्व का समर्थन करता है।

हिन्दुस्तान के ग्राम-राज्य हिन्दू, मुसलमान और पेशवा राजाओं के समय तक—अर्थात् ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आगमन के पहले तक बराबर कायम थे। राजवंशों के विनाश और साम्राज्यों के पतनों का उनपर कोई असर नहीं हुआ। देश में जब-जब राजनैतिक तूफान आते, तब राष्ट्र की संस्कृति के लिए स्थानीय स्वशासन की ये विकसित संस्थायें कछुए की ढाल का काम देती थीं, जहां वह शान्तिपूर्वक अपनी रक्षा कर लिया करती थीं।^२ राजा लोग इन ग्राम-संस्थाओं से केवल ज़मीन का लगान मात्र ले लिया करते थे। स्थानीय शासन में वे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते थे। जैसा कि सर चार्ल्स ट्रेवलिंग ने कहा है “हिन्दुस्तान पर एक के बाद एक विदेशी आक्रमण हुए, पर ये ग्राम-संस्थायें कुश और तृण की भाँति ज़मीन में अपनी जड़ें जमाये ही रहीं।” सर जॉर्ज बर्ड बुड ने कहा है, “हिन्दुस्तान में दूसरे किसी भी देश की अपेक्षा कहीं ज्यादा धार्मिक और राजनैतिक कानितियां हुई हैं। परन्तु ये ग्राम-संस्थायें अपने पूरे जोर के साथ सारे देश में बराबर नगर-पालक का अपना काम करती रहीं। यहां पहाड़ों को लांधकर सीधियन, यूनानी, सारासेन, अफगान और मुगल भी आये। मराठे भी सारे देश में फैले।”^३

१ कारपोरेट लाइफ इन एन्शियन्ट हॉटेल्स—२० च० मञ्चमदार पृ० १४१
 २ लोकल गवर्नरमेंट इन एन्शियन्ट हॉटेल्स—डॉ० राधाकुमार मुकर्जी पृ० १०

गये उधर समुद्र मार्ग से पुर्चीज, डच, अंग्रेज, फ्रेंच तथा डेन्स आये और इस देश पर उन्होंने अपने राज्य कायम किये। परन्तु जिस तरह समुद्र के ज्वारों का किनारे की चट्टानों पर कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार इस देश की इन धार्मिक ग्राम-संस्थाओं पर इनके आने और जाने का कोई असर नहीं हुआ।^१ सन् १८३० में सर चार्ल्स मेटकाफ ने—जो उस समय हिन्दुस्तान के गवर्नर जनरल थे, अपनी प्रसिद्ध याददाश्त में लिखा है:—

“यहां की ग्राम-संस्थायें छोटे-छोटे जनतंत्र हैं। अपनी जरूरत की लगभग हर चीज उनके अपने पास होती है और वाहरी ताल्लुकात से वे प्रायः स्वतन्त्र होती हैं। और सब चीजें नष्ट हो जाती हैं पर वे कायम हैं। राजवंश एक के बाद एक गुज़र जाते हैं। क्रान्तियां आती हैं और चली जाती हैं। पर ग्राम-संस्थायें बराबर ज्यों-की-त्यों काम करती रहती हैं। ग्राम-संस्थाओं का यह संघ, जो कि खुद एक स्वतन्त्र-राज्य होता है, उन तमाम बड़ी-बड़ी क्रान्तियों, विप्लवों और उथल-पुथलों में हिन्दुस्तान की जनता की रक्षा तथा उन्हें सुखी रखने में एवं उनकी स्वतन्त्रता को बनाये रखने में सबसे बड़ा कारण रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस ग्राम-शासन में जरा भी खलल न पहुंचाया जाय। और ऐसी हर चीज से मैं भय खाता हूं जिससे इनके टूटने का अन्देशा होता है।”^२

पर दैव की इच्छा कुछ और ही थी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अत्यधिक लोभों ने इन ग्राम पंचायतों को तोड़ दिया। लगान वसूली की इकाई पहले ग्राम थे। उनके स्थान पर जबरदस्ती और बुद्धि पूर्वक रैयतवारी पद्धति शुरू करने का असर इन ग्राम-संस्थाओं के जीवन पर बड़ा घातक सिद्ध हुआ। नौकरशाही ने तमाम बन्दोबस्ती और न्याय-प्रदान का काम का सीधे अपने हाथों पूरी तरह से ले लिया इस कारण गंव के अधिकारियों के हाथों में जो सत्ता और प्रभाव था वह छिन गया।

१ ईंडस्ट्रीयल आर्ट्स आफ इंडिया—२० ३२०

२ रिपोर्ट, सिलेक्ट कमिटी—आफ हाउस आफ कामस (१८३२)

सर हेनरी मेन अपनी पुस्तक “विलेज कम्यूनिटीज इन दि ईस्ट एण्ड वेस्ट” में लिखते हैं कि हिन्दुस्तान की ग्राम-पंचायत एक मरी हुई नहाँ बल्कि जिन्दा संस्था था। बेडन पॉवेल ने “इन्डिया-विलेज कम्यूनिटी” में भी इन ग्राम-संस्थाओं का विस्तृत वर्णन किया है। प्रोफेसर अलतेकर की “हिस्टरी ऑफ विलेज कम्यूनिटीज इन वेस्टर्न इण्डिया” में हमारे देश की इन ग्राम-संस्थाओं के कार्य-संचालन का बड़ा अच्छा चित्र है। परन्तु इस विषय का सबसे उचम विवेचन तो डा० राधाकुमुद मुकर्जी की ‘लोकल गवर्नेंमेंट इन एन्शियन्ट इण्डिया’ और डॉ० राधाकमल मुकर्जी की ‘डेमो-क्रेसीज आफ दी ईस्ट’ में किया गया है।

हिन्दुस्तान की इन ग्रामीण राज्य संस्थाओं के शासन संचालन वगैरा की तफसील में जाना इस पुस्तिका में संभव नहीं है। यहाँ तो इतना ही कह देना काफी होगा कि इस देश में अंग्रेजी राज की स्थापना के जो बुरे से बुरे परिणाम हुए हैं उनमें एक इन स्वशासन ग्राम-संस्थाओं का नष्ट किया जाना भी है। अंग्रेजों ने अपने ढंग की स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को खड़ी करने का यत्न भी जरूर किया है। परन्तु वह विदेशी है हिन्दुस्तानी पद्धति पर नहीं। इसीलिए वह बुरी तरह असफल हुए हैं। जैसा कि डा० एनी बीसेन्ट ने कहा है “‘अधिकारियों ने उसे नाम तो हिन्दुस्तानी ही दे रखा है, परंतु नहाँ पुरानी पंचायतों का चुनाव गांव के निवासी करते थे और उन्हींके प्रति थे पंचायतें ज़िम्मेवार भी रहती थीं, अब इन पंचायतों के अधिकारी सरकारी अफसरों के प्रति वहाँ अपने आपको ज़िम्मेवार समझते हैं और इसलिए पंच पहले की भाँति गांव के लोगों को नहीं बल्कि इन अफसरों को खुश करने का प्रयत्न करते हैं।”^१

इन ग्राम-संस्थाओं में कुछ खानियाँ थीं। फिर भी मच्ची लोकशाही

१ डा बी० के० सरकार अपने ‘पोलिटिकल इंस्टिट्यूशन्स एण्ड थियरीज’ में लिखते हैं कि ग्राम-संस्थाओं का नाम ग्राम पंचायत तो मध्य युग में पदा है।

२ इंडिया वॉर्ड ऑफ फ्री—पृ० २६

और स्वशासन की दिशा में हिन्दुस्तान के ये ग्रामीण जनतंत्र बड़े और अचर्चय जनक प्रयोग थे। आजकल के ज़माने में संचालन में जो केन्द्री-करण हो गया है उसने स्थानीय साध-जीवन के विकास के लिए बहुत कम अवकाश छोड़ा है। इससे राजनीति सर्वत्र बन्ध्या और यन्त्रबद्ध जड़ बन गई है। फिर व्यक्ति और समाज अथवा शासन के हितों के बीच अनंत और निरन्तर संघर्ष चलता रहता है। परन्तु हिन्दुस्तान की ग्राम-पंचायतों ने इन परस्पर विरोधी हितों का समन्वय कर लिया था और सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन को उत्पादक एवं सफल बना दिया था। जैसा कि आचार्य विनोद भावे ने कहा है—इन ग्राम सभाओं में हर आदमी अपना राजा होता था, फिर भी वह अपने अन्य नागरिक भाइयों के साथ अटूट बंधनों में बंधा रहता था।^१ एक तरफ जहाँ उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए पूरा अवकाश था, हर नागरिक उस छोटे से राज्य का एक ज़िम्मेदार और उपयोगी नागरिक था। हाँ, इन ग्राम-संस्थाओं में जिस प्रकार की विकेन्द्रित राजनैतिक सत्ता थी वह वेशक पश्चिम के विभक्तीकरण और विकेन्द्रीकरण से बिलकुल जुदे प्रकार की थी। हिन्दुस्तान के विकेन्द्रीकरण में कार्य और द्वेष दोनों का विभाजन था। फलस्वरूप उसमें सामाजिक हितों का सम्पूर्ण सामज्ञस्य और राजनैतिक जीवन में अन्तस्फूर्ति थी।

आधुनिक जनतन्त्री हुंकर्मंतों में जो बहुत सी बुराइयां घुसी हुई हैं, उनसे हिन्दुस्तान की प्राचीन ग्राम संस्थायें प्रायः मुक्त थीं। उस समय आर्थिक-संगठनों का निर्माण भी शायद नहीं हुआ था। इसलिए रिश्वत और वेईमानी तो लगभग थी ही नहीं। आकमणशील पूंजीवाद का अभी जन्म भी नहीं हो पाया था। इसलिए कोई उन्हें अपनी जेब में नहीं रख सकते थे। मतदार-संघ छोटे-छोटे थे। अतः चुनाव सर्वानुमति से होते और सहब स्वाभाविक तौर पर लोग राय देते थे। जिन बुजुगों के प्रति समाज में सर्वत्र आदर होता, स्वभावतः वे ही चुने जाते। इसमें न तो

^१ स्वराज्य शास्त्र (हिन्दी संस्करण) पृ० ४७

एक पाई खर्च करनी पड़ती और न चुनाव के लिए कोई प्रचार करना पड़ता। फिर प्रत्येक क्षेत्र स्वतन्त्र और स्वशासित था और सत्ता एक जगह केन्द्रित नहीं थी। काम की भीड़ भी ऐसी नहीं होती थी। इस प्रकार हिन्दुस्तान के पुराने जनतन्त्रों का शासन प्रत्यक्ष और सीधा होता था। उनमें कुब्बत और मर्दानगी होती और साथ ही वे विधायक, उत्पादक और अधिसक भी होते थे। इसके विपरीत आज के मौजूदा जनतन्त्रों का ढांचा टेढ़ा-मेढ़ा, सुस्त, निषेधात्मक, अनुत्पादक और हिंसक है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी स्वदेशी संस्थाओं को पुनः संजीवित करें और उन्हें भावी स्वराज्य के शासन-विधान का आधार बनावें। जैसा कि डॉ० राधाकपल मुकर्जी कहते हैं और ठीक कहते हैं—हिन्दुस्तानी पद्धति के विकेन्द्रित जनतन्त्र पश्चिम की राजनैतिक पद्धतियों की नकलों की अपेक्षा न केवल अधिक मुश्किलीकृत और जीवनदायी होगे बल्कि मनुष्य जाति के राजनैतिक इतिहास में, जो कि पश्चिम की आक्रमणशील हुक्मतों और साम्राज्यवादी सत्ताओं के उलझन भरे विचित्र कारनामों से भरा पड़ा है, पूर्व की ओर से एक नई देन के रूप में होंगे।

डॉ० मुकर्जी आगे लिखते हैं—

“वह एक नये प्रकार की शासन-पद्धति के लिए द्विनियाद का काम देंगे। रोमन-च्यूटोनिक ढंग के केन्द्रीकरण-प्रधान शासन-विधान की अपेक्षा छोटे-छोटे क्षेत्रों में विविध काम करनेवाली विभिन्न संस्थाओं की प्रवृत्तियों का समन्वय करके यह पद्धति भावी शासन-विधान का ढांचा पार्लामेंटरी विधान की अपेक्षा भी अधिक सन्तोषजनक ढंग से बना सकेगी। और अगर एशियान्वासियों की धौद्विक और नैतिक एकता इसी तरह कायम रही तो पूर्व एशिया के जातीय और समन्वय पद्धति पर काम करनेवाली दुर्दि द्वारा बनाई रखनाये सामाजिक और राजनैतिक प्रयोगों के इस क्षेत्र के लिए नई, वेश कीमती एवं महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रदान करेंगी। आज तो सारी मनुष्य-जाति यन्त्र के समान जड़ एवं शोषण-प्रधान राजसंस्था की हुक्मत के मातहत संस्थागत (अनुशासन

गांधीजी का तरीका

द्वितीय बाक्यायदगी में कैद पड़ी है। अतः आज अगर सबसे अधिक वस्तु की ज़रूरत है तो इस बात की कि समाज के लिए शासन-प्रबन्धन का कोई नया सिद्धान्त हो, जो मनुष्य में नया चैतन्य उत्पन्न करके, स्वाभाविक और लचीले दलों से सम्बन्धित कर दे ताकि वह अपनी जीवनी और सहज बुद्धि को आजादी के साथ प्रकट और विकसित कर सके।”^१

विकेन्द्रीकरण का अर्थशास्त्र
 ग्रामीण साम्यवाद में जो बहुतसी अच्छाइयां छिपी पड़ी हैं, उनके अलावा विकेन्द्रित ग्रामीण संघ-राज्यों का संगठन संपत्ति के न्यायपूर्ण बंटवारे में अत्यन्त सहायक सिद्ध होगा। आज के पूंजीवादी समाज में उत्पादन के साधनों पर मालदारों का अधिकार रहता है। अतः यह समाज संसार में स्थायी शान्ति एवं सबी समृद्धि को लाने में असफल ही रहा है। दूसरी तरफ समाजवाद ने इस मालदार वर्ग को निर्दयता के साथ जड़ से उखाड़कर फेंक दिया है। वेशक उसने जनता की रहन-सहन को ऊंचा उठाकर बेहतर कर दिया है। परन्तु फिर भी सोवियट क्यूनियम एकदम विशुद्ध भलाई नहीं है। उसने संयोजन के महान और शक्ति-शाली यन्त्र के द्वारा व्यक्तियों को न्यूनाधिक परिमाण में शून्यवत् तथा जानदार यन्त्रों की श्रेणी में लाकर छोड़ दिया है। इसके अलावा रूस ने अब पड़ोस के देशों पर भी अपने पर फैलाना शुरू कर दिया है। उसका उद्देश चाहे कितना ही उच्च हो, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में रूस के इन कार्यों को कोई निःशंक भाव से नहीं देख सकता। साम्राज्य-वाद चाहे वह पूंजीवादी हो या समाजवादी—हम उसे बरदाश्त नहीं कर सकते। समाजवाद जब बड़े पैमाने पर और केन्द्रीकरण वाला होता है तो उसमें आकमण की वृत्ति अर्थात् साम्राज्यवाद आ ही जाता है। इसलिए वह संसार में ऐसा नया युग नहीं ला सकता जिसके अन्दर छोटे-बड़े सभी देशों के लिए शान्ति, कल्याण और स्वतन्त्रता का निश्चित आश्वासन हो।

^१ डॉमाक्सीज आफ़ दी ईस्ट—पृ० २५-२६

तब हमारी समस्या का हल क्या होगा ? विकेन्द्रित गृह-उद्योग की पद्धति में यह हल छिपा हुआ है। हिन्दुस्तान की ग्राम-संस्थाओं में एक अत्यन्त संतुलित आर्थिक पद्धति का विकास हम देखते हैं। एक तरफ सत्ता का सम्पूर्ण केन्द्रीकरण और दूसरी तरफ—किसी प्रकार भी हस्तक्षेप न करना—इन दोनों सिरों को उसमें छोड़ दिया गया है। अनेक और गम्भीर प्रयोगों के बाद पूँजीवाद और साम्यवाद के बीच का सुन्दर मध्यम-मार्ग उन्होंने ढूँढ़ लिया था। उन्होंने सहकारी उद्योग और सहकारी खेती का एक आदर्श तरीका ढूँढ़ लिया था जिसमें अमीरों द्वारा गरीबों के शोपण की शायद ही कहीं गुजाइश हो। जैसा कि गांधीजी ने कहा है—वितरण और उपयोग के क्रीब-क्रीब साथ-साथ ही उत्पादन होता था। भोपड़ों और घरेलू कारखानों में चीजें बनतीं और वे किसी दूर के बाजार के लिए नहीं चलिक स्थानीय जरूरतों की तत्काल पूर्ति के लिए होती थीं। स्वावलम्बन के सिद्धान्त पर जब चीजें छोटे पैमाने पर अपने-अपने क्षेत्रों में ही बन जातीं तो उसमें पूँजीवादी शोपण के लिए कहीं स्थान ही नहीं रहता था। व्यक्तियों की स्वतन्त्रता को निर्देशता के साथ बगैर दबाये और साथ ही मुट्ठी भर आदमियों को दूसरों पर अपनी हुक्मन स्थापित करने का बगैर मौका दिये इस पद्धति से अपने आप आर्थिक समानता की स्थापना हो जाती थी। कहने की ज़रूरत नहीं कि गांधीजी के सिद्धान्तों के अनुसार इन गृहोदयों का संगठन पूँजीवादी पद्धति पर नहीं, चलिक सह-कार की पद्धति पर ही हो सकता है। क्योंकि जापान की भाँति इन गृहोदयों पर अगर पूँजीपतियों का नियन्त्रण होगा, तो देश के कारीगर भी निरे मज़दूर बना दिये जावेंगे और उनका शोपण होता रहेगा।

प्राचीन ग्राम-संस्थाओं में कुछ दोष भी थे। उदाहरणार्थ जाति-भेद की कटोर दुखदायी प्रथा को ही लीजिए, जिसने समाज में अनुचित भेद-भाव बढ़े कर दिये। पुराने ज़माने में भी कुछ धनवान सेट थे। इन ग्राम-संस्थाओं के बीच आर्थिक एवं गज़नेतिक विपर्यां में कोई पारस्परिक गम्भीर और सामृद्ध्य नहीं था। उनकी रक्षन-सहन भी शायद इतनी

जंची नहीं थी जो हमें आकर्षित कर सके। फिर भी ये ग्रामीण जनतंत्र हमारे परिपक्व विचार और चिंतन के परिणाम थे और उनमें आर्थिक संगठन के बे तत्त्व मौजूद हैं, जिनको अगर ठीक तरह से बुन दिया जाय तो आज इस युद्ध पीड़ित संसार में जो अनंत समस्याएँ हमें दिन-रात परेशान कर रही हैं उनसे बे हमें गहत दिला सकते हैं।

विकेन्द्रीकरण का यह अर्थशास्त्र हमें अत्यधिक यन्त्रीकरण को बुराइयों से भी बचा सकता है। कार्ल मार्क्स खुद कहता है कि यंत्रों के व्यापक उपयोग और श्रम-विभाग के कारण काम के अंदर से मजूदरों के व्यक्ति का महत्व तो संपूर्णतया गायब हो गया है। और इसलिए मजूर के दिल के अन्दर से काम का आकर्षण भी चला गया। वह तो यंत्र का एक पुर्जा मात्र रह गया है^१ आज यंत्रों से उत्पादन करने की इस पद्धति में मनुष्य एक तरफ पंगु और दूसरी तरफ राज्यस बन गया है^२। दूसरी तरफ “एक स्वतंत्र किसान या कारीगर अपने ज्ञान, बुद्धि और इच्छा का विकास कर सकता है।”^३ यंत्रों की सहायता से बड़े पैमाने पर किये गये उत्पादन में क्या-क्या ख़राबियाँ हैं इनका पता कार्ल मार्क्स को था। पर उसे आशा थी कि समाजवादी शासन में ये बुराइयां नहीं रह पाएंगी। परन्तु जान-बूझकर दाखिल किया गया यंत्रवाद, चाहे वह पूंजीवादी समाज में हो या समाजवादी समाज में, मनुष्य के शरीर, बुद्धि और नैतिक जीवन पर बुरा असर ढाले व्हार रही कैसे सकता है? प्रो० बारसोडी लिखते हैं कि उत्पादन के और वितरण के साधनों पर से व्यक्तियों का स्वामित्व उठा देने से शोषण तो मिट गया; पर इतने भर से बुराई की जड़ तो नहीं हटी। कारखानों की पद्धति में खुद कुछ ऐसी बुराइयां हैं, जो कभी हट नहीं सकतीं। वे तो समाज को तकलीफ देती ही रहेंगी।^४ इसलिए गांधीजी आधुनिक उद्योगीकरण के खिलाफ

१ ‘दी कम्यूनिस्ट मेनिफेस्टो’।

२ ‘डास केपिटल’।

३ ‘दिस अगली सिविलिजेशन’।

है। पर इस पर से यह ख्याल करना गलत होगा कि वह यंत्र मात्र के विरोधी है। वह तो यंत्रों के अत्यधिक और अविचारपूर्ण विस्तार-प्रचार के विरोधी है। वह लिखते हैं :—

“जहां काम करनेवाले आदमियों की कमी हो वहां यंत्रों से काम लेना अच्छा है। परंतु जहां भारत की तरह काम करने के लिए श्रावश्यकता से अधिक आदमी हों, वहां हर काम यंत्र से लेना बुरा है।”¹

आज यंत्रों ने मनुष्यों को शून्य या अपने ही समान पर जानदार यंत्र बना दिया है। बड़े-बड़े कारखानों में जहां राज्यसी यंत्र दिन-रात शोर मचाते हुए चलते रहते हैं मनुष्य का व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है। पर यंत्र अगर छोटे-छोटे हों और वे लाखों करोड़ों किसानों और कारीगरों के अम को हल्का कर सकते हों और अच्छी तरह से काम कर उनका फायदा कर सकते हों तो गांधीजी उनका निःसंदेह स्वागत ही करेंगे।

वेकारी को दूर करने की दृष्टि से भी गृहेयोगों का बढ़ाना अत्यन्त लाभदायक है। आज पश्चिम के आर्थिक संयोजन का सब से ताज़ा नारा है—“सबको काम दो।” पर क्या यंत्रों की सहायता से बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से सबको काम मिल भी सकता है? संयुक्त राज्य और संयुक्त राष्ट्र (अमेरिका) जैसे देशों में सूब यंत्रों का प्रचार है। परंतु किर भी वहां लाखों आदमी वेकार हैं। उन्हें काम नहीं दे पाये हैं। तब क्या हम चालीस करोड़ आवादीवाले यह उम्मीद कर सकते हैं कि यहां की वेकारी की समस्या को हम हल कर सकेंगे? इस समय देश में जितने बड़े-बड़े भारी भरकम कारखाने और मिलें हैं उनमें सब मिलाकर कुल बीस लाख मनुष्य काम करते हैं। बम्बई-योजना के अनुसार अगर भारी-भारी कारखानों को प्रोत्साहन देकर, मान लीजिए, उनकी संख्या पांच गुनी हो गई तो भी एक करोड़ आदमियों से अधिक को हम काम नहीं दे सकेंगे। किर आँगों का क्या होगा? हिन्दुस्तान में युद्ध किसान के पास भी तो कार्बी काम नहीं होता। अपनी नाकाफी आमदनी को बढ़ाने के लिए

खुद उसे किसी सहायक उद्योग की ज़बरदस्त ज़रूरत है। इसलिए हमारी समस्या का सब से अच्छा हल तो यही है कि ग्रहोदयोगों को खूब बढ़ाया जाय। थोड़े से कारखानों में ढेरों माल पैदा किया जाय इसके बजाय ज़रूरत इस बात की है कि हिन्दुस्तान के असंख्य गांवों की जनता सुसंगठितरूप से उत्पादन करें। हाँ, आधुनिक आर्थिक संयोजन की सफलता के लिए कुछ भारी-भारी और देश के प्राणरूप कारखानों का अवश्य ज़रूरत होगी। परन्तु गांधीजी की यह निश्चित राय है कि इन कारखानों पर देश—राज्य—का ही स्वामित्व और संचालन होगा।

कोई यह आशंका न करे कि हमारे ये ग्रहोदयोग आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं होंगे। हमारे ज़माने का एक सब से बड़ा उद्योग-पति हेनरी फोर्ड कहता है—आम तौर पर एक बहुत बड़ा यन्त्र हमेशा फायदे-मन्द नहीं होता।^१ इसलिए पैदावार की विधियों को केन्द्रित करने से कोई लाभ नहीं। हेनरी फोर्ड कहता है कि “जो चीज़ सारे देश में वरती जाती है वह सारे देश में बनाई भी जानी चाहिए” इससे उसका लानेले जाने खर्च घट जावेगा और जनता की क्रय-शक्ति समानरूप से सर्वत्र बढ़ती रहेगी। अब फोर्ड का अगला आदर्श यह है कि उद्योगों को पूरी तरह से जगह-जगह बांट दिया जाय। इस पद्धति में यन्त्र छोटे-छोटे होंगे और उनको ऐसी जगह रखेगा जायगा कि उनमें काम करनेवाले किसान भी होंगे और साथ-साथ उद्योगपति भी। इससे व्यक्तियों की स्वतन्त्रता तो आमतौर पर बढ़ेगी ही पर इसके साथ-साथ चीज़ें और खाने-पीने की सामग्री भी सस्ती हो जायगी।^२ लेविज ममफोर्ड का भी यही राय है कि छोटे-छोटे कारखाने जिनसे तरह-तरह की चीज़ें बनाई जा सकती हैं और जिन्हें अनेक कामों में लिया जा सकता है, आर्थिक दृष्टि से बड़े कारखानों की अपेक्षा अधिक लाभदायक होंगे।^३ आजकल के ज़माने में जब कि

^१ दुड़े एण्ड ट्रमारो—पृ० १०६

^२ मूर्खिंग फारवर्ड—पृ० १५७

^३ दि कल्चर आफ सिटीज—पृ० ३४२

नदियों के प्रवाहों को रोक कर काफी विजली पैदा की जा सकती है, बड़े-बड़े शहरों में राक्षसी कारखानों की संख्या बढ़ाने की जरा भी ज़रूरत नहीं।

समाज के इस पूँजीवादी संगठन ने और उसके केन्द्रित तथा अत्यधिक उत्पादन ने संसार को कितनी बार खूनी और बरबादी फैलाने-वाले युद्धों में भाँक दिया है। क्या बड़े पैमाने पर होनेवाले केन्द्रित उत्पादन के परिणामों और कीमत में धन और जन की इस दुखदार्ह हानि को शारीक करना अनुचित होगा? सचमुच यह प्रत्यक्ष बरबादी इतनी ज़बरदस्त है कि हम वन्तों के द्वारा केन्द्रित रूप से बड़े पैमाने पर किये जानेवाले उत्पादन को किसी प्रकार आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायक नहीं कह सकते। खैर।

‘गान्धीवादी योजना’ में खूब विस्तार से विकेन्द्रीकरण के अर्थशास्त्र की मैंने चर्चा की है इसलिए इस पुस्तिका में उसका अधिक विस्तार करना उचित नहीं होगा।

विकेन्द्रीकरण का दर्शन

खूब समझ लेने की बात है कि विकेन्द्रीकरण की हिमायत गांधीजी क्यों करते हैं? केवल इसलिए नहीं कि उससे राजनैतिक और आर्थिक लाभ है। नहीं। वह तो उनके सामने सादा जीवन और उच्च विचार का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आदर्श उपस्थित कर देता है। वह कहते हैं हमारा मन वहा असन्तोषी है। एक चीज़ मिली नहीं, कि दूसरी की चाह वहां तैयार है। इस तरह उसकी तृष्णा बढ़ती ही रहती है। अपने विकारों की तृती का हम ज्यो-ज्यो प्रयत्न करते हैं, त्यो-त्यो वे वेलगाम होते जाते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने भोग का संयम करने का आदेश दिया। उन्होंने देखा कि सुख का सम्बन्ध खास तौर पर मन से है। और सुख और स्वास्थ्य अपने हाथ पैरों से सही-सही प्रकार का काम लेने से ही मिल सकता है। इसलिए गांधीजी सांस्कृतिक और नैतिक दृष्टि से

भी सादगी को आवश्यक मानते हैं। विख्यात विज्ञान-शास्त्री आइन्स्टिन की भी यही राय है—

“सम्पत्ति, वाहरी सफलता, प्रचार, ऐशो-आराम ये सब मेरे नजदीक घृणा की वस्तुएं रही हैं। मेरा विश्वास है कि सादा और निश्छल जीवन हर आदमी के शरीर और मन दोनों के लिए सबसे अधिक लाभदायक होता है।”^१

पर सदगी के मानी यह नहीं कि हर आदमी स्वेच्छापूर्वक गरीबी का अंगीकार करे और लंगोटी पहनकर रहे। गांधीजी की ‘जरूरतों’ और कम-से-कम सुख-सुविधा का पैमाना काफ़ी ऊचा है। पर हाँ, उनके “अच्छे जीवन” में ऐश के लिए गुज्जाइश नहीं है। उन्हें रहन-सहन का नहीं “प्रत्यक्ष जीवन का” पैमाना ऊचा करने का सबसे अधिक ध्यान रहता है।

सादगी के साथ-साथ चांदी-सोने की अपेक्षा मानवी मूलयों का विचार भी वह करते हैं। उन्हें तो सब से अधिक खयाल मानवता का है। अथवा जैसा कि प्रोटोगांरस ने कहा था—“वही सबका मानदण्ड है।” सिक्खों की अपेक्षा उनके अर्थशास्त्र का आधार प्रत्यक्ष जीवन है। खादी और ग्रामोद्योगों की हलचलों के पीछे देश की सामाजिक और आर्थिक पुनर्रचना में मनुष्य-जीवन को सर्व प्रधान स्थान देने का यह खयाल वैचारिक पृष्ठ-भूमि के रूप में सदा उनके दिमाग में रहता है। “खादी-भावना का अर्थ है पृथ्वीतल के प्रत्येक मनुष्य के साथ बन्धुभाव।”^२ हिन्दुस्तान की पुरानी ग्राम-संस्थाओं की सहकार-भावना की जड़ में यही नैतिक तत्त्व था। आज के दुनियादार के लिए तो सोने से बड़ा ईश्वर संसार में कोई ही नहीं। पर गांधीजी तो ‘आत्मार्थे पथिवी त्यजेत्’ (अर्थात् आत्मा को छोड़कर तो समस्त पथी तल की संपत्ति की परवा न करो) की सलाह देनेवालों में से हैं। जिस चिकेन्द्रीकरण के दर्शन का प्रतिपादन गांधीजी करते हैं, उसमें दूसरी बुनियादी कल्पना शरीर-श्रम

१ ‘आई चिलीव’—पृ० ७०

२ यंग इण्डिया—२२-६-२७

का पावित्र्य है। “यह सबसे बड़े दुर्देव की बात है कि करोड़ों लोगों ने अपने हाथों का हाथों की तरह उपयोग करना छोड़ दिया है”^१ “हमारा शरीर एक जीता जागता अप्रतिम यन्त्र है। उसके स्थान पर निर्जीव यन्त्रों से काम लेकर हम उसे निकम्भा बना रहे हैं और जान बूझ कर नष्ट कर रहे हैं।”^२ गांधीजी की दृष्टि से शरीर-श्रम प्रत्यक्ष जीवन है वह अभिशाप नहीं, वरदान है।

जब सोचिए तो आप देखेंगे कि सादगी, मानव-जीवन का ख्याल और शरीर-श्रम की पवित्रता वाले आदर्शों की जड़ में अहिंसा है। और यही गांधीवाद का मुख्य आधार है। वह कहते हैं—“अहिंसा पर आधारित जीवन की जड़ में कल्पना करने लगा तो मैंने देखा कि हमें उच्च विचार का ध्यान रखते हुए उसे जितना भी संभव हो सादा बना देना चाहिए अहिंसा के आधार पर बनाया हुआ समाज गांवों में रहेगा। उसके छोटे छोटे दल होंगे, जिनका जीवन शान्त और सम्मानपूर्ण होगा और वे स्वेच्छा पूर्वक पारस्परिक सहयोग से रहेंगे।अहिंसा पर आधारित ऐसी सम्यता के निकटतम जीवन की कल्पना, हिन्दुस्तान के पुराने ग्रामीण गणराज्य हमें देते हैं। मैं मानता हूं कि उसमें संशोधन का गुंजाइश है। मैं यह भी जानता हूं कि अहिंसा की जो कल्पना और परिभाषा मेरे दिमाग में है, वह उसमें नहीं थी। पर उसमें इसके बीच ज़रूर थे।”^३ इसलिए गांधीजी ग्रामों पर आधारित सम्यता पर इतना अधिक ज़ोर देते हैं। “ग्राम-सम्यता की जो कल्पना मेरे दिमाग़ में है उसमें शोषण का नामोनिशान नहीं। और यही (शोषणी) तो हिंसा की जड़ है।”^४

गांधीजी के विचार में “सबसे बड़ी शक्ति अहिंसा^५ है। वही “जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म है”। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण के आधार पर पृथ्वी टिकी हुई है, उसी प्रकार सारे मानव-समाज का व्यवहार अहिंसा

^१ ‘यंग इण्डिया’ १७-२-२७,

^२ ‘यंग इण्डिया’ १८-१-२५

^३ ‘हरिजन’ १३-१-४०,

^४ ‘हरिजन’ ११-२-३६

पर चल रहा है।^१ अथवा जैसा कि टी० एच० ग्रीन ने कहा है—“राज्य का आधार ‘बल’ नहीं ‘इच्छा’ है।^२ हिंसा की व्यर्थता को पिछले दो सांसारिक महायुद्धों ने पूरी तरह प्रकट कर दिया है। और जैसा कि हाल ही में राष्ट्रपति डॉ मन ने कहा है। अब तीसरे महायुद्ध के बाद सभ्यता जिन्दा नहीं चलनेवाली है। विज्ञान की अत्यधिक प्रगति ने संसार को अब ऐसे ही मुक्काम पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज संसार के सामने प्रश्न हिंसा और अहिंसा के बीच चुनाव का नहीं, बल्कि हिंसा और विज्ञान के बीच चुनाव का है। हम दोनों को एक साथ ग्रहण नहीं कर सकते। परमाणु वम इस कथन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हिंसाभिमुख विज्ञान का वह तर्क-संगत परिणाम है। यह भी अफवाह है कि अमेरिका ने एक और ऐसे वम का आविष्कार किया है, जिसके मुक्कावले में वर्तमान परमाणु वम के बल आतिशवाजी-सा है।^३ इसलिए सभ्यता और मनुष्य-जीवन के नाम पर अब हमारे सामने सिवा इसके कोई रास्ता नहीं रह गया है कि संसार ‘हिंसा’ को नमस्कार कर ले। परमाणु वम से संसार को नष्ट करने के बजाय अब हमें एक परमाणु के अन्दर समस्त विश्व का दर्शन करने का यत्न करना चाहिए। अगर यह दृष्टि हम ग्रहण नहीं करेंगे, तो संमार का विनाश निश्चित है।

समाज-विज्ञान का दृष्टिकोण

समाज-विज्ञान की दृष्टि से भी विकेन्द्रित ग्रामीण-समाज की रचना की जरूरत है। आजकल के शहर अत्यधिक घने हो गये हैं। राष्ट्र के स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से भी स्वास्थ्यप्रद ग्रामीण जीवन की

१ हरिजन ४-१-३६

२ ‘प्रिसिपल्स आफ पोलिटिकल आब्लीगेशन’।

३ सोवियट रूस के वैज्ञानिक भारत के उत्तर में “पासीर” प्रदेश की प्रयोग शालाओं में एक ऐसी किरण के आविष्कार के नजदीक पहुंच रहे हैं जो परमाणु वम से कहीं अधिक चमकारपूर्ण और उसका जबाब है।

तरफ हमें झुकना चाहिए। शहरी जीवन के शोर और जल्दवाज़ी का हमारी स्नायु प्रणाली पर भी धीरे-धीरे परन्तु निश्चित रूप से बहुत बुरा अंसर पड़ता है और शरीर तथा मन दोनों को ये हानि पहुंचा रहे हैं। फलतः समाज निष्पाण और यन्त्रवत् जड़ हो रहा है। ग्रामों, खेतों, घरेलू कारखानों और दूकानों का शान्त और स्वास्थ्यप्रद श्रम हमारे समाज में निःसन्देह आनन्द और उत्साह को बढ़ानेवाला होगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य के विचार के अलावा संसार में मनुष्य जाति की रक्षा की दृष्टि से भी ग्रामों की तरफ प्रयाण करने की हलचल को चलाने की ज़रूरत है। पश्चिम के किन्तने ही उद्योग-प्रधान देशों की आवादी लगातार घटती जा रही है। माल्थस को जहां-तहां बढ़ती हुई आवादी का भूत दिखाई दे रहा था। आज प्राणी-विज्ञान के ज्ञाताओं के सामने इसके विपरीत यह समस्या है कि संसार में मनुष्यों की आवादी घट रही है और मनुष्य-जाति के शरीर का बल-गुण आदि सब तरह से हास हो रहा है। समाज विज्ञान का यह तत्व तो हर कोई जानता है कि शहर की अपेक्षा ग्रामीण समाज में प्रजोत्पादन की शक्ति अधिक होती है। जैसा कि प्रो॰ लान्सलॉट हॉवन बताते हैं, शहरों में प्रजोत्पादक शक्ति की कमी का कारण अत्यधिक घनी आवादी तथा दिल बहलाव के दूसरे साधन हैं, जो पितृत्व की इच्छा की पूर्ति से मनुष्य को दूसरी तरफ खींच के ले जाते हैं। फिर अनेक ऐसे सामाजिक परिवर्तन भी हो गये हैं कि जिनके कारण पारिवारिक जीवन की स्थिरता पर विपरीत असर पड़ा है। जीवन में यन्त्रों ने इतना बड़ा स्थान धेर लिया है कि प्रत्यक्ष जीवन भी यन्त्रवत हो गया है। यन्त्र में न. तो निर्माण करने की शक्ति है और न जन्म देने की। अतः शहरों में वही मानवी सम्बन्धों का नमूना बन गया है।^१ इसके विपरीत ग्रामों में बच्चे प्राणी और पौदों में नवजीवन का नित्य दर्शन करते हैं। ये उनके लिए स्वाभाविक घटनायें होती हैं। शहरी-जीवन पूँजीवादी समाज की ही विशेषता नहीं है। बहुत जल्दी ‘मनुष्य जीवन

की रक्षा' के लिए कोई ऐसी ही ग्रामीण जीवन की योजना समाजवादी तत्त्वों को भी बनानी होगी।

समाज की रक्षा तथा सामाजिक शान्ति और सद्भाव की दृष्टि से भी ग्रामीण गण-राज्य की पद्धति लाभदायक होगी। पुराने ज़माने के लोग अपने-अपने गांवों को एक बड़ा सम्मिलित परिवार मानते थे। एक आदमी पर कोई दुख आता तो उसके दुख से सारा गांव दुखी होता था। अगर किसी के यहां चोरी होती तो गांव के शेष लोग उसकी ज्ञातिपूर्ति कर देते थे। अगर किसी का मकान जल जाता तो गांव के लोग मिलकर मकान बनाने के साधन जुटाकर उसके लिए नया मकान खड़ा कर देते। अगर किसी परिवार का मुखिया मर जाता तो उसके घाल-बच्चों की देख-भाल सारे गांव के लोग करने लग जाते। एक के यहां मरण या शादी होती तो यह सारे गांव के दुख-सुख का प्रसंग बन जाता। श्रम-विभाग और भिन्न-भिन्न पेशों के कारण वेकारी का नामोनिशान न था। यह सच है कि 'छोटे-मोटे' लड़ाई झगड़े भी हो जाते, पर वह तो इस बात का निर्दर्शक था कि ग्रामों की शान्ति समरान-शान्ति नहीं थी।

जीवन का आनन्द

ग्रामीण जीवन के पुनरुद्धार से समाज में पुनः आनन्द, उत्साह और उज्ज्वास का प्रवेश हो जावेगा। "प्राचीन भारत का सामाजिक जीवन" (कारपोरेट लाइफ इन एन्शियन्ट इरिडिया) नामक अपनी किताब में डा० मजूमदार ने अति प्राचीन काल से भारत के गांवों में दिल बहलाव के साधनों का वर्णन किया है। वैदिक काल में गांवों में क्लब-घर होते थे, जिनको आगे चलकर ग्राम-गोष्ठी कहा जाने लगा था। अपने दिन भर के काम-काज के बाद गांव के लोग किसी जगह एकत्र होते। वहां नाच, गान, कहानियाँ और प्रतिदिन की घटनाओं पर तरह-तरह की चर्चाएं होतीं। मौर्यकाल तक त्यौहार के दिनों में गांवों में इस तरह की मण्डलियां होती थीं। ग्रामीण-जीवन के दूसरे ज्येत्रों की भाँति इनमें भी ग्रामीणों में वही सहयोग और भाई-भाई कान्सा भाव होता था। इन

सार्वजनिक उत्सद-कार्यों से दूर रहना समाज के प्रति पाप समझा जाता। आज भी गांवों में यही मान्यता है। आज भी गांवों में मेले लगते हैं, नाच, नाटक, कुशितयां और भजन-कीर्तन भी होते हैं और लोग आनन्द मनाते रहते हैं।

आनन्द के इन सीधे-सादे ग्रामीण तरीकों और ईमानदारी भरे कठोर शरीर श्रम के विपरीत धने शहरों में ग्रामोफोन, सिनेमा और रेडियो जैसे मनोरंजन के यान्त्रिक साधन होते हैं। शहर का आदमी अपने शरीर की हलचलों को यन्त्र की गति के साथ मिलाने की कोशिश करता है और उसका जीवन नोरस तथा निरानन्द हो जाता है। फुरसत मिली कि उन्हीं यान्त्रिक खेल-तमाशों की तरफ उसे दौड़ना पड़ता है। फलतः उसका दिल यन्त्र की तरह जड़ और निष्पाण हो जाता है। विचार भी वैसे ही टकसाली बन जाते हैं। वह जीवन का प्याला पीने दौड़ता है और मृत्यु का प्याला पी जाता है।

कला और सौंदर्य

आजकल के शहराती लोग अपनी कला और सुन्दरता पर गर्व करते हैं। पर उनकी 'फूल-दानी' सभ्यता केवल टकसाली और बासी सौंदर्य को ही जुया सकती है। उसमें जीवन का सौंदर्य और गहराई नहीं होती। महाराजा सुर्वर्णसिंहजी के दरबार में तो कला और सौंदर्य का मूल्य भी सिक्कों से होता है। वहां मोर-पंख के मुकुट या बनमालाओं के लिए कोई आकर्षण नहीं है। सहज प्राकृतिक सौंदर्य के मुकाबिले में आजकल के शहरों की शोभा को जो गगन-चुम्बी बड़ी बड़ी इमारतें ढारती रहती हैं, वे धने कबूतरखानों की अपेक्षा अधिक कुछ नहीं हैं। वहां गांवों के लोग अपने सीधे-सादे झोपड़ों और खुली हवा में अपना जीवन बिताते हैं। मैं तो इन आज के गांवों की बात कह रहा हूं जो कि प्राचीनकाल के अवशेष मात्र हैं। वहां लोग प्रकृति की प्रत्यक्ष गोद में रहते हैं। गांव के कारीगर एक बड़े नैतिक सिद्धांत—समाज की सेवा—को लेकर काम पर आते हैं, और अपने काम में उन्हें पूरा आनन्द भी मिलता है। "परिणाम

स्वरूप वे बड़ी-बड़ी और सुन्दर चीजें बना जाते हैं, और काम करते-करते वे गाते रहते हैं।^१ उनकी औरतें भी सबेरे उठकर चक्की चलाते हुए गाती रहती हैं। सर पर सुन्दर चमकीले तांबे-नीतल के घड़े रख कर पनघट पर जाते हुए वे प्रायः आनन्द से नाचती जाती हैं। दीवालों पर बनाये गये उनके चित्रों की स्वाभाविक सुन्दरता, उनके जीवनदायी जोर-दार काव्य और गीत, उनके नाच और नाटकों की वास्तविक कला और उनकी विविध दस्तकारियों में भरा अनोखा सौंदर्य तथावित सभ्य-कला और साहित्य में छूँड़े नहीं मिलेगा।

भारत जैसे प्राचीन देश में कला और संस्कृति का प्रवाह जंगलों, झोपड़ों और गांवों से दी शहरों की तरफ गया है। गम्भीर चित्तन और भावनाओं का स्रोत तो उन ऋषियों के हृदयों से निकला है, जो ग्रामीण वातावरण में मौन-पूर्वक अपना शान्त जीवन व्यतीत करते थे। रामायण और महाभारत जैसे महान् और अमर काव्य-ग्रन्थ विश्व-विद्यालयों के अध्यापकों और विद्वान कवियों के द्वारा नहीं रचे गये हैं। अजन्ता के अमर चित्र भी किसी आर्ट-गैलरी के डायरेक्टर द्वारा नहीं बनाये गये हैं। सर्जन के आनन्द में भूले हुए इन कलाकार सन्तों ने आनेवाली पुश्तों की जानकारी के लिए भी अपने नाम तक छोड़ जाने की पर्वाह नहीं की। ‘कला के लिए कला’ या ‘जीवन के लिए कला’ जैसे सिद्धान्तों पर उन्होंने बहस नहीं की। उनके लिए तो जीवन ही सबसे बड़ी कला थी।

राष्ट्र-रक्षा

वाहरी आक्रमणों से सफलता पूर्वक रक्षा के लिए विकेन्द्रीकरण और ग्रामीकरण अत्यन्त आवश्यक हैं, क्योंकि आधुनिक युद्ध-कला का प्रतिकार उसीसे हो सकता है। जहाँ-जहाँ कारखाने होते हैं, हवाई जहाजों के द्वारा वहां वम गिराने में बड़ी आसानी होती है। और इस तरह गिराये गये कुछ वम बड़ी सफलता पूर्वक देश की सारी अर्थ-व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। इस प्रकार युद्ध-कला की दृष्टि से देखें तो भी

^१ कोआपरेटिव डॉमोकेसी—जे० बी० वारब्से—पृ० ४

जिस देश में बड़े-बड़े कारखाने कुछ शहरों में केन्द्रित कर दिये जाते हैं, बाहरी आकमणों के लिए वे अत्यन्त अरक्षित रहते हैं। चीन जो इतने वर्षों जापानी आकमणों का मुकाबला कर सका उसका एक मुख्य कारण शायद उसकी सहकारी उद्योग-पद्धति है। इस हलचल ने देश के कोने-कोने में गृहोदयोंगों का जाल फैलाकर जीवन की आवश्यक वस्तुओं के बारे में प्रायः तमाम चीज़ीं ग्रामों को स्वावलम्बी बना दिया है। इसलिए सौभाग्य से कहिये या दुर्भाग्य से, लश्करशाही की दृष्टि से भी ग्रामी-करण अत्यन्त आवश्यक होगया है। अतः आज के संसार में जबकि बार-बार लम्बी और भयंकर लड़ाइयां छिड़ने लग गई हैं, यह व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी हो गया है कि खान-पान व पहनने के कपड़े जैसी दैनिक ज़रूरत की चीजें, जहां तक संभव हो, हर स्थान में बन जाया करें, क्योंकि बाहरी या दूर के बाजारों पर इन चीज़ों के लिए निर्भर रहने से जनता को बहुत कष्टों का सामना करने की नौबत आ सकती है। इसलिए अब तो, जब कि सैनिक महत्व की दृष्टि से भी उत्पादन का विकेन्द्रीकरण अनिवार्य-सा होगया है, हमारे देश में विकेन्द्रीकरण की जो एक बहुत सुन्दर प्रणाली पहले ही से है उसकी अवहेलना करना निरा पागलपन होगा।¹

अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव

जागतिक शान्ति एवं अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव को क्रायम रखने के लिए कई उपाय सुझाये गये हैं। राष्ट्र-संघ का उद्देश्य यह था कि अंतर्राष्ट्रीय भूगङ्गों का निपटारा समझा-नुझाकर या पंच-प्रथा द्वारा कर लिया जाय। पर फासीज़म के प्रकोप के सामने यह सूरी इमारत तो ढह कर गिर गई। अब सानफ्रान्सिस्को परिषद् ने संसार में शांति-स्थापना के लिए एक नया इकरारनामा बनाया है। परन्तु उसका सार तो यह है कि बड़ी-तीनों राष्ट्रोंका शेष संसार पर प्रभुत्व रहे। प्रस्तावित अन्तरराष्ट्रीय पुलिस-दल के संचालक एवं नियंता अमरीका का युक्त राष्ट्र, रूस और ब्रिटेन होंगे।

¹ रिपोर्ट आफ दी फेक्ट फाइंडिंग कमिटी (हैन्डलूम एण्ड मिल्स) पृ० २०७।

पर अगर खुद संयुक्त राष्ट्रों की आपस में अनवन हो गई तो यह पुलिस-दल क्या करेगा ?

वहुत से प्रमुख विचारकों की राय में इस अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता को दूर करने के लिए सारे संसार को एक छत्र के मातहत ले आना अत्यंत आवश्यक है। इलाय कलवर्टसन ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्रों से अपील करते हुए कहा है कि अब अविलम्ब एक ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशील सङ्गठन निर्माण करना चाहिए। यह वर्तमान राष्ट्रों की सरकारों से अलग हो। वह किसी उच्च कानून पर आधारित हो, जिसके द्वारा सभी राष्ट्रों की सरकारें समान रूप से नियंत्रित होती रहें। यह अन्तर्राष्ट्रीय सङ्गठन स्वतंत्र पुलिस के बल पर अपना शासन चलावे ताकि सबकी सम्पत्ति रूप से रक्षा हो। और प्रसङ्गवश कभी दूसरे राष्ट्रों के मुकाबले में कोई राष्ट्र अकेला भी पड़ जावे तो वह कहीं अकेला पीस न दिया जाय। दूसरों के मुकाबले में उसकी रक्षा भी हो सके। सर विलियम वावरिज अपनी “शाति की कीमत” (प्राइस फार पीस) नामक पुस्तक में तीन बड़ों के बल के आधार पर एक अति राष्ट्रीय सत्ता की स्थापना की ज़रूरत को प्रकट करते हैं। सुमनर वेल्स कहते हैं कि प्रादेशिक हृष्टि से एक संसारव्यापी सङ्गठन का होना नितान्त आवश्यक है। इन तमाम योजनाओं में निःशास्त्रीकरण और संयुक्त रक्षा को पहले से मान लिया गया है। परंतु इनसे भी हमारी समस्या भली प्रकार हल नहीं होगी।

यह बताने की जरूरत नहीं है कि तमाम युद्धों का असली कारण आर्थिक शोषण और संसार के बाजारों पर कब्जा करने का अत्यधिक लालच है। गत महायुद्ध के बाद से मित्र राष्ट्र अपने माल का निकास दूसरे देशों में बढ़ाने की धुन में हैं, जिससे वे अपने देश में रहन-सहन को ऊँची रख सकें।

बाजारों के लिए यह जो साम्राज्यवादी घुङ्डौङ हो रही है, वह निःसंदेह इन राष्ट्रों में ईर्ष्या-द्वेष जगावेगी, जिसका अंतिम परिणाम होगा

जिस देश में बड़े-बड़े कारखाने कुछ गहरों में केन्द्रित कर दिये जाते हैं, बाहरी आक्रमणों के लिए वे अत्यन्त अरक्षित रहते हैं। चीन जो इतने बड़ों जापानी आक्रमणों का मुकाबला कर सका उसका एक मुख्य कारण शायद उसकी सहकारी उद्योग-पद्धति है। इस हलचल ने देश के कोने-कोने में घटेयोगों का जाल फैलाकर जीवन की आवश्यक वस्तुओं के बारे में प्रायः तमाम चीनी ग्रामों को स्वावलम्बी बना दिया है। इसलिए सौभाग्य से कहिये या दुर्भाग्य से, लश्करशाही की दृष्टि से भी ग्रामी-कारण अत्यन्त आवश्यक होगया है। अतः आज के संसार में जबकि बार-बार लम्बी और भयंकर लड़ाइयां छिड़ने लग गई हैं, यह व्यवेस्था करना बहुत ज़रूरी हो गया है कि खान-पान व पहनने के कपड़े जैसी दैनिक ज़रूरत की चीज़ें, जहां तक संभव हो, हर स्थान में बन जाया करें, क्योंकि बाहरी या दूर के बाज़ारों पर इन चीज़ों के लिए निर्भर रहने से जनता को बहुत कष्टों का सामना करने की नौबत आ सकती है। इसलिए अब तो, जब कि सैनिक महत्व की दृष्टि से भी उत्पादन का विकेन्द्रीकरण अनिवार्य-सा होगया है, हमारे देश में विकेन्द्रीकरण को जो एक बहुत सुन्दर प्रणाली पहले ही से है उसकी अवहेलना करना निरा पागलपन होगा।^१

अन्तर्राष्ट्रीय सदूचाव

जागतिक शान्ति एवं अन्तर्राष्ट्रीय सदूचाव को क्रायम रखने के लिए कई उपाय सुझाये गये हैं। राष्ट्र-संघ का उद्देश्य यह था कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा समझा-बुझाकर या पंच-प्रथा द्वारा कर लिया जाय। पर फासीज़म के प्रकोप के सामने यह सूरी इमारत तो टह कर गिर गई। अब सानफ़ान्सिस्को परिषद् ने संसार में शांति-स्थापना के लिए एक नया इकरारनामा बनाया है। परन्तु उसका सार तो यह है कि बड़ी-तीनों राष्ट्रोंका शेष संसार पर प्रभुत्व रहे। प्रस्तावित अन्तरराष्ट्रीय पुलिस-दल के संचालक एवं नियंता अमरीका का युक्त राष्ट्र, रूस और ब्रिटेन होंगे।

^१ रिपोर्ट आफ दी फेक्ट फाइंडिंग कमिटी (हैन्डलूम एण्ड मिल्स) पृ० २०७।

पर अगर खुद संयुक्त राष्ट्रों की आपस में अनवन हो गई तो यह पुलिस-दल क्या करेगा ?

बहुत से प्रमुख विचारकों की राय में इस अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता को दूर करने के लिए सारे संसार को एक छत्र के मातहत ले आना अत्यंत आवश्यक है। इलाय कलबर्ट्सन ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्रों से अपील करते हुए कहा है कि अब अविलम्ब एक ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशील सङ्गठन निर्माण करना चाहिए। यह वर्तमान राष्ट्रों की सरकारों से अलग हो। वह किसी उच्च कानून पर आधारित हो, जिसके द्वारा सभी राष्ट्रों की सरकारें समान रूप से नियंत्रित होती रहें। यह अंतर्राष्ट्रीय सङ्गठन स्वतंत्र पुलिस के बल पर अपना शासन चलावे ताकि सबकी सम्मिलित रूप से रक्षा हो। और प्रसङ्गवश कभी दूसरे राष्ट्रों के मुकाबले में कोई राष्ट्र अकेला भी पड़ जावे तो वह कहीं अकेला पीस न दिया जाय। दूसरों के मुकाबले में उसकी रक्षा भी हो सके। सर विलियम वीवरिज अपनी “शाति की कीमत” (प्राइस फार पीस) नामक पुस्तक में तीन बड़ों के बल के आधार पर एक अति राष्ट्रीय सत्ता की स्थापना की ज़रूरत को प्रकट करते हैं। सुमनर वेल्स कहते हैं कि प्रादेशिक दृष्टि से एक संसारव्यापी सङ्गठन का होना नितान्त आवश्यक है। इन तमाम योजनाओं में निःशास्त्रीकरण और संयुक्त रक्षा को पहले से मान लिया गया है। परंतु इनसे भी हमारी समस्या भली प्रकार हल नहीं होगी।

यह बताने की जरूरत नहीं है कि तमाम युद्धों का असली कारण आर्थिक शोपण और संसार के बाजारों पर क़ब्जा करने का अत्यधिक लालच है। गत महायुद्ध के बाद से मित्र राष्ट्र अपने माल का निकास दूसरे देशों में बढ़ाने की धुन में हैं, जिससे वे अपने देश में रहन-सहन को ऊँची रख सकें।

बाजारों के लिए यह जो साम्राज्यवादी घुङ्डौङ हो रही है, वह निःशादेह इन राष्ट्रों में ईर्ष्या-द्वेष जगावेगी, जिसका अंतिम परिणाम होगा

फिर महायुद्ध, जिसकी कल्पना मात्र से दिल दहल जाता है। इसलिए अगर युद्धों को मिटाना है तो इनका जड़ पूँजीवाद और साम्राज्यवाद को हमें मिटाना ही होगा। विभिन्न राष्ट्रों के बीच शांति तभी कायम हो सकेगी जब कि खुद उन राष्ट्रों के भीतर भी शांति होगी।^१ भीतरी शांति सम्पत्ति के न्यायपूर्ण वितरण के बगैर असम्भव है। ऐसा वितरण सहकारी पद्धति पर उद्योगों के विकेन्द्रीकरण से है। सम्भव है। गृहायोगों की सहायता से लालची साम्राज्यवाद बो नष्ट करने में निश्चित रूप से हमें बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है और इससे अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना पैदा होगी। इसीलिए आज केवल सैनिक निःशस्त्रीकरण से काम नहीं चलेगा। आज सबसे अधिक ज़रूरत आर्थिक निःशस्त्रीकरण की है। बड़े-बड़े राष्ट्रों की जनता में अपने-अपने प्रदेशों के लिए जैसे-जैसे प्रेम पैदा होने लगेगा, वैसे-वैसे आक्रमणशील राष्ट्रवाद द्वारा संसार के छिन्न-विच्छिन्न किये जाने का खतरा भी घटता जायगा।

हकोमजी पहले अपना इलाज कोजिए

यह अत्यन्त दुर्भाग्य का बात है कि संयुक्त राष्ट्रों ने विकेन्द्रीकरण को उपाय-योजना सिर्फ पराजित जर्मनी के लिए की है। पोटस्डम में तीन बड़ों ने यह निश्चय किया था कि संपूर्ण जर्मन राष्ट्र में जनतन्त्री सिद्धांतों पर स्थानीय स्वशासन की स्थापना कर दी जायगी। “और यह कि खेती और शांतिपूर्ण गृहायोगों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जायगा।” और लोग जो चाहे सोचें मेरा तो निश्चित विश्वास है कि इस आर्थिक और राजनैतिक विकेन्द्रीकरण से हिटलर की भूमि में अवश्यमेव स्थायी शांति और समृद्धि आवेगें। ध्यान देने की बात है कि शांतिपूर्ण गृहायोगों की स्थापना उस देरा नं की जा रही है जहां हिंसा को उसकी परमावधि तक पहुँचा दिया गया था। दुःख केवल इस बात का है कि यह विकेन्द्री-करण अन्दर से नहीं पैदा हुआ है, बाहर से ज़वरदस्ती के साथ मढ़ा जा रहा है। पर विजेता इस पर बहुत अधिक खुशियां न मनावें।

मुझे इन मित्र-राष्ट्रों से कहने दीजिए कि 'हक्कीमजी पहले अपना इलाज तो कीलिए।' जो उपाय-योजना मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी में शान के साथ की है, उसीका अवलभवन वे अगर अपने राष्ट्रों में भी करेंगे तो संसार में निश्चित रूप से स्थायी शान्ति की स्थापना हो जायगी, क्योंकि इससे आक्रमण की खुजली ही मिट जायगी। पर अगर उन्होंने यह नहीं किया तो संसार एकवार फिर निश्चित रूप से अभूत-पूर्व संकट में जा गिरेगा।

हमारे आलोचक पूछ सकते हैं कि "जो पद्धति जर्मनी को अनन्त-काल तक गुलामी में रखने के लिए उस पर लादी गई है, उसीकी सिफारिश आप हिन्दुस्तान के लिए क्यों कर रहे हैं?" उन्हें मेरा जवाब है—अगर स्वतन्त्र भारत अपनी स्वेच्छा से इस पद्धति को स्वीकार करेगा तो वह न केवल भीतरी शान्ति की स्थापना करेगा, बल्कि वह बाहर भी इस शान्ति को फैला सकेगा। जर्मनी की भाँति वह अपमानित और दलित होकर अपनी खोई हुई शक्ति को छिपे-छिपे प्राप्त करके संसार पर अपना सिक्का जमाने की कोशिश नहीं करेगा। वह तो एक दीप-स्तम्भ की भाँति होगा जो दूसरे देशों को साम्राज्यवाद और शोषण के अंधकार में सदा प्रकाश देकर उनका मार्ग-दर्शन करता रहेगा। वह न तो खुद किसी देश का शोषण करेगा, न दूसरों को अपना शोषण करने देगा।

क्या वह मध्ययुगीन है?

गांधीवाद के ग्लिलाफ यह बार-बार कहा जाता है कि यह तो हमें मध्ययुग में ले जाता है। वह घड़ी के कांडों को पीछे हटानेवाला है। परन्तु इन आलोचनाओं की जड़ में गांधीजी के सिद्धान्तों के बारे में लोगों का प्रेरण अज्ञान ही है। गांधीजी यह कदापि नहीं चाहते कि हमारी ग्राम-संस्थायें शोष देश या संसार से कोई सम्बन्ध न रखें या उनसे अलग अथवा कटी हुई रहें। न तो यह सम्भव है और न इष्ट ही है। गांधीजी चाहते हैं कि हमारी ग्राम-संस्थायें स्वराज्य-सरकार की प्राथमिक इकाइयां हों और उन्हें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक मामलों में अधिक-से-अधिक स्वतन्त्रता हो। गांवों का अपनी तहसील, ज़िला और प्रान्त की सभाओं के

तथा संघ पार्लमेण्ट की मार्फत तहसील, ज़िला, प्रान्त और अखिल भारतीय केन्द्र से व्यवस्थित सम्बन्ध हो।

यह मानना गलत होगा कि पुराने और मध्ययुगीन ज़माने में भी ग्राम-संस्थाओं का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं था। मनुस्मृति, महाभारत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और संस्कृत के अन्य ग्रन्थों से हमें पता चलता है कि प्रत्येक गांव, दस गांव, त्रीस गांव, एक सौ गांव और एक हजार गांवों पर योग्य अधिकारी नियुक्त रहते थे और वे अपने मातहत के गांवों के काम-फाज की देख-भाल करते थे। यह भी सत्य है कि प्रत्येक गांव को अपने मामलों में राष्ट्रीय रक्ता और कार्यक्रमता से सुसंगत बहुत अधिक स्वाधीनता थी। परन्तु ग्रामीण जनतन्त्र शनैः-शनैः संघ-निर्माण के आधार पर राजनैतिक संगठनों में मिले जाते और ठेठ ऊंचे से जनता के बने स्वशासित व्यापक संगठन से बढ़ते हुए, एक के ऊपर एक, इस तरह उत्तरोत्तर चड़े-चड़े संगठन बनते जाते थे। प्र० राधाकुमुद मुकर्जी बताते हैं कि इन उत्तरोत्तर ऊंचे बढ़नेवाले घटकों को क्रमशः सभा, महासभा, और नस्तर कहा जाता था। चोलों के महान साम्राज्य के अधिपति सम्राट राजराज के समय के जो अनेक शिलालेख मिले हैं, उनमें इस राजा के शासन-संगठन का उल्लेख है, जिसमें इस प्रकार से शासन-तन्त्र का परिचय देनेवाला सबसे उत्तम वर्णन मिलता है। सर्व से छोटा घटक—और शासन-संगठन का आधार गांव (उरु) या कस्ता (नगर) था। इससे ऊंचा घटक नाडु अथवा कुरम् कहलाता था। संगठन में सीसरा स्थान कोटम या विसाया का था और इससे ऊपर जो संगठन था उसे मण्डल या राष्ट्र कहते थे। यह साम्राज्य का एक प्रान्त था। स्व० काशीप्रसाद जायसवाल ने अपनी 'हिन्दू राजतंत्र' में जनपद के संगठन का कुछ परिचय दिया है। इसमें देश की कितनी ही प्रान्तीय सभाओं का प्रतिनिधित्व होता था। इन सब बातों से प्रकट होता है कि हिन्दूस्तान की प्राचीन ग्राम-प्रणाली पुराने कबीलों का अवशेष नहीं, चलिक वह संघ-पद्धति पर संगठित एक प्रकार की शासन-प्रणाली थी।

आज हमें इस संगठन को और भी अधिक व्यवस्थित और दृढ़ बनाना होगा। परन्तु इसकी आधारभूत कल्पना चिकेन्ड्रीकरण और सत्ता का बटवारा हो, जिनके कारण हमारी ग्राम-संस्थाये सदियों टिकी हैं। भारत के भावी शासन-विधान का आधार भी यही ठो तत्त्व हों। यह पद्धति मध्ययुगीन नहीं, बल्कि किसी भी आधुनिक राज्य के लिए आदर्श के नमूने का काम देगी। डा० राधाकृष्णन् कहते हैं—गांधों की तरफ लौट जाने के मानी जंगली—असम्युग में चले जाना नहीं है। वह तो केवल भारतवर्ष की स्वाभाविक जीवन-पद्धति का पुनः स्वीकार मात्र है, जिसने हमारे जीवन को सहेतुक बनाया, उसमें श्वदा उत्पन्न की और उसे सार्थकता प्रदान की। मानव-जाति की सम्मता की रक्षा का केवल वही एक मात्र तरीका है। ग्रामीण और किसान-जीवन वाले, ग्राम-पंचायतों वाले, जंगलों के आश्रम वाले, और आध्यात्मिक साधनाओं वाले हिन्दुस्तान ने समस्त संसार को बहुत बड़े-बड़े सबक सिखाये हैं। पर एक भी आदमी के साथ अन्याय नहीं किया है, एक भी देश को हानि नहीं पहुंचाई और न दूसरे देशों पर कङ्गा करने की अभिलाषा रखती है।¹

इतने पर भी अगर कोई आलोचक यही कहे कि गांधीजी के सिद्धान्त तो मध्ययुग में ले जाने वाले हैं तो मैं निःसंकोच कह दूँगा कि ये मध्ययुगीन सिद्धांत आजकल की सम्मता से, जो अपने साथ शोषण, उपनिवेशों का विस्तार, साम्राज्यवाद और आत्म-घातक लड़ाइयां लाई है हजार गुने अच्छे हैं। अगर प्रगति के मानी यही है, जो कि यह भौतिक सम्मता प्रकट करती है, तो जहन्नुम में जाय ऐसी प्रगति।

अन्तर्राष्ट्रीयता और विश्ववन्धुत्व

हम अन्तर्राष्ट्रीयता की बातें तो खूब बनाते हैं और गांधीवाद की निन्दा भी करते हैं, पर क्या हमने कभी यह भी समझने की चेष्टा की है कि गांधीजी नों इस अन्तर्राष्ट्रीयवाद से कहीं आगे हैं? उन्हें केवल अन्तर्राष्ट्रीयता से ही संतोष नहीं है, वे तो विश्ववन्धुत्व चाहते हैं।

¹ महात्मा गांधी—एसंज एंड रिफ्लेक्शन्स ऑन हिंज लाइफ एंड वर्क।

ग्राम, प्रान्त, देश और संसार के मनुष्यों के साथ ही नहीं बल्कि : अत्यन्त विश्व के साथ तादात्म्य का अनुभव करने की शिक्षा वे हमें रहे हैं। परन्तु इस विश्वबन्धुत्व का अनुभव और व्यवहार करने लिए यह ज़रा भी आवश्यक नहीं कि हम अपने पर फैलाकर निरं ज़मीन और आसमान के अन्तिम छोर तक चक्र बाटते रहें। हम शांतिपूर्वक अपनी कुटिया में बैठकर भी विश्व के साथ तादात्म्य अनुभव कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीयता और विश्वबन्धुत्व दिशा काल से नहीं, बल्कि मन की अवस्था से ताल्लुक रखने वाली वस्तुएं हम ग्राम-प्रेम और विश्व-प्रेम का पालन एक साथ कर सकते गांधीजी के विचारानुसार हमारा स्थूल निवास का आधार तो गांव हो : आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक निवास का आधार विश्व हो। उ स्वदेशी-धर्म का सार यही है। गांधीजी सारी मनुष्य-जाति और वे की सेवा ज़रूर करना चाहते हैं, परन्तु अपने निकटतम पड़ोसियों : देश की सेवा द्वारा। वह कहते हैं मेरा देश-प्रेम दोनों प्रकार का है। कुछ चाज़ों को शामिल करता है और कुछ को बाहर। बाहर इस अ करता है कि अत्यन्त नम्रभाव से मैं अपना ध्यान केवल मेरी जन्म-तक ही मर्यादित कर देता हूँ। परन्तु शामिल इस तरह करता है कि सेवा का आधार किसी प्रकार की होड़ या विरोध नहीं है। मैं तो भूत के साथ अपने आपको मिला देना चाहता हूँ।^१

नवीन सभ्यता

असल बात तो यह है कि गांधीजी का तरीका जीवन का मध्ययु तरीका नहीं बल्कि प्रत्यक्ष एक नवीन सभ्यता है। वर्तमान सभ्यता दुराइयों को दूर करने के लिए कई एक-से-एक बढ़कर उपाय सु गये, परन्तु सब-के-सब एक बात हिंसा और ज़बरदस्ती पर मूलतः स है। बाल्डर लिपमेन लिखता है कि संसार के प्रभुत्व के लिए लड़ने यथापि आज अलग-अलग रंग के कपड़े पहने हुए हैं, तथापि उ

^१ चिंडम आफ गांधी—राय चाकर—पृ० ५५।

हथियारखाना एक ही है। उनके सिद्धांतों की भाषा सिर्फ जुदी है पर विषय एक ही है। और वे एक ही युद्ध-गीत गाते हुए रणस्थली की ओर प्रयाण कर रहे हैं, सिर्फ कुछ शब्द अलग-अलग हैं। मनुष्य के जीवन और अम का वे ज्ञावरदस्ती के साथ उपयोग करना चाहते हैं। उनका सिद्धांत यह है कि संगठन में ज्यों-ज्यों अधिकाधिक ज्ञावरदस्ती हम करते जावेंगे, त्यों-त्यों अव्यवस्था और दुःखों पर विजय पाते जावेंगे। वे कहते हैं, राज्य अपनी शक्ति के बल पर मनुष्यों को सुखी कर सकता है।^१ यह युग राज्य की ज्ञावरदस्ती का युग है। प्रवाह जोरों का है। जो इस सम्मिलित सत्ता या अधिकारतंत्र को नहीं मानता वह पत्थर है, वह प्रतिक्रियावादी है। ये शब्द कड़े हों तो उसे एक सज्जन पागल कह लीजिए, जो प्रवाह के खिलाफ तैरने का निराशाजनक प्रयत्न करता है। ऐसे जमाने में महात्मा गांधी अकेले ऐसे आदमी हैं, जो पिछले कुछ वर्षों से लगातार और आग्रहपूर्वक अदिसा और विकेन्द्रीकरण की सलाह देते रहे हैं। सादगी, सजीवता और वास्तविकता की दृष्टि से उनका दृष्टि-विन्दु एकदम पूरववासियों का-सा है। डा० राधाकमल कहते हैं “हमारे राजनैतिक भविष्य की पूर्वी कल्पना में बुद्धिवादियों की डिकटेटरी या चन्दलास दौलतमन्दो की हुक्मत नहीं होगी। विशेष वर्गों से ईर्ष्या रखने वाले किसान-मजदूरों की वह मनमानी भी नहीं होगी, जो करोड़ों वेजबानों पर, ऊपर, से उनकी इच्छा-आनन्द्या का बगैर खायाल किये, लादी गई हो। असल में वह तो किसानों का सच्चा जनतंत्र होगा। पुराने देहात और नगर के प्रत्यक्ष काम करने वाले ज़रूरी संगठन उसके आधार होंगे और फिर प्रातिनिधीक पद्धति से तहसील, ज़िला और प्रान्तीय ज़ेत्रों का वे संचालन करेंगे और अन्त में सब मिलकर राष्ट्रीय धारासभा का सम्मिलित रूप से निर्माण वरेंगे। यह जनतंत्र ग्रामों में पुनः जीवन का संचार करेंगे और उन पवित्र मंदिरों तथा वृक्षों को पुनः अपना महत्व प्रदान करेंगे जहां से कि इस पद्धति का प्रारम्भ हुआ था। किन्तु साथ ही इनमें

^१ ‘दि गुड सोसायटी’—वाल्टर लिपमेन, पृ० ५।

नवीन युगोचित क्रियाशील और प्रेम भरे जीवन की ताजगी और चेतना भी होगी ही ।”^१

गांधीजी ने हाल ही में एक वक्तव्य दिया था, जिसमें उन्होंने इस नवीन सभ्यता की अपनी कल्पना को राम-राज्य के नाम से प्रकट किया था । वह लिखते हैं, “धार्मिक भाषा में उसे हम राम-राज्य अर्थात् खुदाई हुक्मत कह सकते हैं । पर राजनैतिक भाषा में वह संपूर्ण जनतंत्र है । उसमें सधनता और निर्धनता, वर्ण, जाति, धर्म, लिंग आदि सम्बन्धी सब विषमतायें नहीं होंगी । राज्य और जमीन पर जनता का प्रभुत्व होगा । न्याय तुरंत और पूर्ण होगा, पर खर्चोंला न होगा । वहां पूजा-प्रार्थना की स्वतंत्रता होगी; और भाषण, सुदरण वगैरा की भी आज्ञादी होगी, क्योंकि नैतिक संयम के आधार पर स्वेच्छापूर्वक बनाये कानून का राज्य होगा और लोग उसका पालन करंगे । ऐसे राज्य की बुनियाद सत्य और अहिंसा होंगे और उसमें सुख, समृद्ध और स्वावलम्बी गांव तथा ग्राम पंचायतें होंगी ।”

मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गांधीजी के सिद्धांतों पर बनाई गई नैधानिक सरकार का आदर्श केवल हवाई चीज नहीं होगी बल्कि वह तो आर्थिक संघर्ष और आंतर्राष्ट्रीय लड़ाइयों पर एक व्यावहारिक एवं स्थायी हल होगा । इन कल्पनाओं को अव्यावहारिक सपना कह कर जो लोग इनकी खिल्ली उड़ाते हैं वे जरा आधुनिक महायुद्धों से होने वाली चरवादी का खगाल करें । अगर हम चाहते हैं कि अब भविष्य में ऐसे भयंकर युद्धों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए तो हमें अपने आर्थिक और राजनैतिक संगठनों में आमूल परिवर्तन करना होगा । तथा कथित प्रगतिशील योजनायें और तजबीजें हमें कहीं नहीं ले जा सकतीं । जैसा कि सर विलियम बीवरिज ने कहा है—“अब हमारे सामने आज के जगत् और ख्याली दुनिया के बीच चुनाव करने की समस्या नहीं,

वल्कि इस खयाली दुनिया की आदर्श हुकूमत और जहन्नुम के बीच चुनाव करने की समस्या खड़ी है ।”^१ हम जहन्नुम को पसन्द करना चाहते हैं या गांधीजी के कल्पनागत ऐसे नये संसार को ? हमें यह निर्णय तुरंत करना है, और करना है श्रद्धा और निश्चय पूर्वक अन्यथा इस जोरों से आने वाले संसार व्यापक विनाश के प्रवाह को हम नहीं रोक सकेंगे ।

दूसरा भाग

: ५ :

मौलिक अधिकार और कर्तव्य

इस पुस्तिका के पहले भाग में मैंने उन बुनियादी सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, जिनके आधार पर स्वराज्य का विधान बनाया जाना चाहिये। अब इस दूसरे भाग में उन विभिन्न अङ्गों और पहलुओं की चर्चा करूँगा जो इसकी खासियत होंगे। यह कोई कलमवार विधान पेश करने का प्रयास नहीं है। वह तो विधान-शास्त्रियों का अपना काम है। अगर इस पुस्तिका में बताई गई मुख्य-मुख्य चारों भावी विधान में शामिल कर ली गई तो मुझे संतोष हो जायगा। हां, यहां पर यह भी बता दूँ कि यह योजना स्वतन्त्र भारत के लिए है, जिसका अंग्रेजी साम्राज्य से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। तो सब से पहले हम मौलिक अधिकारों को ही लें। भारतीय विधान में नागरिकों के अधिकारों को साफ़-साफ़ तौर पर बता देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में जाहिल जातीय समस्या है, उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। इन अधिकारों में अल्पसंख्यकों को अधिक-से-अधिक संरक्षण दिया गया है। विधान में इनका अवश्य समावेश किया जाना चाहिए।

१. क्लानून की निगाह में तमाम नागरिक समान होंगे। उनमें चात-पांत, रग, लिंग, मज़हब या सम्प्रदाय, और अमीर-गरीब का कोई भेद-भाव न होगा।

२. राज की नौकरी, मान-सम्मान और व्यापार-ज्यवसाय में किसी भी नागरिक की या पुनरप के मार्ग में धर्म, जाति या विश्वास के कारण कोई नकायट न होगी।

३. नागरिकों को पूरी शारीरिक-स्वतन्त्रता, भाषण-स्वतन्त्रता, सभा-संगठन की स्वतन्त्रता और वात्संचीत की स्वतन्त्रता होगी। केवल एक बंधन होगा—अहिंसा और सार्वजनिक नीति-अनीति का।

४. प्रत्येक नागरिक को अपने विवेक के अनुसार चलने की स्वतन्त्रता होगी, व्यक्तिगत और सामाजिक रूढियों के पालन की आज्ञादी होगी। हाँ, इनमें सार्वजनिक व्यवस्था और नीति-अनीति का ध्यान रखना जरूरी होगा।

५. तमाम नागरिकों को अपनी लिपि, भाषा और संस्कृति की रक्षा और विकास करने का अधिकार होगा।

६. राजकोष से बनाये गये या समस्त जनता के उपयोग के लिए खानगी व्यक्तियों द्वारा दिये गये तमाम कूए, वावड़ी, तालाब, सङ्कें, घाठशालाएं और आराम-घर वगैरा पर तमाम नागरिकों का अधिकार समान होगा।

७. प्रत्येक नागरिक को चुनियादी शिक्षा अर्थात् नई तालीम मुफ्त पाने का अधिकार होगा।

८. अपनी जान और माल की रक्षा के लिए हिंसा, ज्वरदस्ती, या धमकी वगैरा से कानून और पुलिस की रक्षा पाने का प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी होगा।

९. ईमानदारी से काम करते हुए हर व्यक्ति को कम-से-कम नियत खीचन-चेतन पाने का अधिकार होगा।

१०. दिन में आठ घण्टे से अधिक काम करने के लिए किसी पर भी ज्वरदस्ती नहीं की जा सकेगी।

११. प्रत्येक मनुष्य को इलाज और दवा-दारू के विषय में पूरी आज्ञादी होगी। (टीका वगैरा लगवाने के सम्बन्ध में आज के कानूनों में आवश्यक फेर-फार कर दिये जावेंगे)।

१२. बालिग मताधिकार के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को देश के शासन में भाग लेने का अधिकार होगा।

१३०. राज द्वारा बनाये गये कानूनों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को हथियार रखने का अधिकार होगा।

कर्तव्य

परन्तु ये तमाम अधिकार नीचे लिखे कर्तव्यों के पालन पर ही प्राप्त हो सकेंगे :

१०. तमाम नागरिक राष्ट्र के प्रति वकादार होंगे।

२०. कानून के अनुसार नकद, अनाज वगैरा या शारीरिक श्रम राष्ट्र के कोष में देकर हर नागरिक सार्वजनिक सेवा में सहायता करेगा।

३०. मनुष्य-मनुष्य के बीच होने वाले शोषण से प्रत्येक नागरिक अपने को बचावेगा, उसे रोकेगा और ज़रूरत पड़ने पर प्रतिकार करेगा।

: ६ :

गांव—राष्ट्र की बुनियादी इकाई

जैसा कि पहले बताया गया है, गांधीजी चाहते हैं कि स्वतंत्र भारत में स्वावलम्बी और स्वशासित गाव राष्ट्र की सरकार की बुनियादी इकाइयाँ होंगे। यह योजना देश की पूर्व परम्परा के अनुकूल ही होगी। अगर गांव बहुत छोटे-छोटे और नज़दीक-नज़दीक हों तो ऐसे अनेक गांवों को मिलाकर उनको एक इकाई माना जा सकता है।

पंचायत

तमाम बालिग लिंग-पुरुषों के बोट से प्रत्येक गांव में एक पंचायत चुनी जायगी। साधारणतया इसमें पांच ही आदमी हों। अगर गांव बड़े हों तो पंचों की संख्या सात से ग्यारह तक भी हो सकती है। पंचायत के सरपंच का चुनाव सर्वानुमति से होगा। अगर पंचों में सर्वानुमति से सरपंच का चुनाव संभव नहीं होगा तो गांव के तमाम बालिग लिंग-पुरुष मिलकर पंचों में से किसी एक का पंचायत के अध्यक्ष के लिए चुनाव कर लेंगे।

साधारणतया प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। वही सदस्य दूसरी और तीसरी बार भी चुने जा सकते हैं। पर तीन बार से अधिक नहीं। अगर कोई सदस्य अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले खीच ही में गांव का विश्वास खो दे तो उसे ७५ प्रतिशत बहुमति से वापिस भी बुलाया जा सकेगा।

अपने गांव के पटवारी, चौकीदार या पुलिस कर्मचारी को मुकर्रर करने या अलग करने का पूरा अधिकार पंचायत को होगा।

जहांतक सम्भव हो—और खासकर जहां अल्पमति के अधिकारों का सबाल हो—पंचायत के निर्णय सर्वानुमति से ही हों।

पंचायत के काम

चूंकि पंचायतों को अधिक-से-अधिक स्थानीय स्वतंत्रता होगी, गांव के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाले तमाम प्रश्नों के सम्बन्ध में पंचायत को अत्यन्त व्यापक अधिकार होंगे। वे ये हैं—

१—शिक्षा

- (क) एक प्राथमिक शाला—अर्थात् पहली बुनियादी पाठशाला चलाना। इसमें किसी उत्पादक उद्योग के द्वारा बच्चों को प्रारम्भिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक तालीम दी जायगी।
- (ख) एक अंथालय और बाचनालय चलाना। अंथालय में पुस्तकें शिक्षात्मक होंगी, जो गांवों की सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक प्रवृत्तियों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखने वाली होंगी।
- (ग) प्रौढ़ों के लिए एक अलग शाला चलाना।

२—सनोरंजन

- (क) अखाड़ा, व्यायामशाला और खेल के मैदानों की व्यवस्था करना। स्वदेशी खेलों को खासतौर पर प्रोत्साहन दिया जायगा।
- (ख) समय-समय पर कला और कारीगरी की नुमाइशें करना।

(ग) सामूहिक रूप से तमाम जातियों के त्यौहार मनाना ।

(घ) मौसम के मेले करने की व्यवस्था करना ।

(ङ) भजन और कीर्तन मण्डलियां चलाना ।

(च) लोक-गीत, नृत्य और नाटकों को प्रोत्साहन देना ।

३—आत्म-रक्षा

(क) चोर, डाकू और जंगली जानवरों से गांव की रक्षा करने के लिए ग्राम-रक्षक रखना ।

(ख) तमाम नागरिकों को सत्याग्रह और अहिंसक प्रतिकार और रक्षा की विधिवत् शिक्षा देने की नियमित व्यवस्था करना ।

४—खेती

(क) गांव के प्रत्येक खेत का लगान कूतना ।

(ख) किसानों से ज़मीन का लगान वसूल करना ।

(ग) चक-बन्दी और सामूहिक खेती को प्रोत्साहन देना और उसका संगठन करना ।

(घ) आवपाशी की उचित व्यवस्था करना ।

(ङ) सदकारी दूकानों के ज़रिये किसानों को अच्छे बीज और अच्छे आँजार देने की व्यवस्था करना ।

(च) यह कोशिश करना कि प्रत्येक गाव अपने खाने का तमाम किश्म का ज़रूरी अनाज बगोरा खुद ही पैदा कर ले । पैसा देने वाली फसलें पैदा करने की पद्धति को रोकना ।

(छ) किसानों के कर्ज़ का हिसाब लगाकर उसको जांच करना, जहां ज़फ़रत हो उनके कर्ज़ को कम करना और ब्याज की दरों पर नियन्त्रण लगाना । जहां मम्भव हो महकार पद्धति से संयुक्त नाप पर कर्ज़ देने गले बैंक भी न्योलना ।

(ज) मिट्टी के बहते रहने से हर माल जो ज़मीन छाराव होती जा रही है उसे रोकना और समिलित प्रयत्न से ऊपर ज़मीनों को उत्तराध घनाना ।

५—उद्योग

- (क) गांव के उपयोग के लिए खादी की उत्पत्ति का संगठन करना।
- (ख) सहकार पद्धति पर अन्य ग्रामोद्योगों का भी संगठन करना।
- (ग) एक सहकारी दूधशाला चलाना, भैंस के बजाय गाय के पालन को प्रोत्साहन दिया जायगा।
- (घ) मेरे पशुओं के चमड़े को काम में लाने के लिए चमड़ा पकाने की शालायें कायम करना।

६—व्यापार-व्यवस्था

- (क) खेती और गृहोदयों से पैदा होने वाली चीजों को सहकारी पद्धति पर वेचने की व्यवस्था करना।
- (ख) बाहर का माल खरीदने के लिए ग्राहकों की सहकारी संस्थाओं का संगठन करना।
- (ग) वही चीजें वेचने की व्यवस्था करना जो गांवों की ज़रूरतें पूरी करने के बाद बच रहें। इसी प्रकार बाहर से भी वही चीजें खरीदी जावें जो गांवों में पैदा नहीं हो सकतीं।
- (घ) गांवों में सहकारी गोदाम चलाना।
- (ङ) गांवों के कारीगरों की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए सर्ती दर पर कर्ज़ दिलाने की व्यवस्था करना।

७—सफाई और आरोग्य

- (क) गांव में सफाई की उचित व्यवस्था करना।
- (ख) गांव की जनता की असुविधाओं को दूर करना तथा महामारियों को फैलने से रोकना।
- (ग) पीने के लिए विपुल मात्रा में साफ़ और आरोग्य-वर्धक जल की व्यवस्था करना।
- (घ) गांव के लिए एक औषधालय और प्रसूतिशृण—जन्मचा-घर की व्यवस्था करना। यहाँ लोगों का इलाज मुफ्त हो। इलाज की देशी पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा को प्रोत्साहन दिया जायगा।

८—न्याय

- (क) गांव के लोगों को जल्दी और स्तुता न्याय मिले ऐसी व्यवस्था करना। पञ्चायतों को दीवानी और फौजदारी के व्यापक अधिकार होंगे।
- (ख) ग्रामीणों को कानूनी सलाह और जानकारी मुफ्त मिले ऐसी व्यवस्था करना।

९—कर और अर्थ-व्यवस्था

- (क) खास-खास कामों के लिये गांवों पर कर लगाना और उन्हें वसूल करना। नकद धन के बजाय अनाज व खेतों की अन्य पेदावार, और श्रम के रूप में करों की अदायगी को प्रोत्साहन दिया जायगा।
- (ख) सामाजिक और धार्मिक प्रसंगों पर व्यक्तिगत दान एकत्र करना।
- (ग) आमद और खर्च का हिसाब ठीक तरह से रखने की व्यवस्था करना। इनकी विधिवत् जांच हो। जनता को इसे देखने का हक होगा।

गांधीवादी विधान में हमारे गांवों को कितनी आज्ञादी होगी इसकी पाटकों को कल्पना देने के लिए पञ्चायत के कामों की सूची को मैंने काफी विस्तृत बनाने का यत्न किया है।

: ७ :

तहसील और ज़िला पंचायतें

गांवों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रवृत्तियों को सुन्धान-स्थित करने के लिए तहसील और ज़िला पञ्चायतें होंगी। इन ऊपरी गंभीरों का शाम सलाह देने का होगा। वे हुक्म नहीं देंगी। वे मार्ग-दर्शन देंगी, सलाह देंगी और देनभाल करेंगी। मात्रत पञ्चायतों को आशय नहीं भेजेंगी।

तहसील पंचायतें

कुछ गांवों के विधिवत् चुने हुए अध्यक्षों की तहसील या परगना पंचायते होंगी। एक तहसील में जितने गांव शामिल होंगे उतने ही इस तहसील पंचायत के सदस्य होंगे। साधारणतया वीस गांव की एक तहसील होगी जिसकी आवादी लगभग वीस हज़ार के करीब होगी। कहने की ज़रूरत नहीं कि न्याय देने, क़ानून बनाने और अमल करने की दृष्टि से तहसीलों के मौजूदा आकार बहुत बड़े होंगे। इन्हें तोड़कर बहुत छोटा करना होगा।

ग्राम पंचायत की भाँति तहसील पंचायत का कार्यक्रम भी तीन वर्ष का होगा।

तहसील पंचायत के काम नीचे लिखे अनुसार होंगे :—

- (अ) ग्राम-पंचायतों का मार्ग-दर्शन करना, उनके काम की देख-भाल करना और उनके हिसाब की जांच करना।
- (आ) माध्यमिक या ऊपर के दर्जे की बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था करना।
- (इ) विशेष प्रकार की चिकित्सा और इलाज के लिए बड़े अस्पताल और प्रसूति-गृह चलाना।
- (ई) तहसील की तमाम पंचायतों की बचत और घटी को देखकर उनकी आय-व्यय और ज़रूरतों का मेल बैठाना।
- (उ) विशेष परिस्थितियों के लिए अतिरिक्त पुलिस दल रखना।
- (ऊ) तहसील की जनता के लिए सहकारी बैंक और बिक्री संस्थाओं को चलाना।
- (ए) गांवों के बीच के रास्तों को अच्छी दौलत में रखना।
- (ऐ) खेती की पैदावार को बढ़ाने वगैरा के प्रयोग बताने के लिए आदर्श खेत चलाना।
- (ओ) गांवों के बीच खेल-कूद वगैरा का संगठन करना।

० : ८ :

प्रान्तीय शासन

ज़िला पंचायतें तथा मुनिसिपल कॉन्सिलें अपने अध्यक्षों को प्रान्तीय पंचायत में भेजेंगी। इनकी संख्या प्रान्तों के आकार के अनुसार अलग-अलग होगी। छोटे प्रान्तों में ज़िला पंचायतें तथा मुनिसिपल कॉन्सिलें अपने अध्यक्ष के अलावा एक और प्रतिनिधि प्रान्तीय पंचायत में भेज सकेंगी।

प्रान्तीय पञ्चायतों का कार्य काल भी तीन वर्ष ही होगा।

कार्य

प्रान्तीय पञ्चायत के काम ये होंगे—

- (अ) ज़िला पंचायतों की प्रवृत्तियों का मार्ग-रूपन, देखभाल और समन्वय करना तथा उनके हिसाब की जांच-पढ़ताल करना।
- (आ) विशेष ज़रूरत के प्रसंगों के लिए अतिरिक्त पुलिस का दल रखना।
- (इ) उच्च औद्योगिक शिक्षा और संशोधन कार्य के लिए विश्वविद्यालय चलाना।
- (ई) प्रान्त के अन्दर आवागमन, यातायात और खबरें बरैरा भेजने के साधनों के संगठन और सुसंचालन की व्यवस्था करना। इन तमाम साधनों पर स्वामित्व प्रान्तीय पंचायत का होगा।
- (उ) आवपाशी की पूरी आवश्यक सुविधायें करना।
- (ऊ) अकालों के समय सहायता की व्यवस्था करना।
- (ए) ज़िला पंचायतों को सस्ते ब्याज पर कर्ज़ी देने के लिए प्रान्तीय सहकारी बैंकें चलाना।
- (ऐ) प्रान्त की प्राकृतिक संपत्ति का विकास करना और जहाँ ज़रूरत हो मुख्य उद्योगों का संचालन करना।



१२.	महाराष्ट्र	मराठी
१३.	नागपुर (वरार सहित)	मराठी
१४.	सीमाप्रान्त	पश्तो
१५.	पंजाब	पंजाबी
१६.	सिन्ध	सिन्धी
१७.	तामिलनाड़	तामिल
१८.	संयुक्त प्रान्त	हिन्दुस्तानी
१९.	उत्कल	ଓଡ଼ିଆ

कांग्रेस ने जिस पद्धति पर प्रान्तों का विभाजन किया है उसी पद्धति पर यह उपर्युक्त विभाजन भी किया गया है। नागपुर और विदर्भ को एक साथ जोड़ दिया है, वह इतना ही फ़र्क है। उसके कारण स्पष्ट हैं। यद्यपि नाम तो वे ही कायम रखें गये हैं जो कांग्रेस ने दिये हैं। परन्तु भावी विधान में उनकी सीमाएं ठीक-ठीक वे ही नहीं होंगी जो कांग्रेसीप्रान्तों की आज हैं। उदाहरणार्थ अगर सब नहीं तो कुछ ही रियासतें भारतीय संघ में शामिल होने का निश्चय कर लें तो उन रियासतों की सलाह से भाषावार प्रान्तों की सीमायें बदल जावेंगी। आज के संयुक्तप्रान्त को बड़ी आसानी से दो भागों में बांटा जा सकता है—पूर्वी और पश्चिमी। खैर, यह सब काम एक खास कमीशन को सौंप दिया जायगा, जिसकी नियुक्ति भारतीय विधान निर्मात्री सभा करेगी। जहां आवश्यक होगा खास-खास प्रदेशों की जनता की राय भी बालिग मताधिकार के आधार पर मत-गणना से ले ली जायगी।

शासन

प्रान्तीय पंचायत की धारा सभा होगी। वह एक ही होगी। प्रान्त और अपने मातहत प्रदेश के लिए ऊपर बताये कामों के सम्बन्ध में कानून बनाने का उसे पूरा अधिकार होगा।

पंचायत अपने अध्यक्ष का चुनाव खुद करेगी। वही पदेन प्रान्त का अधिपति भी होगा।

“दो-दो धारा सभाओं की पद्धति का मुझे ज़रा भी शौक नहीं है। मुझे इस बात का ज़रा भी डर नहीं कि जनता के प्रतिनिधियों की वनी धारा-सभायें मनमाने तौर पर चलेंगी, लल्दबाज़ी में कानून बना लेंगी और फिर बाद में उन्हें उनपर पछताना पड़ेगा। मुझे उन्हें नष्ट नहीं करना है जो उनकी निन्दा करके उन्हें मैं खत्म कर दूँ। मैं तो मानता हूँ कि लोक प्रतिनिधियों की वनी धारा-सभायें अपना काम अच्छी तरह कर सकती हैं। और चूंकि हमारा देश दुनिया में सबसे अधिक गरीब और दरिद्र है, जितना कम खर्च से हम काम ले सकें हमें लेना चाहिए।”

अगर रियासतें भी भारतीय संघ शासन में शामिल हो जावेंगी तो उन्हें भी अखिल-भारत-पंचायत में अपने प्रतिनिधि भेजने के वही अधिकार होंगे जो प्रान्तों की जनता को होंगे। ये प्रतिनिधि वहां की लोक-प्रतिनिधियों की सभाओं के सभापति होंगे न कि नरेशों द्वारा नामज्जद काठ की गुड़िया।

अखिल-भारत-पंचायत का कार्य काल भी तीन वर्ष का होगा।

कार्य

अधिक से अधिक प्रांतीय और स्थानीय स्वतंत्रता के सिद्धान्त के आधार पर अखिल-भारत-पंचायत का कार्य क्षेत्र-व्युत्पन्न अर्थादित होगा। उसके काम नीचे लिखे अनुसार होंगे :

- (अ) बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करना।
- (आ) जरूरत के अवसरों पर काम दें। इसलिए राष्ट्रीय पुलिस दलों को रखना।
- (इ) प्रान्तों द्वारा बनाई गई आर्थिक उन्नति की योजनाओं का समन्वय करना।
- (ई) अखिल भारतीय महत्व रखनेवाले महत्वपूर्ण उद्योगों का संचालन करना।
- (उ) यातायात तथा सन्देश भेजने के अखिल भारतीय महकमों की व्यवस्था और संचालन करना।

‘शासन और धारा-सभा के काम त्रिलकुल अलग-अलग होंगे। प्रान्तीय पंचायत भिन्न-भिन्न महकमों का संचालन करने के लिए मन्त्रियों की नियुक्ति करेगी। ये मन्त्री यद्यपि होंगे तो पंचायत के प्रति पूरी तरह जिम्मेवार, परन्तु वे प्रान्तीय पंचायत के सदस्यों में से नहीं होंगे। “जहां शासन के प्रधान संचालक और धारा सभा के अगुआ लगभग वहां होते हैं और शासन के संचालकों के बेतन बहुत भारी होते हैं, वहां वे सही अर्थों में पूरी तरह जिम्मेवार नहीं रह जाते। दलबन्दी और घड़यन्त्र फैल जाते हैं और निःस्वार्थ भाव से कानून नहीं बन पाते।”^१ पंचायत के सदस्य सही मानों में अवैतनिक काम करेंगे।

मन्त्रियों का कार्यकाल भी तीन ही वर्ष का होगा। अयोग्यता और कर्तव्य-भ्रष्टा की अवस्था को छोड़ साधारणतया नई पंचायत के आने पर वे बदले नहीं जावेंगे।

मन्त्रियों की नियुक्तियां पार्टी या संप्रदाय के सिद्धान्त पर नहीं होंगी। प्रान्त के वे अच्छे-से-अच्छे बुद्धिमान आदमी होंगे। प्रान्त के आकार के अनुसार उनकी संख्या कम या अधिक होगी। पर वे पांच से कम, और नौ से अधिक नहीं होंगे।

; ६ ;

केन्द्रीय सरकार

तमाम प्रान्तीय पंचायतों के अध्यक्षों से अखिल-भारत-पंचायत बनेगी। जो प्रान्त वडे होंगे, उनमें से अध्यक्ष के अलावा प्रान्तीय पंचायत के सदस्यों में से एक और प्रतिनिधि अखिल-भारत पंचायत में भेजा जा सकेगा।

अखिल-भारत पंचायत ही केन्द्रीय धारा सभा होगी। वह भी एक ही होगी। गोलमेज़ परिषद् में दिये गये अपने भाषणों में एक में गांधीजी ने कहा था—

“आउट लाइन स्कीम आफ स्वराज्य—श्री देशबन्धुदास और डा० भगवानदास अध्याय ६ की टिप्पणी।

“दो-दो धारा सभाओं की पद्धति का मुझे ज़रा भी शौक नहीं है। मुझे इस बात का ज़रा भी डर नहीं कि जनता के प्रतिनिधियों की बनी धारा-सभायें मनमाने तौर पर चलेगी, जल्दवाज़ी में कानून बना लेंगी और फिर बाद में उन्हें उनपर पछताना पड़ेगा। मुझे उन्हें नष्ट नहीं करना है जो उनकी निन्दा करके उन्हें मैं खत्म कर दूँ। मैं तो मानता हूँ कि लोक-प्रतिनिधियों की बनी धारा-सभायें अपना काम अच्छी तरह कर सकती हैं। और चूँकि हमारा देश दुनिया में सबसे अधिक गरीब और दरिद्र है, जितना कम खर्च से हम काम ले सकें हमें लेना चाहिए।”

अगर रियासतें भी भारतीय संघ शासन में शामिल हो जावेंगी तो उन्हें भी अखिल-भारत-पंचायत में अपने प्रतिनिधि भेजने के वही अधिकार होंगे जो प्रान्तों की जनता को होंगे। ये प्रतिनिधि वहां की लोक-प्रतिनिधियों की सभाओं के सभापति होंगे न कि नरेशों द्वारा नामज्ञदाठ की गुड़िया।

अखिल-भारत-पंचायत का कार्य काल भी तीन वर्ष का होगा।

कार्य

अधिक से अधिक प्रांतीय और स्थानीय स्वतंत्रता के सिद्धान्त के आधार पर अखिल-भारत-पंचायत का कार्य क्षेत्र-वहुत मर्यादित होगा। उसके काम नीचे लिखे अनुसार होंगे :

- (अ) बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करना।
- (आ) बर्त्तत के अवसरों पर काम दें। इसलिए राष्ट्रीय पुलिस दलों को रखना।
- (इ) प्रान्तों द्वारा बनाई गई आर्थिक उन्नति की योजनाओं का समन्वय करना।
- (ई) अखिल भारतीय महत्व रखनेवाले महत्वपूर्ण उद्योगों का संचालन करना।
- (उ) यातायात तथा सन्देश सेवने के अखिल भारतीय महकमों की व्यवस्था और संचालन करना।

- (अ) चलनी सिक्के, चुड़ी और अंतर्राष्ट्रीय बेयापार का नियमन करना।
- (ए) अखिल भारतीय महत्व और उपयोग वाली बड़ी-बड़ी शिक्षा-संस्थाओं का संचालन करना तथा सर्वत्र शिक्षा का समुचित दर्जा कायम रखने के सम्बन्ध में प्रान्तों का मार्ग दर्शन करना।
- (ऐ) राष्ट्र की वैदेशिक नीति का निर्धारण करना।
- शेष अधिकार (रेसेड्यू आफ पॉवर्स) केन्द्रीय सरकार को नहीं वल्कि संघ में शामिल होनेवाली इकाइयों के ही आधीन रहेंगे।

शासन

अखिल-भारत-पंचायत कानून बनानेवाली मुख्य धारा-सभा होगी। उसके सिपुर्द जो काम हैं, उनके सम्बन्ध में वह कानून बनाएगी। अखिल-भारत पंचायत का अध्यक्ष राष्ट्र का अध्यक्ष होगा। संघ-पंचायत अपने विभिन्न महकमों के संचालन के लिए मन्त्रियों को नियुक्ति करेगी। ये मन्त्री अखिल-भारत-पंचायत के सदस्यों में से नहीं होंगे। इस प्रकार कानून बनाने और शासन के काम बिलकुल अलग-अलग होंगे।

केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल या शासन सभा पूरी तरह से केन्द्रीय धारा सभा के प्रति ज़िम्मेवार होगी। मन्त्रियों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। परन्तु अयोग्यता और कर्तव्यभ्रष्टता को छोड़ और किसी कारण से अखिल-भारत-पंचायत साधारणतया मन्त्रियों को अलग नहीं कर सकेगी। अगर कोई मन्त्री गम्भीर दुराचरण का अपराधी पाया जायगा तो उसे अपने साधारण कार्यकाल की समाप्ति के पहले भी तुरन्त अलग हटा दिया जायगा।

मन्त्रियों की नियुक्ति में जाति, सम्प्रदाय या पार्टीयों का ख्याल नहीं रखा जायगा। अच्छे-से-अच्छे और बुद्धिमान आदमियों की ही नियुक्ति होगी। चूंकि स्थानीय मामलों में बहुत बड़ी मात्रा में पहले ही स्वायत्तता प्रदान कर दी गई है, इसलिए धारा सभा में भी कोई विधिवत् और कठोर राजनैतिक दलवन्दी नहीं होगी। यों केन्द्रीय शासन समिति के बनाने में तमाम जातियों का और खास तौर पर अल्पसंख्यक जातियों का

पूरा ध्यान रखा जायगा, परन्तु स्वतन्त्र भारत के भावी विधान में जातीय प्रतिनिधित्व के अनुपात की दोष-पूर्ण पद्धति को कोई स्थान नहीं होगा। वास्तव में पूर्णतया विकसित अहिंसक अवस्था को पहुंच जाने पर भारत में एक भी ऐसी अल्पसंख्यक जाति नहीं रहेगी जिसे यह शिकायत होगी कि उसकी तरफ पर्यात ध्यान नहीं दिया गया है और इस कारण जो अपने आपको सारे राष्ट्र से अलग मानती होगी।

संघ के अंग

अखिल भारत पंचायत एक संघ होगा। इसमें प्रान्त और रियासतें अपनी इच्छा से शारीक होंगे। और उन्हें अपने प्रदेशों के स्थानीय प्रश्नों में अधिक-से-अधिक स्वतन्त्रता होंगी। चूंकि भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टियों से भारत एक और अखण्ड है, अपेक्षा यह है कि तमाम प्रान्त और रियासतें भी राष्ट्र की भलाई के लिए स्वेच्छा से इसमें शारीक हो जावेंगे। समिलित राष्ट्रीय जीवन के निर्माण और विकास के लिए आवश्यक सद्भावपूर्ण वातावरण बनाने के लिए हर तरह का प्रयत्न किया जायगा। फिर भी यदि किसी प्रदेश के बालिग स्त्री-पुरुषों की यह राय हो कि उनका प्रान्त या रियासत संघ में शारीक न हो और वे अपनी इस राय को विधिवत् सिद्ध और घोषित कर देंगे तो उस प्रदेश को संघ में शारीक होने के लिए मजबूर नहीं किया जायगा। अलग होने की बात का उत्तेज जान बूझकर नहीं किया गया है यद्यपि संघ में शारीक होने की स्वतन्त्रता में अलग होने की स्वतन्त्रता का भी समावेश हो ही जाता है। यहां पर यह बता देना अप्रासंगिक नहीं होगा कि सोवियट रूस में भी अलग होने का अधिकार केवल यूनियन के खारह प्रजातन्त्रों तक ही मर्यादित रखा गया है। इन स्वयंशासित प्रजातन्त्रों की भाँति अन्य अनेक छोटे-छोटे घटकों को यह अधिकार नहीं दिया गया है। फिर यूनियन के उन खारह प्रजातन्त्रों को भी दिया गया अधिकार नाम मात्र का है। क्योंकि अब यह बात जग-प्रसिद्ध है कि संघ से अलग होने की प्रवृत्तियां

सोवियट अदालतों द्वारा अत्यन्त देशद्रोह भरी और कान्ति की विरोधिनी मानी गई है।

परन्तु अहिंसा को मानने वाले एक राष्ट्र में ज़बरदस्ती और पशु-बल के द्वारा की गई ज़बरदस्ती का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। अगर किसी प्रदेश को यह स्वतंत्रता है कि वह चाहे तो संघ में शारीक हो या न भी हो तो अलग होने का अधिकार भी कानूनी रूप से अपने आप है ही। परन्तु गांधीवादी विधान के मातहत सारे वातावरण में इतनी सहिष्णुता, सदूभाव और सहयोग होगा कि अलग होने की मांग खड़ी होने की उसमें सम्भावना ही नहीं रह जायगी।

भाषा

अखिल-भारत-पञ्चायत का सारा कारोबार हिन्दुस्तानी में होगा जो नागरी और उदूँ दोनों लिपियों में लिखी जायगी।

: १० :

न्याय-विभाग

अंगरेज सरकार ने इस देश में न्यायदान की जो पद्धति जारी की है उसने देश के सामाजिक और आर्थिक जीवन को ज़बरदस्त क्षति पहुंचाई है—तबाही दा दी है। पुराने ज़माने में पञ्चायतें वहीं-की-वहीं दीवानी और फौजदारी मामलों का फैसला दे दिया करती थीं। पञ्चायतों के सामने भूठी गवाहियां देना और भूठी कसमें खाना बड़े-से-बड़े पाप मानी जाती थीं। न्याय सही-सही मिलता और सो भी कम खर्च में। इसके विपरीत आज-कल की अदालतें वहीं खर्चाली हैं। न्याय भी ज़रूरी नहीं मिलता। मामूली मामलों का फैसला महीनों तक नहीं होता। कभी-कभी बरसों लग जाते हैं। न्यायदान की पद्धति भी बहुत पेचीदा है वह भूठ और वेर्डमानी को बढ़ाती है। वकीलों की एक फौज खड़ी हो गई है, जिनके दलालों का

एक विशाल जाल-सा परिवर्ती प्रदेश में फैला रहता है। ये सब वेक्षार की और गिरानेवाली मुकद्दमेवाज़ी को बढ़ा-बढ़ाकर गांवों से प्रति वर्ष करोड़ों रुपये चूसते और देहाती जनता की दरिद्रता को बढ़ाते रहते हैं। भूठी गवाहियाँ और भूठी कसमें खाना अब तो मामूली बात हो गई है। सचाई और ईमानदारी को लेकर बैठनेवाले घाटे में रह जाते हैं। अंगरेज़ों द्वारा जारी की गई इस न्याय-पद्धति से जनता में नैतिकता बढ़ी नहीं बल्कि वह नैतिकता को बेहद गिराने में प्रत्यक्ष रूप से कारणीभूत हुई है। इसलिए इस पद्धति से हम जितनी जन्मदी नमस्कार कर लें उतना ही हमारा और राष्ट्र का भला है। मारिस हैलेट जैसे अत्यन्त प्रतिक्रियावादी गवर्नर तक ने हाल ही में कहीं कहा था—

“मुझे कई बार ख्याल होता है कि जब से भारत-सरकार ने शासन के केन्द्रीकरण की तरफ कदम रखा यह गलत रास्ते पर चल पड़ी है। इसमें हमने पुरानी पद्धति को भुला दिया जिसके अनुसार गांव अपने संगठन के लिए खुद ही जिम्मेवार होते थे। इस भूल का देश पर बड़ा बुरा असर पड़ा है। टक्साली पद्धति पर अपने शासन का संगठन करने की धुन में सरकार ने मजिस्ट्रेट-कोर्ट जैसी पश्चिमी ढंग की अदालतें सारे देश में खड़ी कर दीं। हमें ख्याल भी नहीं रहा कि इनमें होने वाला बहुत-सा काम खुद गांवों में ही होना अधिक उचित था और वहां वह ज्यादा अच्छी तरह भी होता। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक गांव या गांवों के समूह में एक-एक पंचायत हो और उन्हें तमाम छोटे-छोटे दीवानी, फौजदारी, और मुल्की मामले निपटाने के अधिकार दे दिये जावें।”^१

ग्राम-पंचायतें

न्यायदान का काम ग्राम-पंचायतों के सिपुर्द ही होगा। इसके लिए अलग न्यायकारी पंचायतों की ज़रूरत नहीं है। ग्रामीणों को अपने मामले निपटाने के लिए गांव से बाहर जाकर अपनी गाड़ी कमाई के पैसे और हफ्ते और महीने बरबाद नहीं करने पड़ने चाहिए। ग्राम-पंचायतों

^१ ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ २२ अक्टूबर सन् १९४२

में ही यह काम होने लग जायगा तो उन्हें तुरन्त सस्ता, और कारगर न्याय मिलने लग जायगा।

ग्रामीण को तमाम ज़रूरी गवाह गांव में ही मिल जाते हैं और बगैर अधिक ख़र्च के वह अपने मामले लड़ सकता है। उसे बकालों पर अपना धन बरचाद नहीं करना पड़ता। वहां भूठे गवाह तुरन्त पकड़े जा सकते हैं। अगर कभी कोई पेचीदा मामला पंचायत में पेश हो तो तहसील या ज़िले से कोई सब-जज वहां जाकर पंचायतों की सहायता कर सकता है। राज के कानूनों का समय-समय पर परिचय देकर वह अशानी ग्रामीण जनता के लिए मार्ग-दर्शक, मित्र और गुरु का काम भी कर सकता है।

न्याय की यह पद्धति न केवल सरल होगी बल्कि सस्ती भी होगी। न्याय वहां तुरन्त और ठीक-ठीक भी मिलेगा। क्योंकि दीवानी और फौजदारी मामलों की तफसीलों से तो सारा गांव परिचित होता है, वहां झूठ-फरेव तथा कानूनी बाजीगरी के लिए कोई अवकाश ही नहीं होगा। ग्रामीण जनता को सही ढंग की कानूनी शिक्षा मिलेगी सो अलग।

ज़िला कोर्ट

चूंकि ग्राम-पंचायतों को न्यायदान के विषय में व्यापक दीवानी और फौजदारी अधिकार होंगे इसलिए तहसील कोटीं की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। खास-खास मामलों में अगर अपील करने की ज़रूरत हो तो लोग गांवों से सीधे ज़िले की कोर्ट में जा सकते हैं। कस्बों के मामले भी इन ज़िला-कोटीं में ही जावेंगे। इन अदालतों के न्यायाधीश ज़िले की शासन-संस्था से पूर्णतया स्वतन्त्र होंगे। इनकी नियुक्ति ज़िला-पंचायतें करेंगी और अपने कार्यकाल में जबतक वे अपने कर्तव्य का पालन ठीक तरह से करते रहेंगे इन्हें कोई हटा नहीं सकेगा।

हाई-कोर्ट

वहुत ही कम—अपवादात्मक मामलों की अपील ज़िला कोर्ट से हाई-कोर्ट में जा सकेंगी। हाई-कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रान्तीय

पंचायतें करेंगी। शासन विभाग से वे स्वतन्त्र होंगे। और जब तक अपने कर्तव्य का ठीक तरह पालन करते रहेंगे उन्हें कोई हटा न सकेगा।

सर्वोपरि न्यायालय

भारत का सर्वोपरि न्यायालय देश में न्याय-विभाग की सबसे ऊंची सत्ता होगी। उसके काम ये होंगे—

- (अ) हाईकोर्ट के निर्णय पर की गई अपीलों की सुनवाई करना।
- (आ) संघ के अंगभूत प्रांदेशिक घटकों के बीच उपस्थित होने वाले भगड़ों में विवाद सम्बन्धों प्रश्नों का निर्णय देना।
- (इ) विधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के पालन पर ज्ञार देवर अल्प संख्यकों—अगर तब कोई रह जाय तो—के हितों की धर्म-भावना पूर्वक रक्षा करना।

इस न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अखिल-भारत-पंचायत द्वारा होगी। अत्यन्त चरित्रवान् और सर्वोच्चम् गुण एवं योग्यतावाले तथा जाति, धर्म एवं पार्टियों के राजनैतिक पक्षापक्ष से जिन्होंने अपने आपको ऊपर रखा होगा, ऐसे ही व्यक्तियों की नियुक्ति इस स्थान पर होगी।

: ११ :

चुनावों की पद्धति

पिछले अध्यायों में पाठकों ने देखा ही होगा कि इस विधान में ग्राम-पंचायतों के चुनावों में तो सीधे चुनाव की पद्धति रखी गई है और तहसील, ज़िला, प्रान्त और अखिल-भारत-पंचायत के चुनावों की पद्धति अप्रत्यक्ष रखी गई है। इस प्रणाली में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की चुनाव पद्धतियों के लाभ एकत्र ही गये हैं। गांवों को अधिक-

से-अधिक स्वतन्त्रता होगी, अतः वहां प्रत्यक्ष चुनाव रखें गये हैं। चूंकि ऊपर के अन्य संगठन पर सलाह देने तथा नीचे के संगठन काम का समन्वय करने मात्र का भार रहेगा, इसलिए उनके अप्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति ही अधिक उपयोगी होगी। भारतवर्ष महान विस्तारवाले देश में प्रत्यक्ष चुनावों से राष्ट्र की संपत्ति, समय शक्ति की भयंकर वरवादी होती है। अतः अप्रत्यक्ष चुनाव की जारी करने से अनायास ही इसकी बड़ी बचत हो जायगी। राजनैतिक बन्दियों और साम्प्रदायिक कटुता का भी अपने आप नियन्त्रण हो जा और चूंकि ये अप्रत्यक्ष चुनाव भी बहुत थोड़े ज़िम्मेवार लोगों त सीमित रहेंगे, अतः रिश्वतखोरी और अन्य प्रकार की बुराइयों के बहुत कम अवकाश रह जायगा। इसके अलावा ऊपर के संगठ प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों को भी नहीं भुला सकेंगे, क्योंकि उनका नियित्व इन नीचे की पंचायतों पर ही निर्भर रहेगा। क्योंकि इस के अनुसार नीचे की पंचायत का सभापति या अध्यक्ष ऊपर की पं का पदेन सदस्य होगा, इस प्रकार प्रत्यक्ष अखिल-भारत-पंचाय सभापति भी मूलतः अपने गांव की पंचायत का सभापति होगा। स वह तहसील, ज़िला और प्रान्तीय पंचायतों का भी सभापति होगा। लिए उसे जनता की तकलीफों और ज़रूरतों का खूब अच्छा ज्ञान वह निरा पोशाकी नेता नहीं होगा। अगर किसी ऊची पञ्चायत का अपनी प्राथमिक पञ्चायत के प्रति नागरिक धर्म का ठीक तरह से नहीं करेगा तो दूसरे चुनाव में उसके चुने जाने की सम्भावना नहीं अमल में उसे वापिस भी बुलाया जा सकता है। ऐसो सूरत ऊपर की तमाम पञ्चायतों से हटने पर वह अपने आप हट जायगा चूंकि गांवों के मतदार संघ बहुत छोटे होंगे और चुनावों के लि होने वाले उम्मीदवारों का सबको सीधा और पूरा-पूरा परिचः इसलिए दूसरे चुनावों में होने वाली गन्दगी और धोखेबाज़ी के लि अवकाश नहीं होगा।

मताधिकार

मताधिकार और मतदाता की पात्रताओं का प्रश्न तो केवल ग्राम-पञ्चायतों के चुनावों में ही खड़ा होगा। गांवों में चुनाव वालिग्र मताधिकार की पद्धति पर होंगे। उसमें जात-पांत, धर्म, लिंग, विश्वास, सामाजिक दर्जा, माली हालत या पढ़ाई बगैरा की कोई कैद नहीं होगी। बोटर का साक्षर होना भी अनिवार्य नहीं होगा। गांधीजी का तो कथन है कि—

“मैं तो इस कल्पना को भी बरदाश्त नहीं कर सकता कि एक आदमी, जिसके पास धन है, उसे तो बोट देने का अधिकार हो, पर जो चरित्रवान है; किन्तु जिसके पास धन नहीं या जो साक्षर नहीं, उसे न हो। इसी प्रकार जो ईमानदारी से काम करके, रोज़ पसोना ब्रह्माकर अपनी रोज़ी कमाता है, उसे भी बोट देने का अधिकार इसलिए न हो कि वह गरीब है। मैं साक्षरता का भी इतना कायल नहीं कि बोटर को पढ़ने-लिखने और हिसाब का ज्ञान हो। हिन्दुस्तानियों को कम-से-कम इतना ज्ञान तो ज़रूर हो, पर मैं यह भी जानता हूँ कि अगर हमें तब तक ठहरने के लिए कहा जाय तो सदियों बीत जावेंगी जिसके लिए मैं हरगिज तैयार नहीं।”^१

विशेष पात्रतायें

पंचायतों के पदाधिकारियों के लिए यद्यपि कोई खास कड़ी मर्यादायें नहीं होंगी, फिर भी उम्मीदवारों के पक्ष में बोट देते समय बोटर नीचे लिखी योग्यताओं का खास तौर पर ध्यान रखेंगे—

- (अ) साक्षरता और सामान्य शिक्षा
- (आ) नागरिक जीवन का परिपक्व अनुभव
- (इ) आर्थिक स्वतन्त्रता (जिससे रिश्वतखोरी का भय न हो)
- (ई) ग्रामीण जनता की निस्वार्थ और सच्ची सेवा।

इस मौके पर उम्मीदवारों के पक्ष में किसी भी प्रकार का प्रचार एक निश्चित बुराई और अयोग्यता का सबूत माना जाना चाहिए। पंचायत

^१ राउन्डटेबल कान्फरेन्स में दिया गया भाषण।

की सदस्यता निरे सम्मान या स्वार्थपूर्ति का साधन नहीं; बल्कि एक गम्भीर जिम्मेवारी समझी जावे।

संयुक्त मतदान

चूंकि विधान में व्यापक और विस्तृत मौलिक अधिकार दे दिये गये हैं; जातीय और पृथक् मतदान की अब ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए। असल में पृथक् मतदान की पद्धति, जिसका प्रारम्भ इस देश में अंगरेज नौकरशारी द्वारा हुआ है, जातीय भेद-भाव और कटुता का बुनियादी कारण रहा है। इस प्रश्न पर 'अल्प संख्यकों की समस्या' शीर्षक अध्याय में अधिक विस्तार से विचार किया गया है। यहां तो केवल इतना ही कह देना काफी होगा कि स्वतंत्र भारत के विधान में प्रतिनिधित्व का आधार संयुक्त मतदान की पद्धति ही रहेगी।

पर्चियां डालकर चुनाव

उत्तरामल्लूर के शिलालेख में प्राचीनकाल में होनेवाले चुनावों की एक बड़ी ही मनोरजक पद्धति का पता लगा है—

"चुनाव के लिए गांव, ३० मतदार संघों (वाडँ) में बांट दिया जाता। प्रत्येक वाडँ में सभा हांती, जिसमें वहाँ के निवासी एकत्र होते। यहाँ सभा द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार पात्रता का ध्यान रख कर मतदाता अपने मन के किसी आदमी का नाम एक पर्ची पर लिख देता। इन चिट्ठियों को वार्डवार तीस लिफाफों में अलग-अलग बन्द कर दिया जाता। और प्रत्येक लिफाफे पर उस वार्ड का नाम लिख दिया जाता। इसके बाद इन लिफाफों को एक वर्तन में रखकर गांव की भरी सभा के बीच में रख दिया जाता, जिसमें छोटे से लेकर बड़े तक उपस्थित रहते थे। सभा में गांव के मन्दिरों के सभी पुरोहित भी, जो उस दिन गांव में हाज़िर होते निरपवाद रूप से मन्दिर के अंतर्गत हैं में उपस्थित रहते। फिर ब्राह्मण-पुरोहितों के बीच में से सबसे बृद्ध पुरुष अपनी आंखों को ऊपर रखते हुए इस वर्तन को इस तरह उठाकर खड़ा होता, जिससे उसे सब देख सके। फिर एक छोटे से बड़चे को बुन्नाया जाता, जो

नहीं जानता था कि वर्तन में क्या है। उसे इस वर्तन के अन्दर के लिफाकों में से एक को उठाने के लिए कहा जाता। वह ऐसा ही करता। तब इस लिफाके के अन्दर की पर्चियों को दूसरे खाली वरतन में रखकर खूब हिलाया जाता। वच्चे से फिर इनमें से एक पर्ची उठाने के लिए कहा जाता। लड़का एक पर्ची निकालता और उस मध्यस्थ ब्राह्मण को देता। वह ब्राह्मण इस पर्ची को अपनी खुली हथेली पर ग्रहण करता। फिर उसमें लिखे नाम को पढ़ता। इसके बाद अन्तर्गृह में बैठे सभी ब्राह्मण पर्ची में लिखा नाम झोर से पढ़ कर सुनाते। इसी प्रकार प्रत्येक वार्ड के प्रतिनिधि का चुनाव होता।”^१

यद्यपि इस प्रकार पर्ची डालकर चुनाव करने की पद्धति पूर्णतया जनतन्त्री तो नहीं कही जा सकती, परन्तु गांव के सामाजिक जीवन में इससे सद्भाव और शुद्धता की रक्षा तो ज़रूर होती थी। आधुनिक चुनावों में जो कदुता और द्वेष भाव पैदा हो जाते हैं उनका तो तब सर्वधा अभाव होता था। यह प्राचीन पद्धति कुछ फेरफारों के साथ पुनः शुरू की जा सकती है। उदाहरणार्थ पहले खुले या लिखित बोटों द्वारा एक निश्चित संख्या में चुने जाने लायक व्यक्तियों के नाम जान लिये जावें और उसके बाद इस सूची में से एक आदमी का नाम पर्ची डालकर निश्चित कर लिया जाय। इसमें कोई दोष न होगा, क्योंकि पैनेल में आये सभी व्यक्तियों की योग्यता लगभग एकसी ही होगी। यह पद्धति जनतन्त्री और शान्तिपूर्ण भी है; अतः यह इष्ट है कि शासन के जितने अंगों में इस इसको शुरू कर सकें हमें करने का यत्न करना चाहिए।

: १२ :

रियासतें

भारतवर्ष की स्वतन्त्रता के मार्ग में मौजूदा रियासतें सबसे बड़ी

^१ “लोकल गवर्नर्मेंट इन प्रिंशियन्ट हन्डिया”—ठॉ० रा

रुकावटों में से एक हैं। अंगरेज् सरकार के हाथों में वे दुधारी तलवा का काम दे रही हैं। सारे देश की वैधानिक प्रगति की योजनायें ज कभी पेश की जाती हैं, उन्हें यह कहकर उड़ा दिया जाता कि देशी रियासते स्वतन्त्र सत्तावाली संस्थायें हैं, जिनके साथ त्रिटि सरकार संविधान द्वारा बंधी हुई है। दूसरी तरफ रियासतों के अन्दर पूर्ण उत्तरदायी शासन की मांग को भी इस बहाने से ठुकरा जाता है कि नरेश सार्वभौम सरकार के प्रति जिम्मेदार हैं जिस मंजूरी के बगैर रियासतों के अन्दर कोई भी महत्त्वपूर्ण सुधार जानहीं किये जा सकते। इस प्रकार जहां एक तरफ नरेशों को “सम्मानित सामन्तों” की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया गया है तां राष्ट्रीय भारत के सामने उन्हें भावी विधान के बनाने में “एक ज़बरदस्त समस्या” के रूप में पेश किया जाता रहा है। वास्तव में उनके साथ सन्धियां हुई हैं, उनका मूल्य तो अब जिस कागज पर वे लिखी हैं उत भी नहीं रह गया है। वे तो मुख्यतया या पूरी तरह से सार्वभौम सत्ता मञ्जूरूत बनाने के लिए दी गई जारीरें मात्र हैं। सन्धियां तो गम्भीर हैं, नरेशों को उन पर ज़रूर अमल करवाना चाहिये इत्यादीलों देने वाले वकील भी ज़रूर मिल जावेंगे। परन्तु ये बौने राज्य द्वारा उन सन्धियों पर कैसे अमल करवावेंगे ?^१

फिर रियासतों की सीमायें भी सोच समझकर नहीं कायम की गईं। उनके पीछे भापा, सकृति या आर्थिक कोई आधार नहीं। अनेक हाइकोर्ट से भारतवर्ष सचमुच एक इकाई है। इसलिए रियासतों के प्रदेशों प्रान्तों में मिलाकर संघ के विभिन्न अंगों की सीमायें हमें नये सिरे निर्धारित करनी होंगी। अगर अंगरेज् उन तथा कथित सुलहनामों को मान लें या उन्हें स्वतन्त्र भारत की सरकार को साँप दें, तब तो अच्छा है। अगर युद्ध नरेश उन सुलहनामों से अपने आपको कर लें और देश की जनता के साथ हो जावें तो और भी अच्छा।

अगर इनमें से कुछ भी न हो तो यह सिद्ध होगा कि भारत के विषय में अंगरेज सरकार की नीयत साफ नहीं है।

सर जार्ज शुस्टर ने लिखा है—“संघ योजना हमारे सामने यह आशा भरी सम्भावना पेश करती है कि रियासतों के शासन में काफी उदारता आ जायगी तथा वह समयानुकूल भी बन जायगा। यही नहीं, सारे देरा के राजनीतिक ढांचे में एक प्रकार की निश्चित स्थिरता भी आ जावेगी। इसके अलावा भारतवर्ष के इन दो हिस्सों के सामाजिक और आर्थिक जीवन परस्पर इस प्रकार घुले-मिले हैं और अंगरेजी इलाक़ा भी रियासती इलाक़ों से इस क़दर ताने-बाने की तरह गुंथा हुआ है कि अगर केन्द्र में किसी ऐसी सरकार की स्थापना हो गई कि जिसमें रियासतें शारीक नहीं हैं तो अक्सर संघर्ष की रहेगी ही।... अन्त में खुद नरेशों के हित की दृष्टि से देखा जाय तो भी यह बलपूर्वक कहना होगा कि नरेशों को अपने राज्यों का शासन ऐसे आधारों पर कायम करना चाहिए जिनमें उदारता हो और जिनकी तरफ किसी को अंगुली उठाने की भी गुंजाइश न मिले।”^१

ईमानदारी से अगर इस उद्धरण का अर्थ लगाया जाय तो यह नरेशों को एक प्रकार का निमन्त्रण है कि वे समय को पहचानें और अंगरेजों की संगीनों को छाया में जनता पर डिक्टेटरों की भाँति निरंकुश सत्ता चलाने के बजाय जनता का साथ दें। जब तक जनता अहिंसा के पुरुष-धर्म को मानती है, नरेशों को जनता से किसी प्रकार के अशुभ की आशंका नहीं करनी चाहिए। अगर वे चाहते हों कि उनके साथ न्याय हो तो वे अपने ही सद्गुणों का भरोसा करें। वे खुद अच्छे आदमी बनें। पर हां, वे यह भी निश्चित रूप से जान लें कि उनकी वर्तमान निरंकुशता हरगिज़ नहीं चल सकेगी। गांधीजी के शब्दों में यह “दोहरी गुलामी” है।

^१ “इण्डिया एण्ड डेमोक्रसी”—जार्ज शुस्टर अंड जे विन्ट पृ० ३६५-३६६।

: १३ :

राष्ट्र-रक्षा

सभी जानते हैं कि अहिंसा के सम्बन्ध में गांधीजी के विचार कितने निश्चित हैं और वे उन पर कितने दृढ़ हैं। वे मानते हैं कि हिंसा की अपेक्षा अहिंसा अनंत गुनी श्रेष्ठ है। वे तो चाहेंगे कि स्वतंत्र भारत बाहरी आक्रमणों से अपनी रक्षा करने के लिए भी सशस्त्र फौजें न रखें। वे चाहते हैं कि हिन्दुस्तान अपने अन्दर अहिंसा के अनुशासन का विकास करे और बाहरी आक्रमणों का बहादुरी के साथ तथा सफलता पूर्वक मुकाबला करे। उस कठिन समय में जब कि ब्रिटेन एकदम लाचार हो गया था और निराश होकर इस भय में बैठा था कि अभी हिटलर आकर उसे निगलने जा रहा है, गांधीजी ने अपनी अकेली, किन्तु शक्तिशाली आचाज हिंसक विजय के खिलाफ उठाई और साहस पूर्वक ब्रिटेन को सलाह दी कि वह जर्मन आक्रमणों का निःशस्त्र प्रतिकार करे।

“मैं चाहता हूं कि आप अपने इन हथियारों का त्याग कर दें। आपकी आंर मनुष्य जाति की वे रक्षा करने में असमर्थ हैं। इसके बजाय आप हेर हिटलर और सिन्योर मुसोलिनी को निमन्त्रण देकर बुलावें और आप जिन प्रदेशों को अपने मानते हैं उनमें से जितनों को वे चाहें उन्हें लेने दें। उन्हें अपने सुन्दर द्वीप पर भी, जहां कितनी ही सुन्दर इमारतें हैं, भले ही अधिकार कर लेने दें। हां, आप अपनी आत्मा और दिल को छोड़ उन्हें ये सब दे दें।”

अपने सभस्त इतिहास में ब्रिटेन जिस समय एक अत्यन्त नाजुक समय में से गुज़र रहा था गांधीजी को छोड़ और कौन ‘दू एवरी ब्रिटेन’ (हरेक अंगरेज से) शर्पिक ऐसी संस्मरणीय और अमर अपील जारी कर सकता था ! उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की कि कहीं दुनिया मुझे दूसरी तो नहीं और अपने दिल के गहरे और सच्चे भाव प्रकट कर दिये। शन्तों की दो-दो विजयों की निःसारता इन दो घृन, पसीना और आंसुओं की

नदियां वहाने वाले महाभयंकर महायुद्धों ने स्पष्ट रूप से प्रकट कर दी। नेपोलियन को पराजित करने का अपूर्व सम्मान पानेवाले ड्यूक आवै वेलिंगटन ने कहा था “पराजय को छोड़ विजय से अधिक भयंकर चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी।” ड्यूक की इन अत्यन्त अथेपूर्ण भविष्यवाणी को संसार भुला देगा तो उसे बुरी तरह पछताना होगा। वह अटलांटिक चार्टर भी अब तो मर चुका, पर उसम भा यह मंजूर किया गया था कि “संसार के तमाम राष्ट्रों को वास्तविकता की दृष्टि से या आध्यात्मिकता की दृष्टि से भी पशुबल के त्याग पर ही आना होगा।” और अब तो वैज्ञानिक प्रगति रहस्यमय परमाणु वम तक जा पहुंची है। वह हमें मजबूर करेगी कि अब हम हिंसा के मार्ग को छोड़ कर वहादुरां की अहिंसा का विकास करें। निर्भय और सबल अहिंसा परमाणु वम से भी भयंकर अस्त्र का मुकाबला कर सकती है, क्योंकि अहिंसक योद्धा तो पराजय को नहीं जानता। जो राष्ट्र सचमुच अहिंसक है वह उन्मत्त आक्रमणकर्ता के सामने झुक कर, उसकी मातहती और बफादारी मंजूर करने के बजाय हंसते हुए मर-मिट्ना पसन्द करेगा।

परंतु गांधीजी स्वप्नदर्शी नहीं हैं। वे अत्यन्त उच्च-कोटि के यथार्थ-वादी और व्यावहारिक आदर्शवादी हैं। अपने देश की मर्यादाओं को वे खूब अच्छी तरह जानते हैं। अगर भारत केवल अहिंसक फौज को ही रखना मंजूर करते तो उन्हें सचमुच बड़ा सुख होगा, परंतु वे जानते हैं कि यह आदर्श तत्काल साध्य होने लायक नहीं है। “हिन्दुस्तान विवश होकर अपनी वेइजती होती दृखता रहे इसके बजाय तो मैं यह पसन्द करूँगा कि वह शस्त्र धारण करके अपने सम्मान की रक्षा करे।”^१ वे कहते हैं—

“आह ! आज मेरे स्वराज्य में सिपाहियां के लिए स्थान है। स्वराज्य में हम बुद्धिमान, अनुशासन-बद्ध और शिक्षित पुलिस दल भी रखेंगे। और वह भीतरी शांति की रक्षा करेगा और देश को बाहरी आक्रमणों से भी

बचावेगा, अगर तब तक मैंने या और किसी ने इनमें से किसी का भी प्रतिकार करने का कोई दूसरा अच्छा रास्ता नहीं हूँड़ निकाला ॥^१

गांधीजी की कल्पना में भारत की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पुलिस का दल काफी होगा। वह आज की फौज और पुलिस दोनों से भिन्न होगा।

“उसमें अहिंसा के मानने वाले सिपाही होंगे। वे जनता के मालिक नहीं सेवक होंगे। उनके पास किसी क्रिस्म के हथियार भी ज़रूर होंगे, पर इनका उपयोग यदि करना ही पड़ा तो बहुत क्वचित् ही किया जायगा। असल में पुलिस के आदमी सुधारक होंगे।”^२

राष्ट्रीय पुलिस पर अ० भा० पंचायत का पूरा नियन्त्रण होगा। वह एक सेनापति की नियुक्ति करेगी। वही राष्ट्र रक्षा के महकमे का संचालन करनेवाला मन्त्री भी होगा। राष्ट्रीय पुलिस दल में केवल भारतीय ही होंगे, यद्यपि समय-समय पर विदेशियों से आवश्यक विशेष सलाह भी ली जा सकेगी।

इस अध्याय को समाप्त करने से पहले भावी विधान में राष्ट्र-रक्षा के प्रश्न का तुलनात्मक दृष्टि से क्या महत्व है, इस पर विचार कर लेना ज़रूरी है। यद्यपि इस युद्धरत संसार में राष्ट्र रक्षा का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है तथापि गांधीजी के कल्पनागत स्वतन्त्र भारत में हमें आक्रमणों से इतना नहीं डरना चाहिए। इसके कारण ये हैं:—

(अ) भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि से भारतवर्ष की स्थिति ऐसी है कि उस पर कभी कोई एक राष्ट्र वर्गेर संसारव्यापी महायुद्ध को निमन्त्रण दिये आक्रमण ही नहीं कर सकता।

(आ) भारतवर्ष अपना भीतरी आर्थिक संगठन पूर्णतया स्वावलम्बन के आधार पर कायम करेगा। दूसरे देशों पर वह कभी अपना साम्राज्य कायम करना नहीं चाहेगा और न उसे विदेशी बाजारों

को अपने कब्जे में करने की दौड़ में शारीक होना है। इस प्रकार आंतर्राष्ट्रीय-संत्रप्ति की संभावनाएं काफी घट जाती हैं।

(इ) चूंकि स्वावलम्बी ग्राम-पद्धति वाले भारत में वैदेशिक व्यापार के लिए बहुत कम अवकाश होगा, विदेशी सत्ताओं को इस देश पर आक्रमण करने के लिए प्रलोभन भी बहुत कम होंगे।

इसके अलावा अगर गांधीजी के प्रेरक नेतृत्व में भारत कहीं अहिंसक साधनों से आज्ञाद होगया तो वह संसार के युद्धमान राष्ट्रों के बीच में निश्चित रूप से सद्भाव और शान्ति की ज़बरदस्त शक्तियों को संचालित कर देगा। जैसा कि गांधीजी कहा करते हैं, भारत की स्वतन्त्रता और स्वावलम्बन का सीधा अर्थ होगा अनाक्रमण और आंतर्राष्ट्रीय सद्भाव।

: १४ :

अल्प संख्यकों की समस्या

अल्प संख्यकों की समस्या केवल हिन्दुस्तान की राजनीति की ही विशेषता नहीं है, यह समस्या तो सभी जगह है। संसार के प्रत्येक राज्य में थोड़ी बहुत मात्रा में वे-मेल तत्व रहते ही हैं और प्रत्येक देश में छोटी संख्या वालों के अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय परम्पराओं के अनुसार उचित रक्षा की गई है। परन्तु अंगरेजी सरकार अपनी तोड़-फोड़ की सनातन साम्राज्यवादी नीति के अनुसार हिन्दुस्तान के साम्राज्यिक सवाल को भड़कीले रंगों से रंगती आई है, और संसार को यह बताती रही है कि यहां के हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं; और यह कि कहीं अंगरेज यहां से चले गये तो देश में तुरन्त घृह-युद्ध छिड़ जायगा। उनकी किस्मत भी काफी तेज़ है। जिन्ना साहब जैसे एक

बचावेगा, अगर तब तक मैंने या और किसी ने इनमें से किसी का भी प्रतिकार करने का कोई दूसरा अच्छा रास्ता नहीं ढूँढ़ निकाला ॥३

गांधीजी की कल्पना में भारत की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पुलिस का दल काफी होगा। वह आज की फौज और पुलिस दोनों से भिन्न होगा।

“उसमें अहिंसा के मानने वाले सिपाही होंगे। वे जनता के मालिक नहीं सेवक होंगे। उनके पास किसी किस्म के हथियार भी ज़रूर होंगे, पर इनका उपयोग यदि करना ही पड़ा तो बहुत क्षमित् ही किया जायगा। असल में पुलिस के आदमी सुधारक होंगे।”^२

राष्ट्रीय पुलिस पर अ० भा० पंचायत का पूरा नियन्त्रण होगा। वह एक सेनापति की नियुक्ति करेगी। वही राष्ट्र रक्षा के महकमे का संचालन करनेवाला मन्त्री भी होगा। राष्ट्रीय पुलिस दल में केवल भारतीय ही होंगे, यद्यपि समय-समय पर विदेशियों से आवश्यक विशेष सलाह भी ली जा सकेगी।

इस अध्याय को समाप्त करने से पहले भावी विधान में राष्ट्र-रक्षा के प्रश्न का तुलनात्मक दृष्टि से क्या महत्व है, इस पर विचार कर लेना ज़रूरी है। यद्यपि इस युद्धरत संसार में राष्ट्र रक्षा का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है तथापि गांधीजी के कल्पनागत स्वतन्त्र भारत में हमें आक्रमणों से इतना नहीं डरना चाहिए। इसके कारण ये हैं:—

(अ) भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि से भारतवर्ष की स्थिति ऐसी है कि उस पर कभी कोई एक राष्ट्र व्यैर संसारव्यापी महायुद्ध को निमन्त्रण दिये आक्रमण ही नहीं कर सकता।

(आ) भारतवर्ष अपना भीतरी आर्थिक संगठन पूर्णतया स्वावलम्बन के आधार पर कायम करेगा। दूसरे देशों पर वह कभी अपना मामान्य कायम करना नहीं चाहेगा और न उसे विदेशी चाज़ारों २ दरिजन—१-८-१६४० १ ‘यंग इण्डिया’ ७-५-१६२५

“मुसलमानों के सम्बन्ध में हमारे बीच जो मतभेद है, उसे मैं नहीं बढ़ाऊँगा। सिर्फ़ मैं एकबार आदर पूर्वक आपको यह दिखा देना चाहता हूँ कि मुसलमानों को भड़काने वाली सबसे पहली चीज़ शुरू में दिया गया आपका भाषण ही था।”^१

ऐसे मैकडोनल्ड ने अपनी किताब “अवेकनिंग इन इण्डिया” में भी अपनी यह स्पष्ट राय जाहिर की है कि हिन्दुस्तान में जातीयता के आधार पर चुनाव जारी करने की पद्धति की ज़िम्मेवारी अंगरेज़ अफसरों पर है। भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता में विध्वंश खड़ा करने वाली यह घटना कैसे घटाई गई इसपर नीचे लिखे उद्धरण से काफी प्रकाश पड़ता है। लेडी मिंटो को किसी ऊँचे अंगरेज़ अफसर ने एक पत्र लिखा था, उसमें से उन्होंने अपनो डायरो में यह नोट किया है। पत्र में लिखा है—

“मैं आप को एक लाइन में यह भी लिख दूँ कि आज एक बहुत बड़ी राजनीतिज्ञता की बात हो गई है, जिसका असर हिन्दुस्तान के इतिहास पर कई वर्षों तक रहेगा। सवा छुः करोड़ की सारी आवादी को राजद्रोही विरोध से खोंचकर अलग करनेवाला यह एक ज़बरदस्त काम हुआ है।”^२

इस आरोप को खुद सरकारी कागजों में भी मंजूर किया गया है। विधान-संशोधन के लिए भेजे गये सायमन कमीशन की ‘इण्डियन सेंट्रल कमिटी’ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि “उस समय पृथक् निर्वाचन के लिए खुद मुसलमानों की तरफ से कोई मांग नहीं थी। उन्होंने तो यह तब पेश की जब एक अंगरेज़ अफसर ने, जिसका नाम प्रसिद्ध है, उन्हें उकसाया।” (पृ ११७)

इस प्रकार हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच जो खाईं पैदा की गई, उसे पाठने के लिए सच्चे दिल से उठाया गया पहला सफल क़दम सन्-

१ वाइकाउन्ट मोर्ले—रिकलेक्शन्स जिल्द दूसरी प० ३८५।

२ “न्यू अप्रोच दु दी काम्यूनल प्रावलेम” में उद्धृत—डॉ० राधाकुमार मुकनी—प० ४

अच्छे साधन भी उन्हें मिल गये, जो जान में या अनजान में उनके हाथों में, ठीक उनकी योजना के अनुसार खेलने रहते हैं।

हिन्दुस्तान की साम्राज्यिक समस्या का अगर ध्यान से अध्ययन किया जाय तो मालूम होगा कि अंगरेज लोग हिन्दुस्तान की राजनीति में साम्राज्यिकता का ज़हर चिल्कुल पद्धति-पूर्वक फैलाते रहे हैं। उन्नीसवीं सदी के अंत तक यह सरकार मुसलमानों का बहुत शक करती रही है, क्योंकि उसने उनसे यह की राजसत्ता छीनी थी। परन्तु बीसवीं सदी के प्रारम्भ में उसने जान लिया कि हिंदू-मुसलिम एकता उसके साम्राज्य के लिए कितनी खरनाक चीज़ सावित होगी। इसलिए इसके बाद से विदेशी राज्यकर्ताओं ने खूब मोच-समझ कर योजना पूर्वक इस देश में साम्राज्यिक वैमनव्य के बीचों का बोना शुरू कर दिया। सन् १९०६ के अक्टूबर की पहली तारीख हमारे देश के इतिहास में वह अशुभ दिन था जब कि हिंज हाइनेस आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्ट मण्डल तत्कालीन वाइसराय लार्ड मिशेल की सेवा में उपस्थित हुआ। हिंज हाइनेस आगा खां ने उनको एक मानपत्र समर्पित किया और गिष्ट-मंडल ने वाइसराय से विनती की कि वे मुसलमानों को स्थानीय, प्रान्तीय और केन्द्रीय चुनावों में एक स्वतन्त्र जाति मान लें। स्वर्गीय मीलाना मोहम्मद अली ने इस शिष्ट मण्डल को कठपुतली का खेल करकर बहुत कडे शब्दों में निर्दा की थी। और अब तो यह बात दस्तावेजों से मिद्द होगई कि इस शिष्ट मण्डल के पीछे कुछ अंगरेज अफगानों की प्रेरणा थी। शायद उसका ममविदा मिं आर्च-बालट ने तैयार किया था जो उस समय अलीगढ़ कालेज के प्रिन्सिपल थे। गिष्ट-मण्डल को लार्ड मिशेल ने जवाब दिया—“मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ।” और उन्होंने इस अपागे देश में पृथक् निर्वाचन का प्रारम्भ कर दिया। लार्ड मोर्ले नाहने थे कि अल्प संख्यक जातियों के निकट कुछ जगहें जबर मुग्नित रख दी जायें, परं चुनाव तो समिलित ही हो। उन्होंने लार्ड मिशेल को नियमा :—

“मुसलमानों के सम्बन्ध में हमारे बीच जो मतभेद है, उसे मैं नहीं बढ़ाऊंगा। सिर्फ़ मैं एकबार आदर पूर्वक आपको यह दिखा देना चाहता हूं कि मुसलमानों को भड़काने वाली सबसे पहली चीज़ शुरू में दिया गया आपका भाषण ही था!”^१

रैम्से मैकडोनल्ड ने अपनी किताब “अवेक्निंग इन इरिडया” में भी अपनी यह स्पष्ट राय जाहिर की है कि हिन्दुस्तान में जातीयता के आधार पर चुनाव जारी करने का पद्धति की ज़िम्मेवारी अंगरेज़ अफसरों पर है। भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता में विद्वन् खड़ा करने वाली यह घटना कैसे घटाई गई इसपर नीचे लिखे उद्धरण से काफी प्रकाश पड़ता है। लेडी मिंटो को किसी ऊँचे अंगरेज़ अफसर ने एक पत्र लिखा था, उसमें से उन्होंने अग्रनो डायरो में यह नोट किया है। पत्र में लिखा है—

“मैं आप को एक लाइन में यह भी लिख दूँ कि आज एक बहुत बड़ी राजनीतिज्ञता की बात हो गई है, जिसका असर हिन्दुस्तान के इतिहास पर कई वर्षों तक रहेगा। सबा छः करोड़ की सारी आवादी को राजद्रोही विरोध से खींचकर अलग करनेवाला यह एक ज़बरदस्त काम हुआ है।”^२

इस आरोप को खुद सरकारी कागजों में भी मंजूर किया गया है। विधान-संशोधन के लिए भेजे गये सायमन कमीशन की ‘इरिडयन सेंट्रल कमिटी’ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि “उस समय पृथक् निर्वाचन के लिए खुद मुसलमानों की तरफ से कोई मांग नहीं थी। उन्होंने तो यह तब पेश की जब एक अंगरेज़ अफसर ने, जिसका नाम प्रसिद्ध है, उन्हें उकसाया।” (पृ ११७)

इस प्रकार हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच जो खाई पैदा की गई, उसे पाठने के लिए सच्चे दिल से उठाया गया पहला सफल कदम सन्

^१ वाइकाउन्ट मौर्लें —रिकलेक्शन्स जिल्द दूसरी प० ३८५।

^२ “न्यू अप्रोच दु दी काम्यूनल प्राव्लेम” में उद्धृत—डॉ० राधाकुमार मुक्जी—२० ४

१९१६ का लखनऊ पैकट था। परन्तु सरकार ने इसे अपनी पुरानी तरकीब से अर्थात् इस पैकट में मुसलमानों को जो कुछ दिया गया था उससे ज्यादह देकर इस पैकट को तुरन्त असफल कर दिया। सन् १९१६ के मार्टेम्यू चैम्पफोर्ड सुधारों में साम्राज्यिक चुनावों के प्रति वडे-वडे शब्दों में नापसन्दगी ज़ाहिर करने हुए भी, उसी झर्हाली पद्धति को कायम रखा गया जो कि वद्दकिस्मती से आज तक जारी है। पृथक निर्वाचन और धारासभाओं में जातियों के लिए स्थास संख्या में जगहें सुरक्षित रखने तथा मुसलमानों के लिए विशेष रूप से उत्तरोत्तर अधिक जगहें (वेटेज) बढ़ाते रहने की नीति का ही स्वाभाविक और तर्कसम्मत परिणाम यह पाकिस्तान की मांग है। इसलिए पाकिस्तान का निता इकबाल, रहमत अली या जिन्ना नहीं, बल्कि लार्ड मिल्टो है।^१

इन पृष्ठों में पाकिस्तान के हैवे का परीक्षण करने की जरूरत नहीं है। इस विषय पर काफी साहित्य भरा पड़ा है।^२ जिजासु पाठक उसे पढ़ लें। यहां पर तो इतना ही कह देना काफी है कि पाकिस्तान का यह नारा एक दम अव्यावहारिक है। न उसमें बुद्धि है, न भलाई। हिन्दू और मुसलमान अलग-अलग गए हैं, यह बात ही किसी की बुद्धि को नहीं पाठ सकती।

“दिनुस्तान के दुकड़े-दुकड़े ही यह अमध्य है। दिन्दू धर्म और दस्ताम की मंसूनि और मिदान्त परस्पर विरोधी हैं इस कल्पना के विलाफ मेरी मारी आत्मा घगत करती है। इस विचार के विलाफ मुझे

१ सन् १९३३ में केनिङ्ग के रहमतअली नामक एक पंजाबी ब्रेज्युएट ने पाकिस्तान शब्द का आविष्कार किया। यह पंजाब, आफ़-गानिस्तान, काश्मीर, मिन्द और बन्दुचिस्तान इन पांच प्रदेशों के नामों से अलग लेकर बनाया गया है।

२ इस विषय पर पाठर नीचे लिखी किताबें खाली तौर पर पढ़ें—

१. कम्यूनल दायंगल-अशोर मेहना और अच्युत पटवर्धन।

२. ईंडिया इयाइट—गोन्ड्रमाड।

३. पाकिस्तान और पार्टिशन आॅफ़ ईंडिया—डॉ० अन्देश्वर।

बगावत करनी पड़ेगी कि करोड़ों हिन्दुस्तानी, जो अभी तक हिन्दू थे, इस्लाम का स्वीकार करते ही अलग राष्ट्र बन गये ।”^१

फिर पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों का सवाल भी तो हल नहीं होता । इससे तो वह उल्टा और अधिक उलझता है । इसके मान लेने के बाद पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के करोड़ों हिन्दू और मुसलमान फिर अपने-अपने अधिकारों की रक्षा की आवाज उठावेंगे । हिन्दुस्तान के टुकड़े-टुकड़े करने पर देश-रक्षा की दृष्टि से राष्ट्र बड़ा कमज़ोर हो जायगा । आर्थिक हानि भी जबरदस्त होगी, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी हिन्दुस्तान एक बहुत छोटी शक्ति रह जायगा । प्रो० कूपलैण्ड लिखते हैं— “हिन्दुस्तान का संयुक्त राष्ट्र आनेवाले वर्षों में संसार की महान सत्ताओं में एक होने की आशा रख सकता है ।” इसके विपरीत अगर इस देश के टुकड़े कर दिये गये तो हम अपना स्वाभाविक विकास भी नहीं कर पावेंगे ।

सच तो यह है कि गांधीजी जिस अहिंसक राज की कल्पना कर रहे हैं, उसमें तो छोटी जातियों की समस्या ही खड़ी नहीं होगी; क्योंकि अहिंसा के मानी हैं सहिष्णुता और एक दूसरे के अधिकारों के प्रति आदर । उसमें तो भय, अविश्वास, अरक्षा का कोई कारण ही नहीं रहेगा । पाकिस्तान या टुकड़े-टुकड़े करने की मांग की कोई जरूरत नहीं रहेगी । वह अनावश्यक होगी ।

पर चूंकि गांधीजी अहिंसा के माननेवाले हैं इसलिए अगर मुसलमान सचमुच अङ जावेंगे कि पाकिस्तान हो ही तो, गांधीजी उसका प्रतिकार जोर-जबरदस्ती से न कर अहिंसात्मक उपायों से करेंगे । उन्होंने कहा था, “भारत की चीर-फाइ में मेरा स्वेच्छापूर्वक सहयोग तो हरगिज नहीं मिल सकेगा, बल्कि उसे रोकने में हर प्रकार के अहिंसक उपाय को काम में लूंगा । क्योंकि असंख्य हिन्दू और मुसलमान सदियों से जो एक साथ मिल कर रहने का यत्न करते रहे हैं उसको यह कदम मटियामेट कर देगा ।”^२

१ ‘हरिजन’ १३-४-१६४०

२ ‘हरिजन’ १३-४-१६४०

हिन्दुस्तान को एक या अधिक टुकड़ों में बांटने से व्यवहारतः राष्ट्रीय हृषि से उसकी आत्म-दत्त्या ही हो जायगी। इसलिए जहाँ गांधीजी किसी भी प्रदेश के बांटने या अलग होने के हक को मंजूर कर लेंगे, वहाँ उनकी अदिमा उन्हें अपने राष्ट्र की चौर-फाड़ का प्रतिकार करने में अपनी सारी नैतिक और आध्यात्मिक ताकत लगा देने की, बल्कि इस प्रयत्न में अपने-आपको खत्म तक कर देने की, प्रेरणा करेगी।

यह खुशी की बात है कि अभी मुसलमानों में भी सद्भाव की कमी नहीं है। पर अंगरेज सम्कार हमारे छोटे-से-छोटे भेदभाव को तिल का ताढ़ बना कर आग में धी डालने पर तुली हुई है। अगर विदेशी शासक ईमानदारी से सत्ता सौंपने के लिए तैयार हो जावें तो यह साम्राज्यिक मसला तो गतभर के अन्दर-अन्दर हल हो सकता है। अंगरेज भले ही अपनी जवान से कहने रहे कि हम हिन्दुस्तान के टुकड़े-टुकड़े नहीं करना चाहते। परन्तु मुझे भय है कि वे अन्त में पाकिस्तान से मिलना-जुनना कोई फैसला हमारे सर पर लादे बर्गेर नहीं रहेंगे। अतः उन्हें हमें अब साफ कड़ देना चाहिए कि वे अपनी फूट फैलाकर शासन करने की कुटिल नीति को छोड़ दें। पथक निर्वाचन की तुगड़ उन्हींने शुरू भी। अब न्याय और ईमानदारी के नाम पर उन्हें फूट दी अपनी नीनि बटल देनी चाहिए। वे यह न समझ लें कि गननीनि में केवल वे ही होशियार हैं। अगर कहीं मालभर के लिए भी हिन्दूस्तान का क्रिटेन पर शासन हो जाय तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और ऐस्ट्रेलिया के चाही शासनी में पुरुष-पुरुष गष्ट मिछ किया जा सकता है और समाज को यह बनाया जा सकता है कि वे अलग-अलग होने की पुरानी रुद्धि है, अन्त उसके लिए लड़ भी रहे हैं।

गांधीजी द्वारा प्रयागों के प्रनुसार भारत के भावी विधान में नीने नियंत्रित होने पर ऐसे देश अल्पगंभीरों का प्रश्न भी उल किया जा सकता है—

(ए) गांधीजी अनियंत्रों के प्रनुसार नमाम जानियाँ की मुम्हृति, भागा,

लिपि, शिक्षा और धर्म के आचरण और पालन तथा सामाजिक रीति-रिवाज और व्यक्तिगत नियमों की पूरी रक्षा की जायगी।

(आ) प्रत्येक प्रदेश को अपनी सीमा के अन्दर आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक विषयों में पूरी स्वतन्त्रता होगी। और जब हमारा ग्रामीण समाज स्वावलम्बी तथा स्वयं-शासित बन जायगा, तब वैधानिक दृष्टि से अल्पसंख्यकों की समस्या पूरी तरह हल हो चुकी होगी।

(इ) हमारे विधान का आधार सम्मिलित निर्वाचन पद्धति होगी। उसमें अल्पसंख्यक जातियों के लिए एक निश्चित संख्या में जगहें सुरक्षित रहेंगी और इसके अलावा भी अन्य जगहों के लिए खड़े रहने की स्वतन्त्रता उन्हें होगी। गांधीवादी विधान में अल्पसंख्यकों के लिए इस प्रकार जगहें सुरक्षित रखने की भी जरूरत नहीं रहेगी। संक्रमण-काल के लिए भले ही यह व्यवस्था अस्थायी तौर पर उसमें रखली जा सकती है।

(ई) मताधिकार तमाम वालिंग स्त्री पुरुषों के लिए होगा। इसमें किसी प्रकार की कैद या मेदभाव नहीं रखा जायगा।

(उ) सरकारी नौकरी में उम्मीदवारों की नियुक्तियाँ निष्पक्ष कमीशनों द्वारा की जावेंगी। शासन के काम की उत्तमता का ध्यान रखते हुए उसमें सब जातियों को उचित अनुपात में स्थान मिलेगा।

अल्पसंख्यकों के अधिकारों और प्रतिनिधित्व की तकसीलें बनाने के लिए विधान निर्माणी परियद् अपनी एक कमिटी नियुक्त करदे। वह इन्हें बना लेगी। अगर आवश्यक मालूम हो तो अन्तिम निर्णय एक अन्तर्राष्ट्रीय पंचायत बोर्ड पर छोड़ दिया जाय। पर ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों में से कोई उस पंचायत का सदस्य न हो।

लेकिन जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, आप कागज पर चाहे कितना ही अच्छा विधान बना लीजिए, और उसमें अधिकारों की रक्षा का चाहे कितना ही निश्चय दिलाया गया हो, परंतु वास्तव में यदि दोनों पक्षों में आवश्यक मात्रा में सद्भाव न होगा तो यह सब कुछ भी काम देने वाला

नहीं है। जातियों के नेता और प्रतिनिधि-अगुआ इस सद्भाव को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।

“अपनी वाणी और प्रत्यक्ष कार्यों द्वारा, संयत भाषा में मौलिक अधिकारों की उचित समय पर हिमायत करके, व्यवस्थित आचार द्वारा, प्रसंगोचित दृढ़ता द्वारा, अपने कार्य की न्याय्यता तथा युक्तिसंगतता बताकर, सर्व-सामान्य प्रवृत्तियों या हलचलों को तथा संगठनों को हर तरह का प्रोत्त्वाद्वय देकर और फ़ूट तथा अलगाव की भावना को कठोरता के माथ दबाकर भारत की अल्पसंख्यकों की समस्या को, जिस रूप में आज हम उसे देखते हैं, आज और हमेशा के लिए, सर्वत्र और सब तरह से सुलभाया जा सकता है।”^१

हमारे देश के हिन्दुओं और मुसलमानों के सामने सबसे बुनियादी समस्या तो है देश में फैली हुई भयंकर कंगाली। इस सर्वसामान्य आर्थिक कष्ट के मकाबले में साम्प्रदायिक प्रश्न तो विलकुल तुच्छ, नगएय-सा हो जाता है। स्वराज्य के आते ही राष्ट्र की सरकार को सबसे पहिले जनता की गहन-सद्व्यवहार को ऊचा उठाने के प्रश्न पर अपना सारा ध्यान केन्द्रित कर देना होगा। तब अल्पसंख्यकों की समस्या मुवह के कुदरे की तरह चात-की-चात में अदृश्य हो जावेगी। गांधीजी कहते हैं—

“ज्ञानीय प्रश्न का हल हमारे स्वराज्य शासन के विधान की बुनियाद नहीं, कलश होगा। क्योंकि हमारे आपसी भेदभाव अगर विदेशी सत्ता के सामग्री पेंडा नहीं हुए तो दृढ़ जम्हर हुए हैं। मुझे दूसरे तनिक भी संटेट नहीं हि ज्ञानीय मेदभान का यह तंत्रज्ञा है। वरक का पशाइ न्यतन्यता के मूर्य एं गम्भी में विवल कर नष्ट हो जायगा।”^२

^१ लिंग वादगार्ही—एम० एन० दलाल—पृ० १६३
^२—“रि ऐम जार इगरार”—पृ० १०३

: १५ :

वैदेशिक नीति

पं० जबाहरलालजी नेहरू की व्यापक हाइ की बदौलत हिन्दुस्तान ने अन्तर्राष्ट्रीय जगत में एक निश्चित और काफ़ी उदार वैदेशिक नीति का विकास कर लिया है। समस्त संसार में हमारी राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) शायद सबसे पहली राजनैतिक संस्था थी जिसने फासिस्ट शक्तियों की खुशामद करनेवाली नीति की, जिसकी परिणति भ्यूनिच का शर्मनाक इकरानामा था, निन्दा की थी। कांग्रेस ने चीन पर जापान के आक्रमण के खिलाफ भी अपनी आवाज़ उठाई थी। स्पेन के भीतरी विद्रोह और बाहरी आक्रमण के समय उसकी सरकार की बहादुराना लड़ाई में भी कांग्रेस ने साथ दिया था। गत महायुद्ध में भी कांग्रेस मित्र राष्ट्रों के पक्ष में अपनी पूरी ताकत लगा देने को तैयार थी अगर उसे तुरन्त पूरी स्वतंत्रता दे दी जाती। और आज इरानेशिया के राष्ट्रीय आन्दोलन को दबाने के लिए हिन्दुस्तानी सिपाहियों का जो बुरी तरह उपयोग किया जा रहा है, हिन्दुस्तानी नेताओं ने इसकी कड़ी-से-कड़ी निंदा की है। इससे अपने पड़ोसियों के प्रति भी इस देश का रुख प्रकट है। फिर भी भारत के भावी विधान में उसकी वैदेशिक नीति को साफ-साफ शब्दों में प्रकट कर देना उचित होगा। इसके खास-खास मुद्दे ये होंगे:—

(अ) सम्पूर्ण समानता के आधार पर हिन्दुस्तान की जनता अपने पड़ोसियों और दुनिया के तमाम अन्य राष्ट्रों के साथ शांति और मित्रता-पूर्वक रहना चाहती है।

हिन्दुस्तान अपने पड़ोसी राष्ट्रों के प्रदेशों पर बुरी नजर नहीं रखता। वह दूसरों की स्वतंत्रता का आदर करेगा और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव और मेल कायम करने की कोशिश करेगा।

(आ) व्यापार और व्यवसाय द्वारा हिन्दुस्तान दूसरे देशों का आधिक

शोषण नहीं करेगा, और न वह दूसरों को अपना शोषण करने देगा। पारस्परिक लाभ और समृद्धि के आधार पर ही वह दूसरे देशों के साथ व्यापारिक सम्बंध जोड़ेगा।

(इ) हिन्दुस्तान का विश्वास है कि स्वतंत्र राष्ट्रों का संसारव्यापी संघ स्थापित होने पर ही भविष्य में शांति और व्यवस्थित प्रगति की आशा हो सकती है। ऐसे जागतिक संघ की स्थापना होने पर ही संसार में तमाम देशों का निःशब्दीकरण हो सकेगा। राष्ट्रों की खानगी सेनाएं, नौसेना दल और हवाई सेना की तब जरूरत न होगी। तब संसार की संरक्षक सेना आक्रमणों को रोकेगी और संसार में शांति की रक्षा करेगी। स्वतंत्र भारत ऐसे जागतिक संघ में प्रसन्नता पूर्वक शरीक होगा, और समानता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलभाने में सहयोग देगा। (द अगस्त १९४२ के प्रस्ताव का अंश)

(इं) शांति, स्वतंत्रता और जनतत्र की स्थापना के लिए यत्नशील संसार की तमाम राष्ट्रीय, जनतंत्री और समाजवादी शक्तियों को हिन्दुस्तान का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा और आक्रमण-कर्ता के खिलाफ बनाई गई हर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक योजना में शरीक होने के लिए वह हमेशा तैयार रहेगा।

(उ) सामुद्रिक सुरक्षा के साधनों के संगठन और संचालन में यद्यपि भारत सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, तथापि किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता के अपहरण या दबाने में किसीको भी उसका सहयोग कभी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

(ऊ) जाति, वर्ण, या आर्थिक और सास्कृतिक पिछड़ेपन आदि के किसी भी प्रकार के भेदभाव का ल्याल न करते हुए हिन्दुस्तान तमाम द्वंद्व-वडे राष्ट्रों की पूर्ण स्वतंत्रता का हिमायती है। किसी भी हालत में एक देश को किसी दूसरे देश पर गम्भीरने का अभिकार नहीं।

: १६ :

अर्थ और कर

हिन्दुस्तान की वर्तमान अर्थ और कर पद्धति अत्यन्त अन्याय-युक्त और वेहूदा है। इसलिए उसे एकदम बदल कर उसकी नये सिरे से रचना करनी होगी। भारत के भावी विधान में नीचे लिखे महत्वपूर्ण मुद्दों का समावेश होना चाहिए।

(अ) राष्ट्रीय आमद-खर्च में उचित प्रकार से विकेन्द्रीकरण कर दिया जाय, जिससे प्रत्येक स्थान सच्चे अर्थों में स्वशासित बन जाए। गांवों में एकत्रित जमीन के लगान का कम-से-कम आधा हिस्सा ग्राम-पंचायतों को दे दिया जाय।

(इ) गांवों के दूसरे जरूरी खर्चों का प्रबन्ध ग्राम-पंचायतें फसली चन्दा व्यक्तिगत दान, पंचायत शुल्क, जुर्माने और चराई आदि के रूपों में कर इकट्ठा करके करेंगी। ग्रामीणों द्वारा नकद के रूप में कर लेने के बजाय श्रम के रूप में कर लेने की पद्धति को प्रोत्साहन दिया जायगा।

(आ) जमीन के लगान के शेष आधे हिस्से का बंटवारा ज़िला, प्रांत और अखिल-भारत-पंचायत के बीच किस प्रकार हो, इसका निर्णय विधान निर्मात्री समिति द्वारा नियुक्त साधिकार कमीशन करेगा।

(ई) सरकारी नौकरियों और फौजों में ऊपर के अधिकारियों को अत्यधिक वेतन देने की पद्धति लगभग निरूप ल करदी जायगी। विदेश से लाये गये विशेषज्ञ इसके अपवाद होंगे। किसी भी सरकारी नौकर को मासिक ५००) से अधिक वेतन नहीं दिया जायगा।

(उ) स्वास्थ्य, शिक्षा और संशोधन जैसे सार्वजनिक उपयोग के महकमों पर अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में खर्च किया जायगा।

(ऊ) सरकार द्वारा देश में या बाहर लिये गये गैर-वाजिब सार्वजनिक कर्ज का देनदार स्वतन्त्र भारत नहीं होगा।

- (ए) एक निश्चित रकम से ऊपर मिलने वाली खेती की आय पर श्रेणीबद्ध कर लगा दिया जायगा।
- (ऐ) एक निश्चित रकम से ऊपर की जायदाद की विरासत पर एक क्रम-बद्ध कर लगा दिया जायगा।
- (ओ) आयकर प्रांतीय आमद का साधन होगा।
- (औ) नमक पर कोई कर नहीं होगा। वह हवा के जैसा सुलभ होगा।
- (अं) चूंकि स्वतंत्र भारत में शराब और मादक द्रव्यों की पूरी वंदिश होगी, इसलिए मादक द्रव्यों के कर से कोई आवकारी आमद नहीं होगी।
- (अः) नकद के बजाय उपज के रूप में, खास तौर पर देहातों में कर लेना अधिक पसन्द किया जायगा।

प्रांतीय और अखिल-भारत-पंचायत के आमद का मुख्य साधन सावंजनिक उपयोग के साधनों और मुख्य उद्योगों के संचालन से होने वाला मुनाफा होगा।

: १७ :

राष्ट्रीय समृद्धि

स्वराज्य शासन-विधान में खानगी जायदाद को उसके महज खानगी होने की बजाए ने ही मिटाया नहीं जायगा। समाज की वर्तमान लोभजन्य युराइयों से बचने के लिए इसके ज्ञेय को समित और मर्यादित ज़स्तर बना दिया जायगा। आज नीचे लिखे प्रकार की सम्पत्ति पर ग्रानगी पूर्जीपतियों का स्वामित्व है। स्वतंत्र भारत में वह राष्ट्र की सम्पत्ति बन जायगी:—

- (अ) नमाम बर्मान पर गप्टू का स्वामित्व होगा। ज़र्मांदारी पद्धति और ज़र्मान पर ग्रानगी मिलियत की पद्धति का अन्त होगा। खुद खेतों

करने वाले किसानों को सरकार की तरफ से लम्बी मियाद पर काश्त के लिए ज़मीने किराये पर दी जायेगी।

- (आ) तमाम मुख्य-मुख्य उद्योगों पर राष्ट्र का स्वामित्व होगा। खानगों उद्योगपतियों को उनको संचालन का काम कमीशन के आधार पर दिया जा सकता है; पर वे बुनियादी उद्योगों के स्वामी नहीं हो सकेंगे और राष्ट्रीय साधन-सामग्री से मुनाफ़ा नहीं कमा सकेंगे।
- (इ) खाने, नदिया, जंगलात, सड़के, रेले, हवाई जहाज, डाक और तार, समुद्रो जहाज़ और यातायात के अन्य साधन राष्ट्र की सम्पत्ति होंगे।
- (ई) उपर्युक्त जायदादों में से जो खानगी व्यक्तियों के हाथों में होंगी उनको राष्ट्रीय सरकार अपने हाथों में ले लेगी। जहा आवश्यक होगा, अधिकार की उचित जॉन्च करने पर, पहले के स्वामियों को इनका उचित मुआवज़ा भी दे दिया जायगा।

: १८ :

शिक्षा

हिन्दुस्तान की वर्तमान शिक्षा-पद्धति हमारे राष्ट्रीय जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत को पूरा करने में नाकामयात्र रही है। हमारे समाज के जीवन और आर्थिक स्थिति से उसका कोई समर्पक तक नहीं, और न वह हमारे सामने कोई सुजनात्मक और प्रेरक आदर्श उपस्थित करती है इसलिए हमें स्वराज्य-विधान में शिक्षा-पद्धति में भी दूरगामी सुधार करने होंगे। नीचे लिखे मुद्दे उनमें से खास-खास होंगे:—

- (अ) बुनियादी शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होगी। वह. १४ वर्ष की उम्र तक के तमाम लड़कों और लड़कियों को दी जावेगी। शिक्षा का आधार कताई, बुनाई या खेती जैसी कोई उत्पादक कारीगरी होगी। हिन्दुस्तान जैसे गरीब देश में ऐसी शिक्षा से तीन प्रकार के लाभ होंगे—

१ - दे. स्वतन्त्र भारत के लिए गांधीवादी शासन-विधान

- (१) छोटे बच्चों को वह अच्छी तालीम और विद्यार्थियों को ठोस ज्ञान देगी।
- (२) शिक्षा का अधिकांश या आंशिक खर्च उसमें से निकल सकेगा।
- (३) विद्यार्थियों को साधारणतया वह किसी पेशे के लिए तैयार कर देगा।
- (आ) विद्यालयों में किसी प्रकार की शारीरिक सज्जा नहीं दी जायगी।
- (इ) पढ़ाई को तमाम श्रेणियों में शिक्षा का माध्यम प्रान्तीय भाषा होगी। शिक्षा का माध्यम अंगरेजी भाषा का होना हमारे देश में शिक्षण-विषयक एक अत्यन्त दुखदायी बात रही है। “उसने राष्ट्र की शक्ति का अपरिमित नाश किया है, विद्यार्थियों की उम्र घटा दी है और जनता से उन्हें बिछुड़ा दिया है। पढ़ाई को उसने अनावश्यक रूप से अत्यन्त मंहगी बना दिया है। अगर यही पद्धति जारी रही तो वह राष्ट्र की आत्मा का भी अपहरण कर देगी।”
- (ई) प्राम-पंचायतं जितना जल्दी सभव होगा निरक्षरता को भगावेंगी। परन्तु प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए वे केवल पढ़ने-लिखने पर ही आधार नहीं रखेंगी स्वास्थ्य, शरीर की सफाई, घर और गांव की सफाई, अच्छी खेती, सहकारिता, और नागरिक अधिकारों वर्गेरा सभवन्धी मामान्य ज्ञान उन्हें ज़बानी चातचीत और भाषणों द्वारा दे दिया जाया करेगा। यहां भी आधार तो कोई दस्तकारी ही होगी।
- (उ) विश्व विद्यालयों में ज्ञान तौर पर औद्योगिक शिक्षा और संशोधन का काम होगा।
- (ऊ) दृग् भानुक को एक मान अवैतनिक समाज-सेवा का काम करने पर ही पढ़यी दी जावेगी।

: १६ :

अपराध और सजा

पुराने जमाने में अपराधियों को या तो बहुत ही सख्त सजायें दी जाया करती थीं या उनके साथ वेहद भावुकता दिखाई जाती। संसार के प्रगतिशील देशों में अपराध-विज्ञान में बड़ी तरक्की हुई है। अब अपराध एक स्वाभाविक वस्तु नहीं रह गया है। यह सिद्ध होगया है कि दोष पूर्ण समाज रचना का यह परिणाम है। इसलिए जिस प्रकार अन्य शारीरिक या मानसिक रोग के रोगियों की चिकित्सा होती है, उसी प्रकार इनकी भी चिकित्सा होनी चाहिए। इसलिए गांधीजी अपराध को बुरा मानते हैं, पर अपराधी को नहीं। अपराधों का ध्यानपूर्वक वर्गीकरण करने पर ज्ञात होगा कि उनका मुख्य कारण गरीबी, दरिद्रता, वेकारी, अपश्रृंति शिक्षा और निराशामय दुर्व्वी गृह-जीवन है। इसलिए अगर अपराधों की संख्या घटाना है तो समाज का सारा वातावरण और परिस्थिति में आमूल सुधार करने की जरूरत होगी।

चीमारी हो, और फिर उसका इलाज करें; इसकी अपेक्षा उत्तम तो यही है कि वह दूर ही रहे। गांधीवादी विधान में जिस सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की आशा है, उससे देश में अपराधों की संख्या घट जावेगी।

पर यह मान लेगा भूल होगी कि स्वराज्य शासन में तमाम प्रकार के अपराधों का अपने आप अन्त हो जावेगा। स्वतन्त्र भारत में भी अपराध तो होंगे, सजायें भी दी जावेंगी। और जेलें भी रखनी ही होंगी। पर वे आज की जेलों से एकदम भिन्न प्रकार की होंगी। आज की जेलों में तो गुनहगार सुधरने के बजाय अधिक निर्लज्ज, बदमाश बनकर निकलते हैं, जिनके सुधार की सम्भावना बहुत कम रह जाती है। नये शासन-विधान में जेलें एक प्रकार के सुव्यवस्थित सुधार-घर होंगी। इस सम्बन्ध में यह

- (उ) प्रान्तीय और अखिल भारतीय महकमों के लिए कर्मचारियों की भर्ती इन पंचायतों द्वारा नियुक्त पब्लिक सर्विस कमीशन करेंगे। इन कमीशनों के सदस्य अत्यंत असाधारण योग्यता तथा चरित्रशील होंगे। उनका कार्य तीन वर्ष का होगा।
- (ख) कर्मचारियों की नियुक्ति, तरकी, अनुशासन, सेवा निवृत्ति; और पेन्शन वगैरा के नियम पब्लिक सर्विस कमीशन ही बनावेंगे।
- (ग) सरकारी नौकरियों में योग्यता, कार्यशक्ति, चरित्र, और राष्ट्र-सेवा की भावना का ध्यान रखकर ही भरती की जायगी। अल्पसंख्यक और पिछड़ी हुई जातियों के साथ पूर्ण न्याय हो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना जायगा। परन्तु स्वतन्त्र भारत के विधान को साम्राज्यिक प्रतिनिधित्व की कैदों से दूषित नहीं किया जायगा।
- (घ) रिश्वत, अनैतिकता और धोखा, बैंडमानी, व्यक्तिगत और साम्राज्यिकपक्षपात के दोषी नौकरों के साथ किसी प्रकार भी रियायत नहीं की जायगी। सार्वजनिक नैतिकता को कायम रखने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है।
- (ओ) कर्मचारियों को दफ्तर के काम को जमाने, शासन-संचालन तथा सार्वजनिक व्यवहार के नियमों की शिक्षा देने के लिए खास तौर पर देनिंग देनेवाली संस्थाएं खोली जावेंगी।
- (ओ) सरकारी नौकरी के लिए उभयीदलारों का चुनाव करते समय उन नौजवानों को पढ़ाए मौका दिया जायगा, जिन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी की लडाई में भाग लिया होगा।

: २१ :

विविध

भरडा

तिरंगा भरडा, जिसके बीच में चम्पा हो, स्वतन्त्र भारत का सरकारी भरडा होगा।

नाम घैरा

विधान निर्माणी सभा द्वारा नियुक्त खास समिति द्वारा स्वतन्त्र भारत के शासन-विधान में नाम हिन्दुस्तानी में रखे जायेंगे।

विधान में संशोधन

विधान को धाराओं बगैरा में रद्दोबदल करने का अधिकार अखिल भारत पंचायत को होगा। ये रद्दोबदल अखिल भारत पंचायत तथा प्रांतीय पंचायतों में पचहत्तर प्रतिशत बहुमत से मंजूर होंगे। अगर ये रद्दोबदल किसी खास प्रांत के सम्बन्ध में होंगे तो केवल उसी प्रांत की मंजूरी के लिए भेजे जायेंगे।

विधान की मौलिक अधिकार वाली धारायें सर्वोपारि न्यायालय की मंजूरी से ही संशोधन हो सकेंगी।

: २२ :

उहसंहार

- पिछले अध्यायों में वर्णित विधान को ऊपर-ऊपर से पढ़ने पर पाठकों को शायद यह प्रतीत हो कि यह भारत के वर्तमान भारी भरकम वेतन वाले अफसरों से भरे शासन-यन्त्र से बहुत भिन्न नहीं है। परन्तु जिन्होंने इसे ध्यान से पढ़ा है, वे देखेंगे कि विधान के सारे रुख और स्थृष्ट परिवर्तन हैं। इसमें ऐसी शासन-पद्धति की रूप-रेखा पेश की गई है, जिसका सबसे नीचे का हिस्सा खूब लम्बा-चौड़ा और फैला हुआ है।

यह आधार हमारी असंख्य ग्राम-पंचायतें हैं। ऊपर की पंचायतें ठीक-ठीक सलाह देने, विशेषज्ञों का मार्ग-दर्शन और जानकारी देने का काम करेंगी और समस्त ग्राम-पंचायतों की प्रवृत्तियों का समन्वय करती रहेंगी, जिसमें पंचायतों की शासन, और सेवा-शक्ति बढ़े और अधिक अच्छी हो ! परन्तु गांधीजी के कल्पना-गत स्वराज्य में नीचे के आधार-भूत संगठन राष्ट्र की नीति का निर्धारण करेंगे, न कि ऊपर के संगठन। सच तो यह है कि सारा दांचा उलट दिया जायगा। सारे शासन का संचालन ग्रामों के हाथों में चला जायगा।

इसके जबाब में यह कहा जा सकता है कि हिन्दुस्तान के गांव तो आज बहुत बुरी हालत में हैं। ग्रामवासियों में तुच्छ ईर्ष्या द्वेष है, झगड़े हैं, दलचन्दियां हैं। वे अपढ़े हैं। उनमें नागरिकता के भावों की जागृति अभी नहीं आई है। इसलिए उनमें बहुत अधिक विश्वास करके ग्राम-पंचायतों के हाथों में बहुत अधिक अधिकार देने में बहुत बड़ा खतरा है। परन्तु यह दलील गलत है। असल में विश्वास करने से विश्वास बढ़ता है। मानव स्वभाव का यह एक जबरदस्त सिद्धांत है और इसे उपयक्त दलील में भुलाया जा रहा है। अंगरेज लोग हमें आज तक यही कहते हैं कि हिन्दुस्तानी स्वराज्य संचलन की योग्यता नहीं रखते और हमने भी उन्हें हमेशा कहा है मुशासन स्वशासन की बराबरी नहीं कर सकता; क्या हर्रे हैं अगर हम गलतियां—बहुत बड़ी भूलें भी कर जावें। गलतियां करने करने ही तो हम सीख सकते हैं। इसलिए ग्राम-पंचायतों के हाथों में बहुत बड़े हिस्से में गजर्नानिक सत्ता देने से हमें उरना नहीं चाहिए। हाँ, यह हम भले ही धर्म-धोरे करें। पर हमाग उद्देश्य साफ़ माक स्वर में यही हो। इनमें हिंसा प्रकार का भ्रम न रहे। सुझे तो इसमें निन-माओ भी मन्देह नहीं कि हम स्वदेशी विधान के मातहत हमारे गाव ग्राम पूरा विश्वास कर सकेंगे और एकत्र फिर सच्ची और चिर सच्चाई जन-मना पद्धति के जगमगाने नमूने बन जावेंगे।

